

जेनाचार्य श्रीमद् बुद्धिसागरसुरि कृत.

॥ पूजा संग्रह ॥



श्रीमद् बुद्धिसागर सूरिजी ग्रंथमाला ग्रंथांक ६० मणको.

शास्त्रविशारद योगनिष्ठ जैनाचार्य श्रीमद् बुद्धिसागर
सूरिजी विरचित.

॥ पूजा संग्रह ॥

साणंद संघ तथा गोधावी संघना जैन सदगृहस्थोनी
द्रव्य सहायथी.

छपावी प्रसिद्ध करनार,

श्री अध्यात्मज्ञान प्रसारक मंरुल

हा. वकील मोहनलाल हीमचंद.

गु. पादरा.

आवृत्ति पहली. प्रत १०००.

संवत् १९७९ सन १९२२ महावीर सं. २४४९.

किंमत रु. १—०—०.

आ पुस्तक मळवानुं ठेकाणुं—

वकील मोहनलाल हीमचंद.

पादरा. (गुजरात)

तथा

गांधी आतमाराम खेमचंद.

साणंद. (गुजरात)

श्री प्रजाहितार्थे मुद्रालय प्रेसमां पटेल, डाह्याभाइ दलपतरामे
छाप्युं. ठे० शाहापुर नवीपोळ—अमदावाद.

निवेदन.

अध्यात्म ज्ञानप्रसारक मंडळ तरफथी, श्रीमद् बुद्धिसागर ग्रन्थमालाना ६० मणका तरीके पूजा संग्रह ग्रन्थ के जेना रचयिता, शास्त्रविशारद जैनाचार्य श्रीमद् बुद्धिसागर सूरि नी छे ते सं. १९७९ नी सालां प्रारंभमां बहार पडयो छे. तेनी किंमत रु. १-०-० राखवामां आवी छे. सूरिजी महाराज साहेबनी रचेली पूजाओं अपूर्व भाव रसवाळी अने अध्यात्मज्ञानभक्तिरसथी भरपूर छे. आ ग्रन्थ छपाववामां सदगृहस्थ जैनो तरफथी भेट मळवाथी किंमत जूज राखवामां आवी छे, आ मंडळ तरफथी सस्ती किंमते पुस्तको बेचाय छे, तेम जैन कोम सारी रीते जाणे छे. मंडळ तरफथी अनेक पुस्तको छपावीने बहार पाडवानी इच्छा थाय छे पण धनवंतोनी मदत विना ते कार्य बनी शके तेम नथी. मंडळनी पासे उत्तम फंड नथी. छातां ते सहायकारकोनी मदतथी उत्तम पुस्तको बहार पाडया करे छे. जे जे गृहस्थोए आ पुस्तक छपाववामां धननी मदत करी छे तेओनां सुवारक नापोने अत्र धन्यवाद पत्रमां छपाववामां आव्यां छे, तथा तेओए केटला रूपैयानी मदत करी छे ते पण धन्यवाद पत्रमां जणाव्युं छे. अध्यात्मज्ञानप्रसारक मंडळ तरफ-

४

थी तेओने धन्यवाद आबवामां आवे छे. जेओ अन्य पुस्तको छपाववामां सहाय करशे तेओनो उपकार मानवामां आवशे अने पुस्तकोमां आपेला रुपैयानी यादी सहित तेओनां नामोने अक्षरदेहथी अमर करवामां आवशे.

मु. पादरा.

अध्यात्मप्रसारक मंडळ.

सं. १९७९ कार्तिक पूर्णिमा.



५

धन्यवाद.

आ पूजासंग्रह ग्रन्थ गुरुराजश्री शास्त्रविशारद् जैनाचार्य योग-
निष्ठ श्रीमद् बुद्धिसागरजी महाराज ज्यारे संवत् १९७७ नी सखलनुं
चोमासुं श्री संघना आग्रहथी साणंदमां विराजता हता, त्यारे महेता
त्रिभुवनदास तथा चुनीलाल उमेद वगेरेण पोताना भाइना स्मरणार्थे
प्रसिद्ध करवा सहाय आपवानुं जणान्याथी तेपनी विनैतिथी मुरु-
महाराजे रच्यो छे. केटलोक भाग साणंदमां, केटलोक भाम महे-
साणामां अने केटलोक भाग गुरुराजश्रीए पोतानी जन्मभूमि
विजापुर शहेरमां बनावेल छे. आ उपयोगी ग्रन्थना प्रकटार्थे नीचै
जणावेल बंधुओ तरफथी द्रव्य सहाय मळी छे माटे ते आपनार
अने अपावनार अने अपाववानी अनुमोदना करनार सर्वेने धन्यवाद
आपवामां आवे छे तथा द्रव्य सहायकोनी नोंथ लेवामां आवे छे.
सद्ज्ञानना प्रगटार्थे द्रव्य सहाय सर्वे करतां अति उत्तम अने प्रशंस-
नीय छे, अने तेनुं फळ अनहद छे. ते दानवीरो जाणताज ह्यो.

३००-०-० महेता गोविंदजी उमेदभाइना स्मरणार्थे महेता त्रिभु-
वनदास तथा चुनीलाल तथा तेपना पुत्र दलसुख-
भाइए आप्या. म्. साणंद

१००-०-० महेता रायचंदभाइ रवचंदभाइए पोताना पुत्र त्रिभुवन-
ना स्मरणार्थे म्. साणंद

६

१२५-०-० वाइ मोंधी महेता रायचंद करसनभाइनी पत्नीए
आप्या. मु. साणंद

१००-०-० गांधी वाडीलाल राघवजीनी व्हेन हरकोरे संवत्
१९७८ ना कारतक वदि ६ ना रोज गोधावीनो
संघ काढयो त्यारे आप्या ते. मु. साणंद

५०-०-० एक ग्रहस्थ. मु. साणंद

१५०-०-० शेठ छगनलाल गीगाभाइ. मु. साणंद

२५०-०-० शेठ भोगीलालभाइ वीरचंदभाइ जे. पी. गोधावी
हाल अमदावाद तथा मुंबई.

१०७५-०-०

उपनी विाते आ ग्रन्थमां मदद मळी छे. संवत १९७८ ना
कारतक वदि ६ ना रोज वाडीलाल राघवजीए गोधावीनो संघ
काढयो हतो, ते संग्रमां गुरुराजश्री पधार्या हता. ते वखते गोधावीमां
साणंदथी आवेला संग्रने प्रेमजमण नवकारशी आपवामां आव्युं हतुं.
अत्रे शेठ अमृतलाल केवळदासनी प्रेरणाथी पुस्तक प्रसिद्ध करवामां
रु. ५००) नी मदद मळी हती. जे पैकी रु. २५०) नी नोंध आ
ग्रन्थमां लेवामां आवी छे. साणंदमां श्रीसागरमच्छमां घणाज वख-
तथी एक उपाश्रयनी स्वामी हती ते दूर करवा महेता रायचंद कर-

૭

સનભાઈની વિધવાએ રૂ. ૧૦૦૦૦) દસહજારની મદદ આપવાથી
 બાકીના રૂપીયા શ્રીસાગર સંઘના કાઠી એક ભવ્ય ધર્મશાળા
 (ઉપાશ્રય) બંધાવેલ છે. આ પ્રમાણે આ પુસ્તકના પ્રસિદ્ધ કરવા
 અર્થે જે જે વંધુઓ સહાય આપી છે તે સર્વેનો અંતઃકરણપૂર્વક આ-
 ભાર માનવામાં આવે છે. ભવિષ્યમાં આવા અનેક ગ્રન્થો પ્રગટ કર-
 વામાં તેઓ સહાયક બનો, એ અંતઃકરણની ડંઢી લામણીથી ઇચ્છ-
 વામાં આવે છે.

લિ. અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક મંડલ તરફથી.
 વકીલ શા. મોહનલાલ હિમચંદભાઈ.
 મુ. પાદરા.

સંવત ૧૯૭૨

કાર્તિક પૂર્ણિમા.

અને સદ્ગુરુ ચરણોપાસક
 કિંકર. શા. આતમારામ સ્વેમચંદ.
 મુ. સાબંદ.



૯

॥ પૂજા સંગ્રહ ઉપોદ્ઘાત. ॥

અનાદિથી પરમેશ્વર છે અને તેની પૂજા પળ અનાદિકાલથી છે. દરેક તીર્થંકરની અપેક્ષા આદિ છે એમ અપેક્ષા જ્ઞાનીઓ જાણે છે. જલ, ચંદન, પુષ્પ, ઘૂપ, દીપ, અસત, નૈવેદ્ય, ફલ વગેરે પૂજાનાં સાધન વસ્તુઓ છે. અંગપૂજા, અગ્રપૂજામાં સાધન વસ્તુઓને ઉપચારે પૂજા કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય પૂજામાં જલાદિ સાધન પૂજાનો સમાવેશ થાય છે. ભાવના, શ્રદ્ધા, પ્રીતિ, પ્રશુ ગુણોની સ્તવના, તથા વ્રતાદિ ગુણોવડે પ્રશુની સ્તવના કરવી. પ્રશુની પ્રશુના ગુણો ગાઈ શ્રદ્ધા પૂર્વક ભક્તિ કરવી, પ્રશુના દ્રવ્ય અને ભાવ અતિશયોની સ્તુતિ કરવી. ઇત્યાદિ માનસિક સેવા ભક્તિ શુભ પરિણામનો અને સ્તુતિ પૂજામય શબ્દોનો ભાવપૂજામાં સમાવેશ થાય છે. દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા એ બે ભેદ પળ પ્રશુની સેવા ભક્તિરૂપ છે અને એવી સેવા ભક્તિમાં મતિશ્રુત જ્ઞાન પળ અંતરમાં જાગ્રત્ હોય છે, તેની સાથે ચારિત્રની ભાવનાઓ પળ ઉલ્લસે છે જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ, કર્મયોગ, જગત્માં અનાદિકાલથી સર્વ દેશમાં અનેકરૂપે હોય છે. સાધનભક્તિની અપેક્ષા ભાવભક્તિના પળ અનેક ભેદ પડે છે. દરેક ધર્મમાં ભક્તિને પ્રશુની પ્રાપ્તિનું સાધન માનવામાં આવ્યું છે. કેટલાક મતવાલાઓ પ્રશુ પરમાત્માને સાકાર માનીને તેમની ભક્તિ કરે છે. મુસલમાનો અલ્લા સુદાને અનંત નૂરનો દરિયો માનીને પ્રશુની ભક્તિ કરે છે. વેદાંતીઓમાં કેટલાક મતવાદીઓ—રામાનુજ, રામાનંદ, મધ્વ,

૯

નિર્વાક, વલ્લભાચાર્ય, સ્વામીનારાયણ વગેરે પરમેશ્વરને સાકાર માને છે અને મક્તોના ઉદ્ધાર માટે પરમેશ્વર વારંવાર જન્મ અવતાર લે છે એમ માને છે. રામાનુજ વલ્લભાચાર્ય મતવાદીઓ પરમેશ્વર સદા સાકારરૂપી રહે છે એમ માને છે. શંકરાચાર્યવાળા વસ્તુતઃ પરમાત્માને નિરાકાર માને છે અને વિવર્તવાદની દૃષ્ટિએ પરમેશ્વરનાં અમુક પ્રતીકો કલ્પીને તેને સાકાર ઈશ્વર તરીકે માને છે. નૈયાયિકો અને વૈશેષિકો પરમેશ્વરને નિરાકાર માને છે. પતંજલિએ પાતંજલયોગદર્શનમાં પરમાત્માને નિરાકાર માન્યો છે. આર્ય સમાજીઓ પરમેશ્વરને નિરાકાર માને છે. સ્ત્રીસ્તિઓ પરમેશ્વરને સાકાર માને છે. બૌદ્ધો પરમેશ્વરને સાકાર તથા નિરાકાર માને છે. જૈનો પરમેશ્વરને સાકાર તથા નિરાકાર માને છે. હિંદુઓ, મુસલમાનો, સ્ત્રિસ્તિઓ, જૈનો, બૌદ્ધો અનેક દૃષ્ટિર્બિદુઓની અપેક્ષાએ પરમેશ્વરની દ્રવ્યપૂજા તથા ભાવપૂજાને માને છે. દ્રવ્ય તે ભાવનું કારણ છે. સાધનથી સાધ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યાં સુધી કેવલજ્ઞાની પરમાત્માઓ અઘાતી કર્મના યોગે શરીરમાં રહેલા હોય છે ત્યાં સુધી તે સાકાર પરમેશ્વરો છે, અને સર્વ કર્મથી રહિત થઈ સિદ્ધબુદ્ધ પરમાત્મા થાય છે ત્યારે તે નિરાકાર પરમેશ્વર તરીકે ગણાય છે. સાકાર પરમેશ્વરમાં અરિહંત, જિન, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિ ગુરુનો સમાવેશ થાય છે. અષ્ટકર્મ રહિત સર્વ શુદ્ધાત્માઓનો નિરાકાર પરમેશ્વરમાં સમાવેશ થાય છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો અને તેમાં રહેલ અનંતજ્ઞાન જ્યોતિને અનંત નૂર તેજ સાગર કહેવામાં આવે છે. શ્રદ્ધાપ્રીતિ જ્યાં છે ત્યાં અવશ્ય પ્રતિપા

૧૦

પૂજા આદિ સ્વયમેવ પ્રગટે છે. પ્રેમ ત્યાં પ્રતિમા પૂજા છે. સાકારના પ્રેમથી સાકારની પૂજા થાય છે. અને નિરાકારના પ્રેમથી નિરાકારની પૂજા થાય છે. સાકારની પૂજા સિદ્ધ થયા બાદ નિરાકાર પ્રભુની પૂજા થઈ શકે છે. બાલ જીવો, સાકાર પ્રભુઓની ભક્તિ કરીને હૃદયની શુદ્ધિ કરી શકે છે. હૃદયની શુદ્ધિ થયા પછી જ્ઞાન પ્રગટે છે અને તે જ્ઞાનથી નિરાકાર પ્રભુની ધ્યાનરૂપ પૂજા થાય છે. સાકાર પૂજા એ પ્રથમ મોક્ષમાર્ગનું પગથિયું છે. સાકાર પૂજા કરનાર સાકાર પ્રભુ અને તેના વિયોગમાં સાકાર પ્રભુની તથા ગુરુની પ્રતિમાનું પૂજન કરે છે, તેની દૃષ્ટિમાં પ્રતિમામાં સાકાર પ્રભુનું સ્વરૂપ રમી રહે છે.

સાકાર પ્રભુની દ્રવ્ય પૂજાના અધિકારી ગૃહસ્થો છે અને પ્રભુની ભાવ પૂજાના અધિકારી મુનિયો છે. જેવા પ્રભુમાં શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણો છે તેવા પોતાના આત્મામાં સત્તા એ ગુણો છે. પ્રભુની શ્રદ્ધા પ્રીતિથી પ્રભુના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રભુ પૂજાની આવશ્યકતા છે. પ્રભુની પૂજા ભક્તિ કરતાં આત્મામાં રહેલા સદ્ગુણો પ્રગટે છે અને આવરણો ટલે છે. પ્રભુના જે જે ગુણોનું બહુ માન સ્તવન કરવામાં આવે છે તે તે ગુણો પોતાના આત્મામાં તિરોભાવે—સત્તા એ રહેલા હોય છે તે પ્રગટ થાય છે. પ્રભુના ગુણોનું બહુ માન પૂજા તે વસ્તુતઃ પોતાના આત્માની પૂજા છે, કારણ કે તેથી પોતાના આત્માની શુદ્ધિ થાય છે અને ગુણો પ્રગટે છે.

જ્યારથી મનુષ્યો છે ત્યારથી ગમે તે ભાષામાં અનેક રીતે પ્રભુની સ્તુતિદ્વારા પૂજા કરવાનો રીવાજ પ્રવર્ત્યા કરે છે શ્રી ઋષભદેવ

૧૧

પ્રમુખી તે શ્રી મહાવીર પ્રમુની પૂજાઓ તે તે કાલમાં તે તે દેશમાં પ્રચલિત ભાષાદ્વારા થતી હતી. પ્રમુની પૂજામાં મુખ્યભાવ પ્રેમ હોય છે અને તે ગમે તે ભાષાદ્વારા બહાર આવે છે. પ્રમુના ગુણોની શ્રદ્ધા શ્રીતિ ભાવનાને મક્કો ગમે તે ભાષાદ્વારા બહાર પ્રગટ કરે છે. પૂર્વે સંસ્કૃત ભાષા અને પ્રાકૃત ભાષાદ્વારા જૈનો પ્રમુની પૂજાનાં ગાનો ગાતા હતા. સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષાદિદ્વારા પ્રમુની પૂજા અને વ્રતાદિ ગુણોદ્વારા થતી પ્રમુ પૂજાદ્વારા જૈનો પ્રમુની ભક્તિ કરતા હતા. સોઝમા ધા સત્તરમા સૈકાથી ગુજરાતી ભાષામાં પ્રમુની પૂજાઓ રચાવા લાગી. શ્રીસકલચંદ્ર ઉપાધ્યાયે શ્રીસત્તરમેદી પૂજા રચી તે પહેલાંની પૂજાઓ રચેલી ન જાણવામાં આવે ત્યાં સુધી ગુજરાતી ભાષામાં પ્રથમ પૂજાના રચયિતા શ્રીસકલચંદ્ર ઉપાધ્યાયજી ગણાવાના. શ્રીસકલચંદ્રજી ઉપાધ્યાયજી પશ્ચાત્ત શ્રીયશ્ચોવિજયજી ઉપાધ્યાય, શ્રીજ્ઞાનવિપ્લ સૂરિ, શ્રી વિજયલક્ષ્મી સૂરિ, શ્રી પદ્મવિજયજી પંન્યાસ, શ્રીરૂપવિજયજી પંડિત, શ્રી વીરવિજયજી પંડિત, આચાર્યશ્રી વિજયાનંદ સૂરિ, પન્યાસશ્રી ગંભીર વિજયજી, શ્રીમાન્દ્રહંસવિજયજી, શ્રીમાન્દ્રવલ્લભવિજયજી વગેરે આજ સુધી પૂજાઓ રચનાર થયા છે. સ્વરતરગચ્છ, અંચલગચ્છ વગેરેમાં ગુજરાતી ભાષામાં પૂજાઓના રચનાર અનેક સૂરિ પંડિત મુનિ થયા છે અને મધ્યકાળમાં ઘણા યજ્ઞો. પૂજાઓ મળાવવાનો શ્વેતાંબર જૈનોમાં ઘણો રીવાજ છે. સર્વ પૂજાઓમાં નવ પદની અને વીશ સ્થાનરૂપદની પૂજાઓ વધારે મળાવાય છે. ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશ્ચોવિજયજી, શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી અને જ્ઞાનવિપ્લજી સૂરિ એ ત્રણ-

૧૨

ની નવપદની સ્તુતિનો સંગ્રહ કરીને કોઈએ નવપદ પૂજાની યોજના કરી છે. સ્વરતરગચ્છ અને તપાગચ્છ બન્નેમાં એ નવપદની પૂજા ધણાવાય છે. શ્રી વિજયલક્ષ્મી સૂરિકૃત વીશસ્થાનકની પૂજાની જૈનોમાં ઘણી પ્રસિદ્ધિ છે. વિદ્વાનો તે પૂજાને ધણાવી વિશેષ હર્ષ પામે છે. પૂર્વ પુરુષ મુનિવરોનું અનુકરણ કરીને મારાવડે પ્રસંગોપાત્ત કેટલીક પૂજાઓ રચાઈ છે તે આ પૂજા સંગ્રહનું પુસ્તક વાંચતાં જ વાંચકો જાણી શકશે.

મારી બનાવેલી પૂજાઓ—ત્રસો, વિનાપુર, સાણંદ, મહુડી (મધુપુરી) મેસાળા, એ ચાર ગામમાં રચાયેલી છે. દરેકમાં પૂજા રચ્યાનો સંવત્ છે. વિશેષમાં ગુરુપૂજા અને પ્રભુ મહાવીર દેવના યજ્ઞ તરીકે શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવીરની પૂજાઓ છે. ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા પરમેષ્ઠીમાં ગુરુતત્ત્વનો સમાવેશ થાય છે. શ્રીમદ્ રવિસાગરજી ગુરુ મહારાજ અને શ્રીમદ્ સુસ્વસાગરજી ગુરુ મહારાજ, એ બે પરમ ઉપકારી ગુરુઓના ગુણની પૂજા રચવામાં આવી છે. ગુરુની પાદુકા તથા મૂર્તિ આગળ અગર અન્યત્ર ગુરુની સ્થાપના કરી ગુરુ પૂજા ધણાવવી. નવપદની પૂજામાં અરિહંત, સિદ્ધની પેઠે આચાર્ય, વાચક, તથા સાધુની પૂજા છે. ગુરુમાં આચાર્ય, વાચક, મુનિનો સમાવેશ થાય છે, સ્વરતરગચ્છમાં શ્રી જિનદત્ત, તથા શ્રીજિનકુશલસૂરિની પૂજા ધણવામાં આવે છે. પૂજાઓની ચોપડીઓમાં દાદાની પૂજા પ્રસિદ્ધ છે. શ્રીમદ્ રવિસાગરજી દાદાગુરુ મહા પ્રભાવક, ચારિત્રપાત્ર ચૂડામણિ થયા છે, માટે તેમની પૂજા રચેલી છે, ગુરુમત્તો ગુરુગુણ-

૧૩

રાગીઓ ગુરુની પૂજા ભક્તિ કરે તેથી તેઓના આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવીર એ જૈનશાસન દેવ છે. શાંતિસ્નાત્રમાં અષ્ટોત્તરી સ્નાત્રમાં અને પ્રતિષ્ઠા વિધિમાં શ્રી ઘંટાકર્ણ વીરની સ્થાલી યંત્રવાળી મંત્રીને વેદિકા ઉપર સ્થાપવામાં આવે છે. શ્રી સકલચંદ્રજી ઉપાધ્યાયજીએ પ્રતિષ્ઠા વિધિની સંસ્કારિત યોજના કરી છે. શાંતિસ્નાત્ર અને અષ્ટોત્તરી સ્નાત્ર વિધિની યોજના પણ તેમના વચ્ચે તથા જગદ્ગુરુ તપાગચ્છ ગગનભાનુ સમાન શ્રી હીરવિજયજીના વચ્ચે થઈ છે અને તે વચ્ચે આચાર્યોએ જૈનશાસન દેવતા તરીકે શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવીરની પ્રસિદ્ધિ કરી છે અને તે પરંપરા આજ સુધી તપાગચ્છમાં ચાલી આવે છે. શ્રી મહુડી (મધુપુરી) ગામમાં શાસન યક્ષ તરીકે શ્રી પદ્મપ્રશ્ન જિનેશ્વર દેવની આગળ એક દેરી કરી શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવીરની મૂર્તિની અમોએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે. તે શાસનયક્ષનો ચમત્કાર પ્રભાવક સર્વત્ર વિસ્તાર પામ્યો છે. ઘંટાકર્ણ કલ્પ વાચવાથી તેમનો પ્રભાવ સમજાશે. જેટલા શાસન દેવો અને દેવીઓ છે તેઓ સમક્ષિત ધારી છે તેઓ સાધર્મિક બંધુ તરીકે છે. ગૃહસ્થ શ્રાવકો જૈનો તેમની શાસન પ્રભાવક સાધર્મિક તરીકે સેવા ભક્તિ કરે છે અને તેથી શાસનયક્ષ દેવો, ગૃહસ્થ જૈનોને ધર્મ સાધતાં સંકટ પડે છે તે કાલે સહાય કરે છે. અમોએ ગૃહસ્થ જૈનોને સાધર્મિક દેવ તરીકે તેમની પૂજા ધણાવવાનો તેમની મૂર્તિ આગળ અધિકાર છે એવું જાણી તેઓ માટે પૂજા રચી છે કે જેથી જૈનો પોતે, મિથ્યાત્વી દેવો અને દેવી-

१४

ओनी सहाय छंडीने समकित्ती देवदेवीओनी सहाय पामी शके.—सम्म-
 दिट्ठी देवा दिंतु समार्हिच्च बोहिं च (वंदितासूत्र)
 ए वाक्यथी श्रावकोए सम्यग्दृष्टि देवोने कहुं छे के हे सम्यग्दृष्टि
 देवो ! अमने समाधि अने बोधि—समकित आपो. सम्यग्दृष्टि गृहस्थ
 जैनो सम्यग्दृष्टि देवदेवीना गुणोनुं स्तवन करी तेओनी द्रव्यपूजा
 करी शके छे. अष्टादश दोष रहित परमात्मा महावीर जिनेश्वरना
 सम्यग्दृष्टि देवो अने देवीओ सेवको छे अने ते जैनशासननी प्रभा-
 वनामां मदत करे छे. तेमने सार्धर्षिक समकितदृष्टि देव तरीके मानवा
 पूजवामां दोष नथी. चक्रेश्वरी पद्मावती, माणिभद्र वगेरेनी देरास-
 रोमां श्रावको पूजा करे छे तेम घंटाकर्ण वीरनी मूर्ति आगळ तेनी
 स्तुति करी तेनुं पूजन करवुं ए जैन शासननी सेवा करनार देवनी
 मक्ति छे.—

पूजा भणावनाराओए ह्यानी मुनि वगेरेनी सेवा भक्ति करीने
 तेओनी पासेथी दरेक पूजाना अर्थ धारवा. दरेक पूजाना रागने
 धारवा. पूजाने सारी पेटे गातां शीखवुं. पूजानां साहित्य तरीके
 जे जे वाजित्र योग्य लागे ते बगाढतां शीखवुं, जे पूजा भणाववानी
 होय तेनो भावार्थ प्रथमथी समजी लेवो. एक सरस्वी रीते सर्व गा-
 नाराओए तालबद्ध गावुं. मुखे खेसनो छेडो राखवो पूजा एक स-
 रस गानार उपाडे अने बीजा पाळळ ते पद्य गाय, वच्चे कोइ जा-
 तनी गरबड थवा न दे, वच्चे आढी अवळी वातो न करे, प्रभुना
 सन्मुख दृष्टि राखे, जे पूजामां जेवो भाव होय तेवो परिणाम धारण

૧૫

કરે, પ્રશ્ન વીતરાગના ગુણોનું વહુ માન કરે અને આનંદથી ગાયતો પૂજા ભક્તિનું વાતાવરણ એવું છવાઈ જાયકે જેથી તદ્દેતુ અનુષ્ઠાન અને અમૃત અનુષ્ઠાનનો આનંદ રસ પ્રગટે. જિન મંદિરમાં પૂજા ભણાવતી વખતે સર્વ શ્રાવકોએ નિયમસર વેસવું. પૂજા ભણાવવામાં વિધિનો સ્વપ કરવો અને આશાતનાના દોષો ટાલવા. વેઠની પેઠે પૂજા ન ભણાવવી. મોક્ષ માટે પૂજા ભણાવવી. સુશ્લ મક્ત સ્નાત્રીયાઓ કરવા. પતાસાંની લાલચેજ પૂજામાં સામેલ થવું તે વિષાનુષ્ઠાન છે, માટે પૂજા ભણાવવામાં, ગાવામાં અને પૂજા શ્રવણ કરવામાં સ્વાસ લક્ષ્ય રાસવું. ગાતાં આવડે, સારું ગાનારા ગવૈયાઓ ગાય, બાહિરની સારી ધામધૂમ દેસાય; તેટલા માટેજ પૂજામાં જવું એવું ન ધારવું. પરંતુ સારી રીતે ગાવું. પૂજાઓ ગાતાં તેના અર્થનો વિચાર કરવો, આત્મામાં પ્રશ્ન ભક્તિનો હર્ષોલ્લાસ પ્રગટાવવો અને પ્રશ્નવીતરાગના ગુણોને પ્રગટાવવા સ્વાસ લક્ષ્ય રાખી સર્વ પૂજાની સાધન સામગ્રી સેવવી અને સાધ્ય લક્ષ્યનો કેન્દ્રસમાન ઉપયોગ મૂલી ન જવો. શ્રી-મદ્ દેવચંદની મહારાજે કહ્યું છે કે.

સ્વામી ગુણ ઓલખી સ્વામીને જે ભજે,
 દર્શન શુદ્ધતા તેહ પામે;
 જ્ઞાન ચારિત્ર તપ વીર્ય ઉલ્લાસથી,
 કર્મ જીપી વાશે મુક્તિ ધામે, તાર૭ ॥

૧૬

પ્રમુદ્ધ મહાવીર દેવના ગુણોનો પ્રથમ જાણી અને પછી પ્રમુદ્ધ મહાવીરાદિ દેવની જે પૂજા સેવા કરે છે તે આત્માના સમ્યક્ દર્શનની શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરે છે. સમ્યક્ દર્શનની શુદ્ધતાના બંધે જ્ઞાન ચારિત્ર તથા વીર્ય ગુણના ઉલ્લાસને પ્રગટાવીને તે આત્માના શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણને પામીને તથા અષ્ટ કર્મનો ક્ષય કરીને મુક્તિ ધામમાં વસે છે. પ્રથમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પશ્ચાત્ પૂજા વગેરેની ક્રિયા કરવી. ગાઢરીયા પ્રવાહનો ત્યાગ કરી પ્રથમ પૂજાઓનું સારી રીતે જ્ઞાન કરવું. વિદ્વાન સાધુ ગુરુ અને દક્ષ શ્રાવક પાસેથી પૂજાઓના અર્થ ધારવા. એવી રીતે પૂજાના ગીતોદ્વારા પ્રમુદ્ધની પૂજા કરવાથી શ્રાવકો મોક્ષપદને પામે છે, ત્યાગી મુનિયો પ્રમુદ્ધની આગળ ભાવનાથી પૂજાઓ ગાઈ શકે છે પણ દ્રવ્ય પૂજા કરતા નથી. કારણ કે તેઓ દ્રવ્ય પૂજાનો ત્યાગ કરેલો છે. પૂજા મળાવતાં આત્મોલ્લાસથી અનેક કર્મની વર્ગનાઓનો ક્ષય થાય છે.

મેં યથાશક્તિ પૂજાઓ રચવામાં પ્રયાસ કર્યો છે. સમક્ષિત દષ્ટિવાળા જીવો શ્રી કૃષ્ણની પેટે તેમાંથી ગુણ સાર ગ્રહણ કરશે અને મિથ્યાદષ્ટિયો કાકની પેટે દોષો જોશે. ગુણાનુરાગી જે ભક્તો હશે તેઓ અવશ્ય ફલ પ્રાપ્ત કરશે.

વસો ગામના સંઘના આગ્રહથી પહેલી અષ્ટ પ્રકારી પૂજા રચવામાં આવી હતી અને ત્યાં પ્રથમ દેરાસરમાં મળાવી હતી. વાસ્તુક પૂજા વિજાપુરમાં વકીલ. જ્ઞા. રીઝવદાસ અમુલેશ્વ, દોશી. નથુભાઈ

૧૭

મહાચંદ વગેરેના આગ્રહથી રચવામાં આવી હતી અને પ્રથમ શેઠ. રીઘવદાસ અમુલેઘના નવા ઘરમાં ઢળાવી હતી. મોટી નવપદની પૂજા પ્રથમ મહુડી ગામમાં શ્રીપદ્મપ્રભુની આગળે વિજાપુરની અને સાળંદ શ્રાવકની ટોઢીએ સારી રીતે ઢળાવી હતી. પૂજાસંગ્રહમાં આપેલી પૂજાઓ જોવાથી માલુમ પડશે કે તે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રરૂપ મોક્ષ માર્ગ છે. વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય એમ બે નયનીસ્યા દ્વાદશૈલીથી અનેકાંતનય સહિત પૂજાઓ રચેલી છે, તેનો ઢાવ ઉત્તમ છે. ગીતાર્થમધ્યસ્થઢાવી ગુણાનુરાગી મુનિયો પાસે તેનો ઢાવ્તાર્થ ધારવો. પૂજાઓમાં રુચિભેદે કોઈને કોઈ રુચે છે અને કોઈને કોઈ રુચે છે. રુચિજ્ઞાનમેદે જુદી જુદી પૂજાઓ સર્વને રુચે છે. પૂજાનો સાર ગ્રહણ કરવો પૂજાઓ પૈકી જેના જે અધિકારી હશે તે તેને ગ્રહણ કરી ઢળાવશે અને ફલ પ્રાપ્ત કરશે. પૂજાસંગ્રહને છપાવવામાં સાળંદ સંઘના શ્રાવકોએ આગેવાનીઢર્યો ઢાગ લીધો છે. શેઠ ગોવિંદજી ઉમેદની પાછલ તેમના ઢાઈ ત્રિઢોવનદાસ તથા ઢુનીલાલે તથા ઢાઈ દલસુઘઢાઈએ ધર્મદાન કરેલું, તેઓએ તેમની નામ સ્મૃતિ માટે પૂજાઓ વગેરે રચવાનો આગ્રહ કર્યો, તેથી નિમિત્ત પામીને ઢાકીની કેટલીક પૂજાઓ રચાઈ છે. પૂજાસંગ્રહ છપાવવામાં જે જે શ્રાવકોએ ધનની સહાય કરી છે તેઓને ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે. પૂજાસંગ્રહ પ્રથમાટ્ટત્તિમાં જે કંઈ સ્ઘલન, ઢૂલ, ઢોષ રહેલ જળાશે તેને દ્વિતીયાટ્ટત્તિમાં સુધારી લેવામાં આવશે અને ત્રનશે તો ઢીજી પળ કેટલીક નઢીન પૂજાઓ

१८

रची दाखल करवामां आवशे. पूजासंग्रहनां मुफ सुधारवामां मुनि
कीर्तिसागरे मदत करी छे तेथी तेने धन्यवाद आपवामां आवे छे.
जे कंइ वीतराग महावीर प्रभुनी आज्ञा विरुद्ध लखायुं होय तेनो
मिच्छामि दुकडं देवामां आवे छे. पूजा भणावनारा अने श्रवण
करनाराओना हृदयमां सेवाभक्ति पूजाना परिणामनी वृद्धि
छुद्धि थाओ.

इत्येवं ॐ अर्हमहावीरशांतिः ३

मु. महेसाणा,

सं. १९७९

कार्तिक सुदि ज्ञानपंचमी.

१९

पूजासंग्रहनी प्रस्तावना,

शाम्भुविशारद—कविराज, जैनाचार्य श्रीमद् बुद्धिसागर सूरिकृत पूजासंग्रह खरेखर ज्ञान भक्तिरस अने चारित्र भावरसनो सागर छे. श्रीमद्नी रचेली पूजाओमां भाव मुख्य छे. जे जे विषयनी पूजा रचेली छे तेनुं उत्तम हार्दिक स्वरूप चितर्युं छे, एटलुंज नहि परंतु तेषां स्थळे स्थळे तेपना उद्गारो के जे ज्ञान भक्तिरसमय छे ते दे-खाय छे. कर्तानुं ज्यां हृदय नीतरे छे ते काव्य छे. आनंद रसन उभरा अने अनुभव ज्ञानना उभराओ ज्यां त्यां पूजाओमां वांचतां अनुभवाय छे ते सहृदय साक्षर पूजानुभवी भक्तो स्वयमेव जाणी शकशे. गुरुमहाराजे रागों के जे पूजाओमां प्रचलित छे तेषां पूजाओ रची छे. केटलीक पूजाओने रागणीओमां पण रची छे. पंचधा योग पूजा, अष्टांग योग पूजा, दानशीयल तपचात्र पूजा, षडावश्यक पूजा, महावीर जन्म जयंती पूजा वगैरे पूजाओ के पहेलां कोइए रची नहोती एवी पूजाओ रचीने तेषणे पूजारसिकोने नवीन पूजाओना आनंदरस आस्वादन प्रति आकर्ष्या छे. गुरुमहाराजनी रचेली पूजाओमां प्रासानुपास, झडझमक साथे आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति चारित्र रसनो प्रवाह बह्ना करे छे. तेषनी रचेली पूजाओ घणे ठेकाणे भणावजानी इच्छावाळा श्रावको ज्यां त्यां गामोगाम पूजासंग्रह बहार पडया पहेलां अगाउथी

२०

मागणीओ कर्या करे छे. अष्टप्रकारी तथा वास्तुक पूजा आजसुधी घणा गामोमां शहेरोमां भणावामां आवी छे. तेमनी रचेली नवपदनी मोटी पूजा पहेलवहेली विजापुर पासेना महुडी गाममां विजापुर तथा सार्णदनी श्रावक टोळीए भणावी हती. गुरुश्रीए सत्तरभेदी पूजा एक दिवसमां पांच कलाकमां रची पूरी करी हती. पंचपरमेष्ठी पूजा, षडावश्यक पूजा, अष्टांगयोग पूजा तथा पंचधायोग पूजा वगेरे पूजाओ एकेक दिवसमां चार चार पांच पांच कलाकमां रची पूरी करी हती. गुरुमहाराज ज्यारे पूजा रचवा बेसे छे त्यारे गद्यना लखाणनी पेठे सपाटाबंध पूजाओ रची दे छे. शीघ्रकवि तरीके तेओ जाहेर छे. तेओए भजन पद्यसंग्रहना आठ भाग रची बाहेर पाड्या छे. तेमनी रचेली सत्तरभेदी पूजानो भावार्थ, आध्यात्मिक दृष्टिए उत्तम छे. वीश स्थानकनी पूजामां थोडी गाथाओमां घणो भाव समाव्यो छे. पहेलानां अनेक पूजाओ छे. हाल पण केटलाक पंडित मुनिवरोए पूजाओ रचेली छे. भिन्न रुचिवाळा लोको छे तेथी आ पूजाओना रुचिवाळा जे लोको छे तेने आ पूजाओ भणावतां घणो भक्तिरस प्रगटशे तथा भविष्यमां जेओ आवी पूजाओनी रुचिवाळा जीवो प्रगटशे तेओने आ पूजाओ घणी उपयोगी थै पडशे. आचार्य महाराजजी भविष्यमां बीजी पूजाओ प्रसंगोपात्त रचे एवो संभव छे. आ पूजासंग्रहनी आवृत्ति खपी जतां बीजी आवृत्ति छपावतां भविष्यमां रचाशे ते पूजाओने पण आ पूजाओना सुधारा वधारा साथे दाखल करवामां आवशे.

૨૧

સજ્જનો ગુણાનુરાગી હોય છે. દુર્જનો કાકના જેવા દોષ દૃષ્ટિ-
 વાલા છે. દુર્જન ઇર્ષ્યાહિંસાઓ તો છતા ગુણને પણ અવગુણ તરીકે દે-
 સ્વાદવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પયમાંથી પૂરા કાઢવા જેવી ચેષ્ટા કરે
 છે, એવા ઇર્ષ્યાહિંસાઓ ઉત્તમ પૂજાઓ અને તેના રહસ્યને દોષરૂપ દેસ્વા-
 ઢવા પ્રયત્ન કરે તેથી સજ્જન ગુણાનુરાગી સમજુ જનોને સ્વરાશ
 અસર થતી નથી. જેઓને સમ્યક્ દૃષ્ટિ પ્રગટી હોય છે તેઓ તો શ્રી
 કૃષ્ણની પેઠે ય્યાં ત્યાં સારું દેખે છે તેની પ્રસંશા કરે છે અને ગુણ-
 નારાગી બને છે. જૈન કોમમાં આચાર્ય મહારાજ સાહેબ જેવી પ્રભાવ-
 શાલી અલ્પ વ્યક્તિયો છે. તેમણે જૈન કોમપર ઘણો ઉપકાર કર્યો
 છે. જૈનો અને હિંદુઓ વગેરે સર્વ કોમોમાં, રાજા રજવાડાઓમાં
 જૈનાચાર્ય ગુરુ મહારાજની પ્રતિષ્ઠા ભારી છે, સર્વ દર્શનવાલાઓ તે-
 મના લેખોને ગ્રન્થોને પ્રેમભાવથી વાંચે છે. ગુરુ મહારાજના રચેલા
 અનેક ગ્રન્થો છે. ગ્રન્થમાલાના મળકામાં આ ગ્રન્થથી વધારો થયો છે.
 તેમના હાથે વિશ્વ લોકોનું કલ્યાણ થાય એવા ગ્રન્થો હજી ઘણા લખાશે
 એવી ઇચ્છા રાખીએ છીએ. પૂજાઓમાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ ગુણોની
 ભક્તિ સ્તુતિ અને જ્ઞાનાદિ ગુણોની ભક્તિ કરવામાં આવે છે અને
 વ્રતગુણોની રુચિ પ્રગટ થાય એવી ભાવના હોય છે. આત્માની શુદ્ધિ કરી
 આત્માને પરમાત્મા બનાવવો અને અનંત જન્મ જરા મરણના દુઃખથી
 મુક્ત થવું એજ સર્વ પ્રકારની પૂજાઓનો મૂલ્ય ઉદ્દેશ અને ઉદ્દેશ ગ.મી
 પૂજાઓનો ભાવર્થ હોય છે. વાચકોએ પૂજાઓ ગાંઠને વેસી ન રહેવું
 પણ તેનો ભાવર્થ ગ્રહવો, સાંભળી સાંભળી ફૂટયા કાન-વાંચી વાંચી

૨૨

ફૂટી આંસ, ગાઈ ગાઈ થાવ્યું મુલ, એમ ગાઢરિયા પ્રવાહે ચાલતાં પૂજાનું અને તેમાં કહેવા ભાવનું રહસ્ય સમજ્યાવિના આત્માનો આનંદ-રસ પ્રગટતો નથી. જ્ઞાનપૂર્વક અને ભાવપૂર્વક પૂજાઓ મળાવવામાં આવે છે તો વક્તાઓને તથા શ્રોતાઓને અત્યંત આલ્હાદભાવ મક્તિ-રસ પ્રગટે છે અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોની નિર્જરા થાય છે. આત્મામાં પ્રમુ મક્તિનો સમાધિભાવ પ્રગટે છે તેથી પ્રમુનો હૃદયમાં પ્રગટ ભાવ થાય છે. પૂજાઓ મળાવવામાં, શ્રવણ કરવામાં એકાંત મક્તિનું ફલ છે તેનો ભાવર્થ વિચારી આત્મોલ્લાસ પ્રગટાવતાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવે ક્ષણમાં મુક્તિ થાય છે. મક્ત જૈનો આવી ઉત્તમ પૂજાઓ મળાવીને તથા શ્રવણ કરીને પ્રમુ મક્તિના રસિયા બની આનંદ રસ પામો. એમ ઇચ્છું છું. સં. ૧૯૭૯ કા. સુ ૧૧ એકાદશી. ॥

ગુરુમક્ત. લેખક.

ગાંધી આરમારામ લેમચંદ,
મહેતા હરિલાલ મંગલદાસ,
મુ. સાળંદ.

श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारक मंडळ तरफथी

श्रीमद् बुद्धिसागरसूरिजी ग्रन्थमाळामां

प्रगट थयेला ग्रन्थो.



ग्रथांक		पृष्ठ	किंमत.
१	क. भजन संग्रह भाग १ लो.	२००	०-८-०
* १	अध्यात्म व्याख्यानमाळा.	२०६	०-४-०
* २	भजनसंग्रह भाग २ जो.	३३६	०-८-०
* ३	भजनसंग्रह भाग ३ जो.	२१५	०-८-०
* ४	समाधि शतकम्.	६१२	०-८-०
* ५	अनुभव पञ्चिशी,	२४८	०-८-०
६	आत्मप्रदीप.	३१५	०-८-०
* ७	भजनसंग्रह भाग ४ थो.	३०४	०-८-०
८	परमात्मदर्शन.	न२क	०-१२-०
* ९	परमात्मज्योति.	५००	०-१२-०
* १०	तत्त्वबिंदु.	२३०	०-४-०
* ११	गुणानुराग. [आट्टत्ति बीजी]	२४	०-१-०

૨૪

* ૧૨-૧૩. ભજનસંગ્રહ ભાગ ૫ મો		
તથા જ્ઞાનદીપિકા.	૧૯૦	૦-૬-૦
* ૧૪ તીર્થયાત્રાનું વિમાન [આ. બીજી]	૬૪	૦-૨-૦
* ૧૫ અધ્યાત્મ ભજનસંગ્રહ	૧૯૦	૦-૬-૦
* ૧૬ ગુરુવોધ.	૧૭૪	૦-૪-૦
* ૧૭ તત્ત્વજ્ઞાનદીપિકા	૧૨૪	૦-૬-૦
૧૮ ગહુંલીસંગ્રહ ભા. ૧	૧૧૨	૦-૩-૦
* ૧૯-૨૦ શ્રાવકધર્મસ્વરૂપ ભાગ ૧-૨		
[આટ્ટત્તિ ત્રીજી]	૪૦-૪૦-૧-૦	
* ૨૧ ભજન પદ સંગ્રહ ભાગ ૬ ઠો.	૨૦૮	૦-૧૨-૦
૨૪ વચનામૃત.	૮૩૦	૦-૧૪-૦
૨૩ યોગદીપક.	૩૦૮	૦-૧૪-૦
૨૪ જૈન ઐતિહાસિક રાસપાઠા.	૪૦૮	૧-૦-૦
* ૨૫ આનન્દઘન પદસંગ્રહ ભાવાર્થ સહિત.	૮૦૮	૨-૦-૦
* ૨૬ અધ્યાત્મ શાન્તિ [આટ્ટત્તિ બીજી]	૧૩૨	૦-૩-૦
* ૨૭ કાવ્યસંગ્રહ ભાગ ૭ મો.	૧૫૬	૦-૮-૦
* ૨૮ જૈનધર્મની પ્રાચીન અને અર્વાચીન		
સ્થિતિ.	૯૬	૦-૨-૦
૨૯ કુમારપાલ ચરિત્ર (હિંદી)	૨૮૭	૦-૬-૦

३५

३०	थी ३४ सुखसागर गुरुगीता.	३००	०-४-०
३५	षड्द्रव्य विचार.	२४०	०-४-०
* ३६	त्रिजापुर वृत्तांत.	९०	०-४-०
३७	साबरमती काव्य.	१९६	०-६-०
३८	प्रतिज्ञा पालन. ३०४	११०	०-५-०
३९-४०-४१	जैनगच्छमत प्रबंध संघप्रगति जैनगीता.		१-०-०
४२	जैन धातुप्रतिमा लेख संग्रह		१-०-०
४३	मित्रमैत्री.		०-८-०
४४	शिष्योपनिषद्.		०-२-०
४५	जैनोपनिषद्.	४८	०-२-०
४६-४७	धार्मिक गद्यसंग्रह तथा सदुपदेश भाग १ लो.	९७६	३-०-०
४८	भजन संग्रह भा. ८	९७६	३-०-०
४९	श्रीमद् देवचंद्र भा. १	१०२८	२-०-०
५०	कर्म योग.	१०१२	३-०-०
५१	आत्मतत्त्व दर्शन	११२	०-१०-०
५२	भारत सहकार शिक्षण काव्य	१६८	०-१०-०

૨૬

૫૩ શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર ભા. ૨	૧૨૦૦	૩-૮-૦
૫૪ ગહુલી સંગ્રહ ભા. ૨	૧૩૦	૦-૪-૦
૫૫ કર્મપ્રકૃતિટીકાભાષાંતર	૮૦૦	૩-૦-૨
૫૬ ગુરુગીત ગુહલીસંગ્રહ	૧૯૦	૦-૧૨-૦
૫૭-૫૮ આગમસાર અને અધ્યાત્મ ગીતા	૪૭૦	૦-૬-૦
૫૯ દેવવંદન સ્તુતિ સ્તવન સંગ્રહ.	૧૭૫	૦-૪-૦
૬૦ ષૂજાસંગ્રહ	૪૧૬	૧-૦-૦

❖ આ નીશાનીવાળા ગ્રંથો સીલકમાં નથી.

અપરનાં પુસ્તકો મલ્લાનુ ઠેકાણું.

વકીલ મોહનલાલ હીમચંદ.

(ગુજરાત) પાદરા.

२७

जैनाचार्य श्रीमद् बुद्धिसागर सूरीकृत पूजा संग्रह-

विषयानुक्रमणिका.

		पृष्ठ.	पृष्ठ.
स्नात्र विधि	१	३
१ स्नात्रपूजा	३	१५
लुण उतारण विधि....	१६	
आरती....	१६	
मंगल दीवो	१७	
२ नवपद बृहत्पूजा	१८	४८
३ पंचाचारपूजा....	४९	५९
४ विंशस्थानक लघुपदपूजा	६०	८३
५ दशविधयति धर्मपूजा....	८४	१०५
६ चार भावनानी पूजा....	१०६	११६
७ दान शीयल तप भावनी पूजा	११७	१२८
८ अष्टांग योगनी पूजा....	१२९	१४८
९ नवधा क्रियाभक्ति पूजा	१४९	१७०
१० अष्टकर्म सूदनार्थ अष्टप्रकारी पूजा....	१७१	१९०
११ षडावश्यक पूजा	१९१	२०७
१२ अष्ट प्रकारी मोटीपूजा....	२०८	२३१
१३ वास्तुक पूजा	२३२	२४३
१४ अष्टप्रकारी पूजा	२४४	२५७

२८

		पृष्ठ.	पृष्ठ.
१५	श्रीमद् रविसागर गुरुपूजा २५७	२७१
१६	श्री सुखसागर गुरुपूजा.... २७१	२८६
१७	सत्तरभेदी पूजा २८७	३०३
१८	नवपद लघु पूजा ३०३	३१३
१९	पंचधा योगपूजा ३१४	३२९
२०	पंचपरमेष्ठी पूजा ३३०	३३७
२१	महावीर जन्म जयंती पूजा ॥ ३३८	३५०
२२	अष्टप्रकारी महावीर पूजा ३५१	
२३	घंटाकर्ण महावीर पूजा.... ३६९	
२४	घंटाकर्ण महावीर आरती ३७८	
२५	गुरुनी आरती ३७९	
२६	गुरु मंगल दीपक ३८०	
२७	जिनेश्वर आरती ३८१	
२८	मंगल दीपक ३८३	



૨૯

પૂજાસંગ્રહનું અશુદ્ધિ શુદ્ધિ પત્રક,

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૭	૩	ઘૂજો	ધૂજો
૧૦	૧૫	ઘોદકથી	ગંધોદકથી
૧૬	૧૪	લહ	લહે
૧૭	૭	સ્નાત્રયા	સ્નાત્રીયા
૧૯	૬	ભાવરે	ભાવેરે
૨૨	૪	જહજો	જેહજો
૨૯	૧૪	અનંત	અનંતા
૪૬	૧૦	વાસના	વાસના
૪૮	૧૭	ૐ હ્ર	ૐ હ્રી
૬૭	૧૨	પુણ્ય	પુણ્યે
૭૪		તપ પૂજાના હોરીના રાગમાં વીજા અને તપ ઈમ વે સુધારીને વાંચવું.	પદને અંતે રે
૭૬	૨	કીધું	દીધું
૭૯	૭	આસ્રવને	આસ્રવ
૯૩	૧૬	લગ્ધિ	લગ્ધિ
૧૦૩		જ્યાં જ્યાં બ્રહ્મ હોય ત્યાં બ્રહ્મ વાંચવું.	
૧૦૬		મૈત્રી ભાવનાની અરણિકવણ્ઠી દેશી પૂજામાં વીજા અને ચોથા પદને અંતે રે ઉમેરવો.	

३०

पृष्ठ	लीटी	अशुद्धि	शुद्धि
११५	६	करवा	करवां
१४५	२	शुद्धो	शुद्धो
१४७	५	गुण न	गुण ने
१४७	६	शक्तियो	शक्तियो
१४९	१३	उपदेशने	उपदेशने
१५२	३	नानार	नरनार
१५२	१४	भवोदधि	भवोदधि
१५४	१४	तपोरेजो	तपोरजो
	१४	सेवतारे	सेवनारे
१५६	११	कथ्यां । र	कथ्यांसार
१५८	२	वादीए	वांदीए
१५९	१०	आखमां	आंखमां
१६०	२	जयी	जेयी
	१२	विकासरे	विकासेरे
१६४	३	लाभार्थे	लाभार्थे
१८२	५	परपुदल	परपुद्दल
१९०	८	पूजी	पूजा
१९१	१२	भवोदधिमा	भवोदधिमां
२२४	११	बाघे	बांधेरे

३१

पृष्ठ	लांटी
२३३	३
२३६	७
”	९
	१४
२४०	१८
२४२	४
२६१	७
२६३	१५
२८३	
२९१	११
३०६	४
३१६	१०
३२५	१
३३६	८
३३९	१४
३४४	१३
३५२	१५
३५९	१३
३५९	१५

अशुद्धि

मनमा

दीजीए

द्रव्यार्थिकमये

शाश्वता

समकितदा

गुणरंगी

सबळा

कया

कलश छे तेमांनो एक कलश भणाववो.

पूजता

मारी

पुष्यं

टाळरे

माहि

ग्राम

नैवेद्यं

निज

आखे

नमो

शुद्धि

मनमां

दीजीए

द्रव्यार्थिकनये

शाश्वतां

समकितदाय

गुणरंगी

सबळा

कयां

पूजतां

सारी

पुष्यं

टाळे

मांहि

ग्राम

नैवेद्य. ॥

निज

आंखे,

नम्यो ॥

३२

पृष्ठ	लीटी	अशुद्धि	शुद्धि
३६१	१०	सद्सद्	सदसद्
३६९	१२	भक्त छे	भक्त छे ।
३७८	१७	स्मरतां	समरंतां ॥

सूचना-पूजा पूरी थतां ॐ ह्रीं श्रीं आदि मंत्र भणीने सत्तरमेदी तथा वीशस्थानकनी पूजा वगेरेमां पूर्वनी पूजाओनी पेठे संपूर्ण मंत्र भणवो. तथा अष्टप्रकारी पूजा विनानी बाकीनी पूजाओमां प्रत्येक पूजा दीठ अष्टप्रकारी पूजानो सामान ग्रहवो. वि० अन्य सूचनाओ वगेरे जे रही जती हशे ते द्वितीयावृत्तिमां दाखल करवामां आवशे.

इत्येवं ॐ अँह महावीर शांतिः ३



जैनावार्य बुद्धिसागर सृरकृत स्नात्र तथा पूजा संग्रह.

पूजा संग्रह.

स्नात्रविधि.

प्रथम दुध, दहिं, घी, केशर, फुल अने जळनुं पंचामृत करी बे कलश एक पाटली उपर चोखाना बे स्वस्तिक करी ते उपर मूकवा. कळशने महोडे नाम्नाछनी बांधवी. एक त्रण बाजोठनुं सिंहासन करी ते उपर प्रभुनी पधरामणीनुं सिंहासन मूको तेमां एक रकेवीमां केशरना बे स्वस्तिक करी, त्रण नवकार गणी एक धातुनी पंचतीर्थी प्रतिमाजी तथा एक सिद्धचक्रजीनी प्रतिमाजी पधराववां. प्रतिमाजीनुं मुख उत्तर वा पूर्व तरफ राखी पधराववां. प्रतिमाजी नीचे एक पैसो मूकवो. सिंहासनना वचला बाजोठ उपर चोखानो एक स्वस्तिक करी एक फळ मूकवुं. प्रतिमाजी पधराववाना सिंहासनना एक ठेडे नाडाछनी बांधवी. एक रकेवीमां

(२)

थोमां तूटां फुल केशरवाला चोखा करी राखवा अने चामर, दर्पण, पंखो, घंट, विगरे सामान सिंहासन पासे राखवो. ज्यां वस्त्र चढाववानां आवे त्यां नाडाछमीनो ककरो मूकवो, फूलनी अढत होय त्यां केशरवाला चोखानो उपयोग करवो. स्नात्र जणाववावाळो माणस हाथमां फूल लइने उभो रहे अने विधि जणावनार माणस विधि शरु करे. कुसुमांजलि बोली 'फूल चढाववुं'— विधि जणावनार माणस कुसुमांजलि चढाववानुं कहे त्यारे जगवानने कुसुमांजलि चढाववी. सात वखत कुसुमांजलि चढावी रह्या पढो स्नात्री-यो हाथ जोमीने ऊभो रहे अने विधि जणावनार विधि बोल्ये जाय, ज्यारे 'शुभ लग्ने जन्म्या प्रभु' ए दुहो पूरो थाय त्यारे स्नात्रियो त्रण खमासमण देइ चैत्यवंदननी विधि प्रमाणे चैत्यवंदनं करे ते जयवीयरायनो पाठ 'आजव मखंका' सुधी कही हाथमां कळश लेइने उभो रहे ने विधि जणावनार

(३)

ज्यारे 'सौधमेंद्रे पंच रूप करी' ए पद पूरुं बोली रहे
 त्यारे जळनो प्रभुने अत्रिषेक करे. पछी ते ढाळ पूरी
 थया पढी जगवानने सिंहासनमांथी बहार लक्ष चोखा
 पाणीथी न्हवण करावी अंगलूहणां त्रण करी चन्दन
 पूजा करे. पछी आरति मंगल दीवो करवो.

आ विधि सामान्य प्रकारे लखी छे. परंतु ज्यां
 नामाढडी लखी छे त्यां उत्तम वस्त्रो नो उपयोग करे
 वा उत्तम उत्तम द्रव्यनो उपयोग शक्ति प्रमाणे करे
 तो ते उत्तम ठे.

“ अथ जैनाचार्य बुद्धिसागर सूरिकृत ”

अथ स्नात्रपूजा प्रारंभः



दुहा

सर्वातिशये शोचता, प्रभु महावीर जिनेश,
 शासन नायक जगपति, प्रणमं हुं विश्वेश. ॥ १ ॥
 प्रभु स्नात्रनी जावना, करतां शान्ति थाय; रोग
 शोक दूरे टले, स्नात्रपूजा महिमाय. ॥ २ ॥

(४)

कुसुमांजलि ढाल.

ऋषभदेव पूजा

आठजाति कलशे न्हवरावे, इन्द्रो मनमां आ-
नन्द पावे; प्रभु पूजा समकित प्रगटावे, प्रभु जाणी
प्रभुने दिल लावे; कुसुमांजलिथी ऋषभ पूजीजे,
ग्रही प्रभुगुण मन रीजी जे. ॥ १ ॥

(फूल चढाववुं.)

शान्ति जिनपूजा

दुहो.

क्षायिक नव लब्धि प्रभु, शान्तिनाथ जगदेव;
द्रव्यजावथी शान्तिने, पामो करीने सेव. ॥ १ ॥

ढाल.

सहजानन्द स्वजावे शान्ति, केवल ज्ञाननी
शोभे कान्ति; टाळे सर्व जीवोनी त्रान्ति, आपे
तन्मय थातां क्षान्ति; चोसठ इन्द्रो सारे सेवा, पूजुं
प्रणमुं शान्ति देवा. ॥ २ ॥

(फूल चढाववुं. ४)

(५)

नेमिनाथ पूजा

दुहा

केवलज्ञानमां भासतुं, अणु सम विश्व सदाय,
ते नेमि प्रभु पूजीए, भाव ब्रह्म प्रगटाय. ॥ १ ॥

ढाल.

बाल्यथकी जे ब्रह्म व्रतधारी, अनन्त शक्तिमय
अवतारी, केवलज्ञानथी जग हितकारी; मोह शत्रु
हणी ए मोहारी, नेमि जिनेश्वरने पूजी जे, प्रभु
स्वरूप थै प्रभु प्रणमीजे ॥ २ ॥

(फूल चढावुं ३)

पार्श्वनाथ पूजा

दुहा.

पार्श्व प्रभु प्रणमुं सदा, त्रेविसमा जिनराय;
वन्दे पूजे भावथी, सिद्धे वांछित काज. ॥ १ ॥

ढाल.

पार्श्वप्रभु जगमां जयकारी, परब्रह्म जगने सुख-
कारी; चोत्रिश अतिशयथी अवतारी, पांत्रिशवाणी

गुणना धारी पार्श्व, पूजीजे ध्याने रहीजे, आत्मिक
गुण प्रगटावी लीजे ॥ २ ॥ कुसुमांजलि पूजा
कीजे, प्रभु स्वरूप थावा दील कीजे. ॥ २ ॥

(फूल चढाववुं. ४)

वीरप्रभु पूजा.

डुहा.

शासननायक जगधणी, परब्रह्म महावीर; सर्व-
देवना देव जे, सर्वधीरमां धीर. ॥ १ ॥

ढाल.

प्रभु महावीर देव सप्ररीजे, आविर्भावे आत्म
कीजे; वीर बनी महावीरने भजीए, कायरता दुर्गु-
एने तजीए. प्रभुचरणे कुसुमांजलि धरीए, धीर
वीरता वेगे वरीए; देहाध्यास तजी वीर थावुं, ते
माटे वीर गावुं ध्यावुं. ॥ २ ॥

(फूल चढाववुं ५)

(७)

अथ सर्व जिनपूजा.

सकल जिनेश्वर प्रेमे पूजो, अशुचकर्मथ्री भवि-
जन यूजो; कुसुमांजलि जिन चरणे धरीए, सहज
स्वप्नावे शिवपुर वरीए ॥ २ ॥ कुसुमांजलि पूजो सर्व
जिनन्दा, तुज चरण कमल सेवे चोसठ इंदा.

(फूल चढाववुं. ६)

इति चोवीशजिन पूजा.

सर्वजिन पूजा.

ढाल.

पन्नरक्षेत्रे अतीत कालमां, वर्तमानमां वत्तेजी,
जाविकाले थाशे जे जिन; वीतराग गुण शर्तेजी,
एकसो ने सित्तेर तीर्थकर, उत्कृष्टा जे कालेजी. पूजुं
वांहुं गावुं ध्यावुं, आतम जे अजवाले जो ॥ १ ॥
जन्मोत्सव कल्याणक उजवे, इन्द्रादिक बहुप्तावे जी;
जन्मकाल तीर्थकर सहुने, मेरुपर लेइ जावेजी;
सर्व जाति कलशा अन्निषेके, प्रेमे प्रभु न्हवरावेजी.
एवा अरिहंता त्रण कालना, पूजीजे एक भावेजी ॥१॥

(फूल चढाववुं ७)

(८)

आतम चक्ति मल्या केइ देवा. ए राग

त्रीजे जवे तीर्थकर कर्मने, बांध्यु वीरे जावे,
 द्रव्यभाव वरथानक तपथी, प्रशस्य रागना दावे,
 सर्व जीवोने धर्मी बनावुं, सर्व विश्व उद्धारुं, रहे न
 जगमां कोइ दुःखी, सर्व जीवोने तारुं. ॥ १ ॥ शुभ्र
 उत्कृष्टा हर्षोद्धासे, जिनवर नामने बांधे, अनन्त
 पुण्य ग्रहीने प्रभुजी, सकल जीव हित साधे, मानव
 आयुः पूर्ण करीने, दशमा स्वर्गमां जावे, पुष्पोत्तर
 वैमानिक सुरवर, स्वर्गतणां सुख पावे. ॥ २ ॥ त्यांथी
 चवीने दक्षिण चरते, क्षत्रिकुंडपुरमांहे, त्रिशला-
 साणी कुखमां आव्या, ज्ञातकुले उत्साहे, त्रिशला-
 माता स्वप्नो देखी, आनंद अतिशय पावे, चारतने
 उरुवा प्रगटया, प्रभुजी शक्ति प्रजावे ॥ ३ ॥ हाथी
 वृषजने केसरी सिंह, लक्ष्मी पुष्पनी माला, चन्द्र
 रवि ध्वज कलश मनोहर, सरोवर पूर्ण विशाला,
 सागर रत्ननी राशी अग्नि, निर्धूम चौद निहाळे,
 चौदे स्वप्ननो अर्थ सुणीने, आनंद जीवन गाळे,

(९)

॥ ४ ॥ सिद्धारथराजाना हूकमे, जोषीओ त्यां आव्या, पुर बाहिर सुरम्यसभामां, अर्थविचारे फाव्या, ज्योतिषिओ भेगा थइने, बोले साची वाणी; तीर्थकर वा चक्रवर्ती तुज, पुत्र थशे गुणखाणी. ॥५॥ राजा राणी अति हरखायां, ज्योतिषी संतोष्या; दानादिकथी धर्मि लोको, याचकने संतोष्या; भारतमां सहु घरघर लोको, जाणी आनन्द पाया, त्रिशलामाता गर्भने पोषे, धरे निरोगी काया. ॥ ६ ॥ चैत्र शुदि तेरशना दिवसे, मंध्यरीत्र थइ जातां; सर्व दिशाओ उज्वलशान्ति, आनन्दवाळी सुहातां; नव महिनाने सामा सातज, दिवस उपरे थातां; त्रिशलामाताए प्रभु जनम्या, त्रिलोके थइ शाता. ॥७॥ भारतदेशे घरघर मंगल, घरघर हर्ष वधाइ, सिद्धारथ राजा मन आनन्द, प्रगत्यो लोक न माय. ॥ ८ ॥ शुभ लग्ने जनम्या प्रभु, त्रणभुवन उद्योत; नारकी पण आनन्दीयां, जेनी अनंत ज्योत. ॥ ९ ॥

(१०)

हवे चैत्यवन्दन करवुं तेनि विधि.

वीर आसने बेसी बे हाथ जोमी प्रभुजी सामी दृष्टि राखी 'इच्छाकारेण संदिसह जगवन् चैत्यवन्दन करुं' इच्छं एम कही 'सकळ कुशलवद्भि' कही जगचिन्तामणि कहेवुं. पठी जं किंचि नमथ्युणं जावन्ति चेइआइं, जावन्त केविसाहु, नमोऽर्हत् कही उवसग्गहरं कहेवुं, पठी आज्ञवमखंका सुधी अर्धा जयवीयराय कहेवा. आहिं सुधि कही पठी उभा थइ र्नात्रीआए कलश हाथमां लइ प्रभुजीना मावा अंग तरफ उजा रहेवुं पछी विधि करनार विधि भणे.

राग उपरनो.

छप्पन दिक्कुमरी तीहां आवे, प्रभु जन्मोत्सव हेते; प्रभु माताने प्रणमे प्रेमे, सूतिकर्म संकेते. आठे दिक्कुमरी वायुधी; कचरो करती दूरे, आठे कुमरी गंधोदकधी, सुगंध जलने पूरे ॥ १ ॥ आठ कुमारी कलशा धारे, दर्पण आठे धारे; आठ कुमारी चामर

(११)

वींजे, भाव त्रक्ति अनुसारे. आठ कुमारी पंखा क-
 रती, रक्षा करती चारे; चार दीपकने धारे प्रेमे,
 निज आतमने तारे. ॥ २ ॥ कदलीनां घर करी
 मनोहर, बाल प्रभुने लावे; पवित्र कर्मने करवा माटे,
 जल कलशे न्हवरावे; जलपुष्पे आचरणे पूजी, प्रभु
 शरीर शणगारे; प्रभुना करमां राखनी बांधी, (वधावी
 नाडाछनी मूकवी;) जय जय शब्दोच्चारे. ॥ ३ ॥
 माता पासे प्रभुने मूकी, निज निज स्थानक जावे,
 इंद्रासन ते वखते कंपे, महा पुण्य सदृजावे; अवधि
 ज्ञाने इंद्रे जाण्यो, प्रभु जन्म सुखकारी; सुघोषा
 आदि घंटाओ, वगदावे जयकारी. ॥ ४ ॥ पालक
 नाम विमानमां बेसी, इन्द्र बहु परिवार; अन्य वि-
 मानने वाहन बेसी, निज ऋद्धि अनुसारे; अन्य
 सुरोने देवीओ आवे, प्रभुने देखी वंदे; प्रभु अने
 प्रभु मात वधावी, इंद्र वदे गुण ठंदे. ॥ ५ ॥ (फूल
 तथा केसर वाळा चोखाथी वधाववा.) जय जय
 माता जगमां जय जय, जय जय शब्दो बोले; त्हारो

(१२)

पुत्र जगत्तीर्थकर, को नहि तेना तोले; प्रतिबिंब
मातानी पासे, मूकी प्रभु कर लीधा; पंचरूप इंद्रे
निज कीधां, चावे कारज सिध्यां. ॥ ६ ॥ मेरु उपर
पांरुक वनमां, शिला सिंहासन ठावे; सौधमेन्द्रे खोळा
मांहि, प्रभु धर्या शुभ्र चावे; चोसठ इन्द्रो, चाव धरीने,
आव्या त्यां उद्धासे; निज निज शक्ति ऋद्धि चावे, इंद्रो
पूर्ण विकासे. ॥ ७ ॥ अच्युतेन्द्रे औषधि तीर्थनी,
माटी जल मंगाव्यां; आठ जातिना कलश भरीने,
इंद्रो ए न्हवराव्या; फूल चंगेरी थाल रकेवी, उपक-
रणो बहु जाति; प्रभुनी भक्ति करतां विध विध, निर्मल
करता छाति. ॥ ८ ॥ भुवनपति ने व्यंतर ज्योतिष,
वैमानिक बहु देवा; अच्युतपतिनी आज्ञा पामी,
करता बहुविध सेवा; एक क्रोरु ने साठ लाख सहु,
कलशानो अजिषेक; अढीसे अजिषेक सहु मळी,
सुर नहि चूके विवेक. ॥ ९ ॥ (थोडो जळ अजिषेक
करवो) इशान इन्द्रे करमां लीधा, प्रभुनी भक्ति कोधी;
सौधमेन्द्र पंचरूप करी, भक्ति करी प्रसिद्धि; (संपूर्ण

(१३)

जळनो अजिषेक करवो.) पूष्पादिकथी प्रभु वधाव्या,
 आनंदना कळोले; मंगलदीवो आरति करीने, सुर-
 वर जय जय बोले ॥ १० ॥ अनेक वाजिंत्रोने
 वजावे, अनेक नाचो नाचे; प्रभुनो जन्मोत्सव करीने,
 सर्व सुरासुर राचे; करमां धारण करीने प्रभुने, त्रिशला
 मातापासे; इंद्रादिक आवीने बोले, पूरण हर्षोद्धासे
 ॥११॥ पुत्र तमारो प्रभु अमारो, सर्व विश्व आधार; तुज
 कुखे प्रभु जन्म्या माटे, विश्व मात निर्धार; पंच धाव
 सोंपी प्रभु क्रीमां,—करवा माटे बेश; बत्रीश कोटि
 रत्नादिकनी, वृष्टि करे हरे क्लेश. ॥१२॥ (फूल केश-
 रवाळा चोखा, नामाळनी विगरे प्रभु सन्मुख उछा-
 लवुं.) इंद्रादिक प्रभु वांदि पूजी, नन्दीश्वरमां जावे;
 अष्टान्हिका महोत्सव करीने, आनंद मंगल पावे;
 निज निज कटप सधावे सुरवर, दीक्षोत्सव अजि-
 क्षाषे; केवलज्ञान महोत्सव इच्छा, राखी हर्ष विकासे.
 ॥१३॥ प्रभु जन्मोत्सव भारत देशे, जत्ते कीधो जावे;
 घर घर आनंद मंगल वर्तो, स्नात्र महोत्सव दावे;

(१४)

सकल संघमां शांति वर्तो, इति उपद्रव शामो; स्नात्र
महोत्सव सुणनाराने,—गानारा सुख पामो; ॥ १४ ॥
परब्रह्म महावीर प्रतापे, रोग टळो सहु जाति; दुष्ट
देवना टळो उपद्रव, व्हेम टळो बहु भाति; गाम
नगर पुर देशमां शांति, वर्तो प्रभु प्रतापे; आधि
व्याधि संकट टळतां, प्रभु महावीर जापे. ॥ १५ ॥
सर्व जगत्मां शान्ति वर्तो, धर्मी बनो नरनारी, दोषो
क्षय पामो न्क्तिथी, जनो बनो उपकारी; झघना
युद्धो उपशम थात्रो, वृष्टि थशो मनमानी; पुण्य कर्म
वधशो जगमांहि, वधशो शक्ति मंजानी. ॥ १६ ॥
तप गच्छ हीर विजयसूरी जगगुरु, पट्ट परंपरधारी;
पूज्य गुरु रविसागर प्रगटथा, सर्वोपम जयकारी;
शान्तिदायक सुखसागर गुरु, घर घर मंगलकारी;
बुद्धिसागर सूरि आशीः, शान्ति लहो नरनारी ॥१७॥

फूल तथा केशरवाळा चोखाथी प्रभुने वधाववा.

पछी सिंहासनमांथी प्रभुजी तथा सिद्धचक्रजोने
लइ चोखा पाणीथो पखाळ करी त्रण अंगदुहणां

(१५)

करी केशर (चंदन)थी पूजा करी फूल चढाववां अने सिंहासन मध्येनी रकेबीमांथी पाणी काढी नांखी धोइ साफ करी फरी केशरना स्वस्तिक करी पधराववा. आरती मंगळदीवो प्रगटी वंनेने नामाढकी बांधी एक रकेबीमां मूकी कंकुना छांटा नाखी चोखार्थी वधाववा, रकेबीमां सोपारी तथा एक पैसो मूकी रकेबी वच्चे राखी स्नात्रियाने रुन्मुख बेसामवो. रकेबीनी एक बाजु सात माटीनी कांकरी तथा सात मीठानी कांकरी लइ एक मीठानी कांकरी अने एक माटीनो कांकरी ए रीते दरेक ढगलीमां मूकी सात ढगलीओ करवी. पछी बीजी तरफ जळनी कुंकी राखवी. स्नात्रियाने उभा पगे बेसामी नावा हाथ उपर जमणो हाथ रखावी विधि जणावनार माणस स्नात्रियाना हाथमां दरेक वखते एक मीठानी अने एक माटीनी कांकरी आपी ते साथे ह्येलीमां चोखा पाणीना कलशमांथी थोकुं पाणी आपे अने आरती मंगळ दीवानी रकेबी फरतुं लूण उतरावे. तेनी विगत.

(१६)

लुण उतारो जिनवर अंगे, निर्मल जलधारा
 मनरंगे. ॥ लुण ॥ १ ॥ जिम जिम तडतरु लुण ज
 फूटे, तिमतिम अशुच कर्म बंध त्रुटे. ॥ लुण ॥ २ ॥
 नयन सलुणां श्री जिनजीनां, अनुपमरूप दयारस
 भीनां. ॥ लुणा ॥ ३ ॥ रूप सलुणुं जिनजीनुं दीसे,
 लाज्युं लुण ते जलमां पेसे. ॥ लुण ॥ ४ ॥ त्रण प्रद-
 क्षिणा देइ जलधारा, जल निखेवीए लुण उदारा
 ॥ लुण ५ ॥ जे जिन उपर दूमणो प्राणी, ते एम
 थाजो लुण ज्युं पाणी. ॥ लुण ॥ ६ ॥ अगरे कृष्णागरु
 कुंदरु सुगंधे, धूप करीजे विविध प्रबंधे. ॥ लुण ॥ ७ ॥
 एम सात वखत लूण उतारवुं पढी आरती उतारवी.

 आरती.

जय जय वीर जिनेश्वर देवा, सुर नर इन्द्र
 लहे सेवमेवा, बार गुणे गुणवंता प्यारा, त्रण चुवनना
 छो आधारा. जय जय. ॥१॥ चोत्रीश अतिशय गुण-
 गणधारी, पांत्रीश वाणी गुणे जयकारी. जय जय. ॥२॥

(१७)

त्रिशलानंदन शिव सुखकारी, सिद्धारथ कुल शोभा-
कारी. जय जय. ॥३॥ द्रव्य जावथी आरति करीये,
मंगल माला सहेजे वरीये. जय जय. ॥४॥ बुद्धिसागर
प्रभु गुण लेवा, संघ चतुर्विध करे नित्य सेवा. जय. ॥५॥

पढी प्रभुजी न देखे तेवी रीते पडखे जइने
अगर प्रभुजीना अने स्नात्रीया वच्चे अंतर पमदो
राखी स्नात्र याना जमणा अंगुठा उपर कंकुनो चां-
फलो कराववो. पछी मंगळदीवो उतारवो. मंगळदीवो
उतारतां कपुर लावेला होय ते सळगावी रकेवीमां
मूकी मंगळदीवो उतारवो.

मंगळ दीवो.

मंगळदीवो मंगलकारी, करीये जिन आगळ
जयकारी, अरिहंत मंगल पहेळुं जाणो. बीजुं सिद्ध
मंगल मन आणो. ॥१॥ साधु मंगल त्रीजुं लहीए,
सद्गुण पांमी शिवपुर वहीए. ॥मं० ॥२॥ धर्म मंगल
चोथुं सुखकारी, चार मंगलनी छे बलिहारी. ॥ मं०

(१८)

॥३॥ भाव मंगल हेते चित्त धारी, मंगलदीप करे नर-
नारी. ॥ मं० ॥ ४ ॥ बुद्धिसागर आनंदकारी, संघ चतु-
र्विध शोभाकारी. ॥ मं० ॥ ५ ॥

इति स्नात्रपूजा समाप्त.

अथ नवपद पूजा प्रारंभः

॥ प्रथम अरिहंतपद पूजा ॥

नमुं स्तवुं अरिहंतने, गेय ध्येय अरिहंत. प्राप्य
प्रभु पद एह छे, जेना रागी संत. ॥१॥ विश स्थानमां
कोइ पण, एकाराधन योग; तीर्थकर पद संपजे,
अनंत पुण्यनो जोग. ॥२॥ त्रीजे नव आराधना,
अरिहंत आदि थाय; शुभ उंचा परीणामथी, अर्हत्
पद बंधाय. ॥३॥ सर्व जीवो उद्धारवा, धर्मी करवा
काज; उत्कृष्टा परिणामथी, बांधे पद जिनराज. ॥४॥
तीर्थकर परमात्मा, त्रण कालना जेह अरिहंत ते
सर्व ठे, घाती हृदयाथी एह. ॥५॥

(१९)

श्री अरिहंत पद गाइए, ध्याइजे सुखकारे;
 अरिहंत जेवा थाइए, दोष रहे न लगाररे. श्री अरि-
 हंत० ॥१॥ नमण ठवण द्रव्य भावथी, अरिहंत
 गातां ध्यातांरे; आतम अरिहंत पद वरे, कर्म सकल
 दूर जातांरे. श्री अरिहंत० ॥ २ ॥ वीश स्थानकने
 सेवतां. द्रव्य भावथी भावरे; तीर्थकर कर्म बंध ए,
 पूर्व त्रीजा भव थावेरे. श्री अरिहंत० ॥ ३ ॥ वींश
 स्थानमय आतमा, भावथी हर्षोल्लासेरे; उज्ज्वल
 शुभ परिणामथी, अर्हत् पदवी प्रकाशेरे. श्री अरि-
 हंत० ॥ ४ ॥ अरिहंत नामना जापथी, स्थापनायां
 प्रभु ध्यावेरे, द्रव्य भाव वे जेदथी, आतम जिनवर
 आवेरे. श्री अरिहंत० ॥ ५ ॥ तीर्थकर नाम कर्मने,
 आतम ज्यारथी बांधेरे, द्रव्य तीर्थकर तयारथी,
 क्षीण मोही गुण साधेरे. श्री अरिहंत० ॥६॥ जन्म-
 सकी त्रण ज्ञान छे, मति श्रुत अवधि प्रमाणेरे;
 बोधुं दीक्षा ग्रहे चके, मन पर्यंत दिख ज्ञानेरे. श्री
 अरिहंत० ॥ ७ ॥ गुण स्थानक मोखां यकी; आत्मा

(२०)

पर्यंत जाणोरे; द्रव्यथी तीर्थकरणं, आलंबन शुभ
 आणोरे. श्री अरिहंत० ॥ ८ ॥ उपशम क्षयोपशम
 अने, क्षायिक समकित भावेरे; चरणमां क्षयोपशम
 पणुं, द्रव्य तीर्थकर दावेरे. श्री अरिहंत० ॥ ९ ॥
 भावथी तीर्थकर प्रभु, समवसरणमां सोहेरे; क्षा-
 यिक नवलब्धि धणी, भव्योनां मन मोहेरे. श्री
 अरिहंत० ॥ १० ॥ अंतर क्षायिक भाव छे, औद-
 यिक कर्म प्रवर्तेरे; आत्मपणुं परीणामथी, आराधीष्ट
 शुभ रीतेरे. श्री अरिहंत० ॥ ११ ॥ प्रारब्ध कर्म
 अघातियां, तीर्थकर भोगवतारे, जीवन्मुक्त जिने-
 श्वरा, ध्यातां कर्मों टळतारे. श्री अरिहंत० ॥ १२ ॥
 वार गुणे प्रभु शोभता, विश्वोद्धारक देवारे, असंख्य
 देवोने देवीओ, करती प्रभुनी सेवारे. श्री अरिहंत०
 ॥ १३ ॥ निश्चय अरिहंत आतमा, राग द्वेषने हण-
 तारे; क्षयोपशम उपशमक्षये, शुद्धात्म पद वरतारे;
 वीर जिनेश्वर उपदिशे, आत्म अरिहंत देवारे;
 बाहिरमां मुंझो नहीं, निज निजनी दिलसेवारे. वीर०

(२१)

॥ १४ ॥ निश्चय समकित चरणथी, आपो आप प्रका-
 शेरे. असंख्य योगनो जेपति, आतम ज्योते विद्यासेरे.
 वीर० ॥१५॥ शुद्ध ब्रह्म निजातमा, असंख्य प्रदेशी
 पोतेरे; सेवा भक्ति ज्ञानथी, प्रगटे अनंती ज्योतेरे.
 वीर० ॥ १६ ॥ आतम ते अरिहंत छे, प्रेमे गावो
 ध्यावोरे; बुद्धिसागर आतमा, अनंत आतम
 पावोरे. वीर० ॥ १७ ॥

अर्हत्पदं नौमि गुणैर्युतं च ।
 स्वाभाविकं शुद्ध मनन्तरूपम् ॥
 पूज्यंपरब्रह्म जिनेश्वरं च ।
 द्रव्येणभावेनचपूजयामि. ॥ १ ॥

ॐ अर्हपरमेश्वराय सर्व देवाधिदेव पूजितायच
 श्रीमते जिनेन्द्राय जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं
 अक्षतं, तण्कुलं, नैवेद्यं, फलं, च यजामहे स्वाहा ॥

॥ इति अर्हत्पूजा समाप्ता ॥

(२२)

द्वितीया सिद्धपूजा.

अरिहंत उपदेशथी जेह जाण्या, नमुं सिद्ध ते शुद्धरूपे प्रमाण्या; अतःआदिमां पूज्य अरिहंत देवा, पठीथी करुं सिद्धनी शुद्ध सेवा. ॥ १ ॥ अनंता थया सिद्ध थाशे अनंता, परब्रह्म ज्योति स्वरूपी भदंता, परिपूर्णज्ञाने थया जेह सिद्धा; अयोगी अज्ञोगी अवेदी प्रबुद्धा. ॥ २ ॥

त्रीजे ऋव वरथानकतपकरी. ए राग.

कर्मातीत निरंजन निर्मल, निःसंगी निष्कामी; सापेक्षाए रूपी अरूपी, वर्ते आतमरामीरे, ऋविका सिद्ध प्रभु आराधो, आतम शुद्धि साधोरे. भविका, सिद्ध० ॥ १ ॥ एक समयमां सर्व द्रव्यना, गुण पर्यायने जाणे; देखे आनंद जोगे वर्ते, वर्ते आत्मिक प्राणेरे. ऋविका. सिद्ध० ॥ २ ॥ द्रव्यथी सिद्धो शोभे अनंता, सिद्ध क्षेत्रे प्रसिद्धा; एक सिद्धने आश्रयीआदि, अनंत गुण समृद्धोरे. ऋविका. सिद्ध० ॥ ३ ॥ अंतर रहितने अजर अमस्जे, नहीं मन वाणी काया;

(२३)

संसारी जीवोना जेओ, अनंत जागे सुहायारे. भविका. सिद्ध० ॥ ४ ॥ क्षायिक भावे सिद्ध थया जे, पुद्गल संगथी न्यारा; परिणामिक भावे जीवनता, जेहने नहीं आकारारे. भविका. सिद्ध० ॥ ५ ॥ वर्ण गंध रस स्पर्श रहित जे, आप स्वरूपे रूपी; पुद्गल रूपे जेह अरूपी, वर्ते रूपारूपीरे. भविका. सिद्ध० ॥ ६ ॥ आठे कर्मनो नाश करीने, आठ गुणे जे शोभे; व्यतिरेकी एकत्रिंश गुणी जे, भविजननां मन थोभेरे. भविका. सिद्ध० ॥ ७ ॥ अनंत गुण पर्याये जेओ, आविर्भावे सुहावे; प्रणमुं गावुं ध्यावुं सिद्धो, मोह टळे सुख थावेरे. भविका. सिद्ध० ॥ ८ ॥ अनंत सिद्धनी ज्योतिमांही, अनंत सिद्धो ज्योते; त्रण कालमां नित्य ठे जेओ, जीवे भावोद्योतेरे. भविका, सिद्ध० ॥ ९ ॥ सिद्ध स्वरूपी आतम भावी, सिद्धानंदने पामे; एक समयमां ऊर्ध्वगातिथी, सिद्ध स्थानमां जामेरे. भविका. सिद्ध० ॥ १० ॥ आत्मिक शुद्ध समाधि प्रकटे, मुक्तिनुं सुख प्रगटे; निर्विकल्प समाधि ज्ञाने, सर्वावरणो विघटेरे. भविका. सिद्ध० ॥ ११

(२४)

नाम स्थापना दव्यने भावथी, सिद्धो वंदो ध्यावो;
 आपोआप स्वरूपे सिद्धो, परमानंदने पावोरे. भविका.
 सिद्ध० ॥ १२ ॥

वीर जिनेश्वर उपदिशे. ए राग.

प्रभु महावीर उपदिशे, त्रण भुवननो राणोरे;
 अनंत गुण पर्यायी ठे, आतम प्रभु घट
 मानोरे. प्रभु० ॥ १३ ॥ निज आतम ते सिद्ध
 ठे, जीव ठे ते शिव जाणोरे; शुद्धोपयोगे आतमा,
 परब्रह्म प्रमाणोरे. प्रभु० ॥ १४ ॥ आरोपितपुद्गल
 दशा, तेथी आतम न्यारोरे; शुद्धातम उपयोगथी,
 सिद्ध स्वयं आधारोरे. प्रभु० ॥ १४ ॥ अनंत ज्ञाना-
 नन्दनो, आविर्भाव स्वभावेरे; बुद्धिसागर आतम,
 परमेश्वर निजभावेरे. प्रभु० ॥ १६ ॥

विरहितानपि कर्मभिरष्टभिः सहजसिद्ध गुणाष्टक
 धारिणः । समयदेशपदान्तरमस्पृशः, सकल सिद्धि
 गतान्परिपूजये ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम०

(२५)

तृतीया आचार्यपद पूजा.

ठत्रीशी ठत्रीशी गुण वक्ते, सूरिपद सुखकार;
 गातां पूजतां ध्यावतां, सूरिपणुं निर्धार. ॥ १ ॥
 द्रव्य क्षेत्रने कालथी, भावथी सूरि महंत; तीर्थेश्वर
 पाठळ प्रभु, राजा शोभे संत. ॥ २ ॥ जिन शासन
 साम्राज्यमां, संघ चतुर्विध भूप; वर्तमानमां संघना,
 प्रभु जे धर्म स्वरूप. ॥ ३ ॥

धन्य धन्य संप्रति साचो राजा. ए राग.

प्रेमे प्रणमुं श्री सूरेश्वर, जैनधर्मना धोरीरे;
 चार प्रकारे संघोन्नतिनी, जेना हाथमां दोरीरे. प्रेमे.
 ॥ १ ॥ सूरि मंत्रनो जाप करेने, धर्माचार प्रचारेरे;
 पंचाचारने पाळे पळावे, संघनुं श्रेय विचारेरे, प्रेमे.
 ॥ २ ॥ द्रव्यादिक अनुसारे वर्ते, संघने जे वर्तावेरे;
 वत्रीश उपमा जेने छाजे, धर्मने रक्षे भावेरे. प्रेमे.
 ॥ ३ ॥ गौणने मुख्यपणे सहु आशय, सर्व धर्म
 समजावेरे, सर्वनयोनी सापेक्षाए, स्वाधिकार जणा-
 वेरे प्रेमे० ॥ ४ ॥ द्रव्यजावथी सर्व संघनी, प्रगतिने

(२६)

उपदेशेरे; कार्यों करता निलेंपी थे, रहे न मनमां
 क्लेशेरे, प्रेमे० ॥ ५ ॥ त्यागी गृहस्थी बन्ने संघने,
 उत्सर्गने अपवादेरे; धर्माचार विचार जणावे, आ-
 त्मिक सुखने आस्वादेरे. प्रेमे० ॥ ६ ॥ तीर्थपति
 समसंप्रतिकाले, धर्म करावे बोधेरे; तीर्थकरसम
 आज्ञाकारक, संघने रहे अक्रोधेरे. प्रेमे० ॥ ७ ॥
 द्रव्यने भावथी संघ जीवनने, शासन उन्नति काजेरे,
 जे काले जे क्षेत्रे करवुं, आज्ञा करी जग गाजेरे,
 प्रेमे० ॥ ८ ॥ प्रतिरूपादिक चौद गुणोना, धारक
 योगी ज्ञानीरे; क्षमा प्रमुख दश धर्मना धारक,
 समभावोने ध्यानीरे. प्रेमे० ॥ ९ ॥ बार भावना
 चार भावना, भावे विकथा वारीरे; चार अनुयोगने
 वर्तवै, सर्व प्रमादने वारीरे. प्रेमे० ॥ १० ॥ करवुं
 कराववुंने अनुमोदवुं, जे जे योग्य ते करतारे;
 गारुरीया प्रवाहे न चाले, स्वतंत्रता दिल धरतारे.
 प्रेमे० ॥ ११ ॥ सूत्रो शास्त्रो ग्रन्थो आदि, परंपरा
 सह जाणेरे; अनुभवथी एक निश्चयधारी, संघनुं

(२७)

श्रैक्य जे मानेरे. प्रेमे० ॥ १२ ॥ निश्चयने व्यवहारे
 वत्ते, संघना श्रैक्यने सांधेरे; एवा आचोरोने विचारो,
 आपी गुणोथी वाधेरे, प्रेमे० ॥ १३ ॥ सारण वारण
 चोयणने जे, पडिचोयण गुणधारीरे; जे श्रुत केवली
 स्वपर समयना, ज्ञाता गुणगण धारीरे. प्रेमे० ॥ १४ ॥
 तीर्थकर सम सूरि करे ते, क्षेत्रने कल्पानुसारेरे; धर्मा-
 चारमां जेह सुधारो, करता स्वाधिकारेरे, प्रेमे०
 ॥ १५ ॥ पडया पडंता क्षुद्र प्रभेदो, टाळे उदार
 विचाररे; बाह्यराज्यसम धर्मराज्यना, उन्नति हेतु
 धारेरे, प्रेमे० ॥ १६ ॥ चार निक्षेपे सूरिवर पूजो,
 वंदो गावो ध्यावोरे, बुद्धिसागर परम प्रभुता,
 परमानंदने पावोरे, प्रेमे० ॥ १७ ॥

आतम ते आचार्य छे, उपादान स्वभावेरे,
 क्षयोपशमने उपशमे, क्षायिक गुणगणदावेरे.
 आतम० ॥ १८ ॥ पूजो वंदो जावथी, गावोने
 मन ध्यावोरे, आत्मस्वभावे सहजथी, शुद्धो-
 पयोगे सुहावोरे, आतम० ॥ १९ ॥ आतमना

(२८)

एकतानथी, सर्व शक्तियो उल्लसेरे, बुद्धिसागर
आतमा, सूरिपद गुणथी विकसेरे. आतम० ॥२०॥

स्वपरशास्त्ररहस्यनिवेदिनः चरितपञ्चविधा-
चरणानपि, जिनसुधर्मधुरीणतया स्थितान्, सकल
सूरिवरान्परिपूजये ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परम० स्वाहा.

चौथी उपाध्याय पद पूजा.

पंचविंशति सद्गुणे, उपाध्याय भगवंत, भणे
भणावे शास्त्रने, पूजो वंदो संत० ॥ १ ॥ गुणो अने
आचारथी, आत्म शुद्धि करनार, उपाध्याय जगमां
जयो, युवराजा जयकार० ॥२॥ उपाध्यायनी भक्तिथी,
प्रगटे दर्शनज्ञान, वाचंयम पाठक नमो, पूजो धरी
एक तान० ॥ ३ ॥

सिद्धचकनी सेवा कीजे. ए राग.

उपाध्यायनी सेवा कीजे, विद्यमान सुखकारीजी,
विद्यमान पाठकनी भक्ति, करतां तरे नरनारी, भवि-
जन सेवोजी, त्यागी सर्व प्रमाद, ल्हावो लेवोजी०
॥ १ ॥ अंग उपांगता पाठकज्ञानी, भणे भणावे

(२९)

भावेजी, जैनधर्म फेलावे जगमां, पुण्ये दर्शन थावे. भवि० ॥ ३ ॥ ज्ञानावरणी आदि कर्मों, अनंत क्षय झट थातांजी. पाठक प्रभुना वैयावच्चथो, आत्मस्वभावे सुहातां. भवि० ॥ ३ ॥ वर्तमानमा तरतमयोगे, वर्ते पाठक जेवाजी, गुणनी दृष्टि धारी घटमां, करीए भावे सेवा. भवि० ॥ ४ ॥ विनयने बहुमानथी सेवा, चार निक्षेपे करीएजी, जीवंता वाचंयम सेवो, समकित चारित्र वरीए. भवि० ॥५॥ निश्चयथी निश्चयमां वर्ते, व्यवहारे व्यवहर-ताजी; उत्सर्गने अपवाद विचारी, क्षेत्रकाळ अनुसरता. भवि०॥३॥पंच समिति त्रण गुप्ति धारे, जैन धर्म विस्तारेजी; निज निज अधिकारे सहु वर्णने, राखे स्थिर आचारे. भवि० ॥७॥ सर्व संघनी द्रव्यभावथी—चढती हेतु प्ररुपेजी; कर्म करेसहु अक्रिय थैने, निष्कामी निज रूपे. भवि० ॥ ८ ॥ शासन सेवा संघनी सेवा, करता अर्पाइ जाताजी; वेष क्रिया कुल्लक मत भेदे, संघभेदे न रहाता. भवि० ॥ ९ ॥ भव्य जीवोनी द्रव्यभावथी, आतम शुद्धि करताजी; ज्ञानक्रिया

(३०)

भक्तिने समाधि, अनेक योगने धरता, जवि० ॥१०॥
 सूरिजी राजाने मंत्री, पाठक संघना हेतेजी, पूजी
 वंदी स्तवीने ध्याइ, रहीए शिव संकेते. भवि० ॥११॥
 तरतम योगे द्रव्यजावयुत. उपाध्यायने जजीएजी;
 पंचमकालने क्षेत्रानुसारे, वर्तताने यजीए, भवि०॥१२॥

निज आतम निश्चय प्रभु, पाठक जाणी ध्यावौरे;
 उपाध्याय ते आतमा, अंतरमां लय लावौरे, निज०
 ॥ १३ ॥ अनंत गुणी आतमप्रभु, अनंतपर्यवी पोतेरे,
 धारणा ध्यान समाधिथी, वर्ते आनंद ज्योतेरे. निज०
 ॥ १४ ॥ शुद्धातम उपयोगथी, सहजे आत्मस्वभा-
 वेरे, सर्व करे निर्वध जे, मोहनी वृत्ति हठावेरे, निज०
 ॥१५॥ अशक्य कांइ न आत्मने, अनंतशक्ति स्फुरा-
 वौरे, बुद्धिसागर आतमा, श्रद्धा भक्तिथी जावौरे, नि०१६

जडिमर्थाव्यविनेयगणेषु ये ।

प्रथितबुद्धिबलाश्च गतस्मथाः ॥

ध्रुवसुपाठसुधारसवाहिनः ।

प्रतिदिर्न प्रणमामि सुपाठकान् ॥

(३१)

पंचम साधुपद पूजा.

दोहरा.

अप्रतिबद्ध जे विश्वमां, कर्म योगी निष्काम;
 साधे आतम साधना, रमता आतमराम. ॥ १ ॥
 मुनि तपसी अनगारी जे, साधु संयत नाम; यति
 ऋषि त्यागी श्रमण, आर्य भिक्षुक गुणधाम. ॥ २ ॥
 आश्रव त्यागी महंत जे, अनेक जेनां नाम; वंदो
 पूजो प्रेमथी, संत प्रभु विश्राम. ॥ ३ ॥

॥ ओधवजी संदेशो कहेजो श्यामने ए राग ॥

प्रीतलकीने सांधो साधु साथमां, साधु संगते
 प्रभुनां दर्शन थाय जो, पंचम आरे दुर्लभ साधु सं-
 गति, मुनि भजंतां जन्म जरा दुःख जाय जो, प्रीत-
 लडी० ॥ १ ॥ साधु संगतथी सम्कित प्रगटे खरु,
 ज्ञान अने चारित्र भलु प्रगटायजो, संतनी संगे
 रहोए श्रद्धा प्रेमथी, एक पलकमां धार्यु निश्चय
 थाय जो. प्रीतलडी० ॥ २ ॥ पंचम आरे मुनिनी
 श्रद्धा प्रीतडी, करत्तं आतम परमातम झट थाय

(३२)

जो, संस्कारी भव्योने ऋक्ति सांपडे, गुण रागे सवळी
 बुद्धि प्रगटाय जो, प्रीतलडी० ॥ ३ ॥ यम नियमने
 आसन प्राणायामथी, प्रत्याहारने धारणा ध्यानथी
 जहजो, आत्म समाधि योगे घटमां वर्तता, निष्का-
 मीने सम ठे वनने गेहजो, प्रीतलडी० ॥ ४ ॥ धीरे
 धीरे मनने साधे साधुजी, सद्गुण साधे करता दुर्गुण
 त्यागजो, आसक्ति वण आचारोमां वर्तता, मुनिपर
 धारो स्वार्पण करीने रागजो, प्रीतलडी० ॥ ४ ॥
 आत्मशुद्धि हेते सापेक्षे साधना, गौणने मुख्यपणे
 जाणे जे योगजो, उत्सर्गेने जे अपवादे वर्तता,
 निर्लेपी थे भोगवे सुख दुःख भोगजो, प्रीतलडी० ॥ ६ ॥
 आपत्काले आपद् धर्मे वर्तता, बाह्य संगमां जे दिलमां
 निःसंगजो, ध्येयपणे निज दिलमां प्रभु प्रग-
 टावता, प्रगटे मुनिनी संगे आतम रंगजो;
 प्रीतलडी० ॥ ७ ॥ अंतर बाह्यनी ग्रन्थिमां ममता
 नहीं, गुरु आज्ञाए सर्वे कर्ता कर्मजो. निर्भय खेद-
 रहित अद्वेषी साधुजी, समताभावे अनुभवे शिव

(३३)

शर्मजो. प्रीतलडी ॥८॥ समभावे मुक्ति छे सहु दर्शन
 विषे, क्रिया पंथ मत बाह्यथकी पण होयजो, तो पण
 मुनिभावे निश्चय समकितवडे, समभावीने नडे न
 चाह्यनुं कोयजो. प्रीतलडी० ॥ ९ ॥ गच्छनी नि-
 श्राए स्थविरो वर्ते सदा, गच्छोमां समभावे मुक्ति
 होयजो, सापेक्षाए हठ कदाग्रह त्यागीने, मुख्यपणे
 आत्म उपयोगी जोयजो. प्रीतलडी० ॥ १० ॥ जे
 काले जे क्षेत्रे जे करवुं घटे, स्वपर जीवोना धर्म
 हितार्थे जेहजो, तेह करावे करे अने अनुमोदता,
 अल्पदोषने धर्म घणो करे तेहजो, प्रीतलडी० ॥११॥
 सूरि गुरुनी आज्ञाए वर्ते मुनि, यता कषायो रोधे
 साधे धर्मजो; आत्मराज्यनी स्वतंत्रता जे साधता,
 करे कर्म पण उपयोगे जे अकर्मजो. प्री. ॥ १२ ॥
 पूर्णानंदी आत्म ज्ञाने अनुजवे, साधक बाधक
 कृत्याकृत्य विवेकजो; जैनधर्म उपदेशे ज्ञाने भलो,
 रहे समाधि एवी धारे टेकजो. प्री. ॥ १३ ॥ पूजो
 वंदो गावो मुनिपदने जलुं, निश्चयदृष्टिने धारी

(३४)

व्यवहारजो; बुद्धिसागर मुनि सेवाभक्तिबळे,
क्षणमां प्रसुपद पामे नरने नारजो. प्री. ॥ १४ ॥

साधु ते निज आतमा; शुद्धातम उपयोगेरे;
शुं मुंके शुं लोचथी, त्यागे शुं बाह्यजोगेरे. साधु.
॥ १४ ॥ शुद्धातमरमणी मुनि, मोहनी वृत्ति रोकेरे;
हर्षे नहि जे बाह्यमां, रहे न बाह्यमां शोकेरे. साधु०
॥ १६ ॥ समजावी जव मुक्तिमां, सहजानंदना जो-
गीरे; रागने त्यागथी जिन जे, आतम देखे योगेरे.
साधु० ॥ १८ ॥ निःसंगी निष्कामी जे, घटमां
सिद्धि प्रकाशेरे; आनंदथी उजराइने, प्रसन्नताए
विकासेरे. साधु० ॥ १९ ॥ आशा तृष्णा कामना,
तेथी गणे निज न्यारोरे; बुद्धिसागर आतमा, सिद्ध
बुद्ध निर्धारोरे. साधु० ॥ २० ॥

स्वपर कार्य सुसाधनतत्परान् ।

शिवभवस्थितिसाम्यसमन्वितान् ॥

विदितपञ्चमहाव्रतधारिणः ।

प्रणिदध प्रति साधु मतल्लिकान्

ॐ ॐ श्री परम.

(३५)

षष्ठी दर्शनपद पूजा.

शुद्धातम दर्शन यतुं, निश्चय दर्शन तेह; देव
 गुरुने धर्मनी, श्रद्धा दर्शन एह. ॥ १ ॥ दर्शन छे
 व्यवहारथी, निश्चयथी सुखकार; समसठ बोले
 अलंकर्युं, धारो नरने नार. ॥ ३ ॥ दर्शन पाम्यो
 आतमा, निश्चय मुक्ति जाय; जडचेतन सम्यकूपणे,
 जाणी नहि मुंझाय. ॥ ४ ॥

ए गुण वीरत्तणो न विसारु. ए राग.

सम्यग् दर्शन जग जयकारी, सर्व जीव हित-
 कारीरे; प्रभु महावीर जिन उपदेशे, पामो नरने
 नारीरे. सम्यग्० ॥ १ ॥ द्रव्यज्ञाव बे जेदे दर्शन,
 निश्चयने व्यवहारेरे; देव गुरुने धर्मनी श्रद्धा, जेदे
 त्रण्य प्रकारेरे. सम्यग्० ॥ २ ॥ आतम ते निश्च-
 यथी देवज, आतम ते गुरु जाणोरे; आतममांही
 सत्य धर्म छे, निश्चय दर्शन मानोरे. सम्यग्० ॥ ३ ॥
 मुनिभावे ठे निश्चय समकित, रत्नत्रयी अजेदेरे;
 सापेक्षाए जाणी पामो, रहो न आतम खेदेरे. सम्य-

(३६)

गू० ॥ ४ ॥ मुनिजावे समकितपणुं छे, आचारांगे
 भाख्युंरे; उत्कृष्टे क्षणमां छे मुक्ति, एवुं प्रभुए दाख्युंरे.
 सम्यगू० ॥ ५ ॥ दर्शनथी ज्ञान चारित्र प्रगटे, तेथी
 मुक्ति नक्कीरे; माटे दर्शन पामो भव्यो, राखो श्रद्धा
 पक्कीरे. सम्यगू० ॥ ६ ॥ गुरुने सेवे दर्शन प्रगटे,
 जिनवाणी सांजळतारें; साधुसंत गुरु सेवा करतां,
 दर्शन कारण फळतारें; सम्यगू० ॥ ७ ॥ श्रद्धा प्री-
 तिथी गुरु सेवे, जिन प्रतिमा अवलंबेरे; समकित
 दर्शन पामे जक्तो, पदे न मिथ्या अचंनेरे. सम्यगू०
 ॥ ८ ॥ आतमथी मिथ्यात्व टळे तेम, श्रद्धा साची
 प्रगटेरे; आत्मानुभव थातां पूर्वे, मिथ्या मोहनी
 विघटेरे. सम्यगू० ॥ ९ ॥ सर्व संघनी सेवा भक्ति,
 करतां हर्षोद्धासेरे; आतम समकित पामे निश्चय,
 आविर्जावे विकासेरे सम्यगू० ॥ १० ॥ सम्यगू
 दर्शनीनो संग करशो, समकितनी करो भक्तिरे;
 बुद्धिसागर आतम सम्यगू, दर्शन प्रगटे शक्तिरे.
 सम्यगू० ॥ ११ ॥

(३७)

सांज्ञळशो मुनि संयमरागे, ए राग.

निश्चयथी दर्शन ते आतम, उपशमने क्षयो-
पशमेरे; क्षायिक दर्शनरूपी आतम, पढो न मिथ्या
जमेरे. नि० ॥ १२ ॥ आत्मप्रतीति अनुभव आवे,
जलपंकजवत् न्यारोरे; निर्लेपी आतम गुण खेले,
आनंद अपरंपारोरे. नि० ॥ १३ ॥ निकाचित जे
कर्मना जोगो, त्यां नहीं शोकने प्रीतिरे; निर्जरतो
कर्माने जोगे, आतम सुख प्रतीतिरे. नि० ॥ १४ ॥
पंचवार उपशम घट प्रगटे, क्षायोपशमी असंख्येरे;
एकवार क्षायिक समकितनी, प्राप्ति थतां निःशंकरे;
नि० ॥ १५ ॥ चार निक्षेपे सात नयोथी, सम्यग-
दर्शन समजोरे; बुद्धिसागर आत्मस्वजावे; श्रद्धा
प्रेमे रमजोरे; नि० ॥ १६ ॥

सकृदपि प्रतिपत्तिरहो नृणां ।

भवति यस्य जवस्थिति मापिका ॥

शिवसुखं प्रतिकन्दलतां दधत् ।

नमत तद्गुरु दर्शनमादरात् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम.

(३८)

सप्तमी ज्ञानपद पूजा.

ज्ञान ते आत्मस्वरूप छे, चेतन गुण ठे ज्ञान;
 ज्ञान विना नहीं मुक्तिछे, वीर कहे भगवान्. ॥१॥
 ज्ञानथी आनंद उपजे, ज्ञानथी विश्व प्रकाश; ज्ञान
 विना जगजीवना, पग पग दुःखी दास. ॥२॥ ज्ञानीने
 पूजो भवी, सेवो नरने नार; ज्ञानावरणना नाशथी;
 व्यक्त ज्ञान सुखकार. ॥३॥

ध्यान क्रिया मनमां आणीजे. ए राग

ज्ञानने सेवो ज्ञानीने सेवो, ज्ञान ज्ञाणेने ज्ञाणा-
 वोरे; ज्ञानाज्यासीने सहाय करो भवी, शास्त्रो लखावो
 छपावोरे. ज्ञान० ॥१॥ जैनधर्म जगमां फेलावो, ज्ञा-
 नीओ प्रगटावीरे; ज्ञान विना नहि शासन चाले,
 ज्ञानछे मुक्तिनी चावीरे. ज्ञान० ॥२॥ श्रुत केवली
 केवली सम जाणो, ज्ञानथी धर्म प्रचारोरे; जीवन्ता
 तीर्थो ज्ञानीओ, जैनधर्म आधारोरे. ज्ञान० ॥३॥
 ज्ञान विनानुं जीवन जरु छे, आत्मजीवन छे ज्ञानेरे;

(३९)

ज्ञानी ध्यान समाधि पामे, वर्ते शुद्धात्म तानेरे; ज्ञान०
 ॥४॥ ज्ञानीनो जे वनय न सेवे, तेने छे अतिचाररे;
 ज्ञानीनी आशातना टाळो, सफळ करो अवताररे.
 ज्ञान० ॥ ५ ॥ जानु आगळ तम नहि रहेतुं, ज्ञानी
 आगळ अज्ञानरे; ज्ञानी घटमां दोष रहे नहीं,
 ज्ञान स्वतंत्र प्रमाणरे. ज्ञान० ॥ ६ ॥ ज्ञानथी चारित्र
 प्रगटे साचुं, ज्ञान छे श्रेष्ठ पवित्ररे; स्वपर प्रकाशक
 ज्ञान ठे सुंदर, तेथी वशमां ठे चित्तरे. ज्ञान० ॥७॥
 ज्ञानीनी आज्ञाए हलाहल, पीतां मुक्ति थातीरे;
 अज्ञानी वचने अमृतने, पीतां न शांति सुहातीरे.
 ज्ञान० ॥८॥ पिंडस्थादिक ध्यानने ध्यावे, धर्म शुक्ल
 वे ध्यावेरे; ज्ञानी ध्याननी सूक्ष्म क्रियाथी, क्षणमां
 मुक्ति पावेरे. ज्ञान० ॥९॥ ज्ञाननी दासी सर्व क्रिया
 ठे, ज्ञानी पासे किरियारे; ज्ञाने जगमां अनंत जव्यो,
 भवसागरने तरियारे. ज्ञान० ॥ १० ॥ असंख्य योग
 छे मुक्तिना हेतु, ज्ञानयोग सहु मोटोरे; ज्ञानीनी
 सेवा जक्तिथी, रहे न कोई ठोटोरे. ज्ञान० ॥ ११ ॥
 ज्ञानीने पूजो ज्ञानी ने वंदो, ज्ञानी छे अप्रमादीरे;

(४०)

शुष्कज्ञानी एकांतवादी, क्रियाजकी उन्मादीरे.
ज्ञान० ॥१२॥ परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान बे भेदे, श्रुत स्व-
पर उपकारीरे; बुद्धिसागर सद्गुरु संगे, रहेशो नरने
नारीरे. ज्ञान० ॥१३॥

वीर जिनेश्वर उपदिशे, ज्ञान सकल उपकारीरे;
चार निक्षेपे ज्ञानने, समजो नर अने नारीरे. वीर०
॥१४॥ मति अट्टावीश भेदे ठे, श्रुत ठे चउदश जेदेरे;
अवधि असंख्य प्रकार ठे, रूपी वस्तु वेदेरे. वीर०
॥१५॥ मन पर्यव बे जेदे ठे, मननां पुद्गल जाणेरे;
केवल रूपारूपीना, सहु पर्याय पिठानेरे. वीर० ॥१॥
अध्यातमज्ञाने भवी, केवलज्ञानने पामेरे, बुद्धि-
सागर आतमा, परम प्रभु थै जामेरे. वीर० ॥१७॥

सकल वस्तुसमूहविभासनं ।
प्रचितकर्मविनाशनकर्मठम् ॥
युगलजावगतं मतिमुख्यकं ।
विरतिदं रतिदं प्रणिदध्महे ॥१॥
ॐ ह्रीं श्रीं परम.

(४१)

अष्टमी चारित्रपद पूजा.

सदाचार सद्गुणमयी, चारित्र छे सुखकार;
गावो ध्यावो आचरो, जावे नरने नार. ॥ १ ॥ द्रव्य-
भाव चारित्र छे, निश्चयने व्यवहार; स्वर्गने मुक्ति-
फळ मळे, तजो दुर्गुण आचार. ॥ २ ॥

सिद्धिये नमो सिद्ध अनंता ए राग.

चारित्र एवुं मळो सुखकारी, जाउ चारित्रीनी
बलिहारीरे; चारित्र० समजावे जग सघळुं लागे,
रागद्वेष न मनमां जागेरे. चारित्र० ॥ १ ॥ परजावे
रस रीझ न आवे, रीझ लागे आत्मस्वभावे रे; चा-
रित्र० क्रोध उपर क्रोध जागे ज्ञाने, मन रहेतुं नहीं
अजिमानेरे. चारित्र० ॥ २ ॥ निर्दंज निर्लोच जावे
रहेवुं, सुख दुःख समजावे सहेवुंरे; चारित्र० देश-
विरति सर्व विरति भेदे, आठ बार कषाय न वेदेरे.
चारित्र० ॥ ३ ॥ रांक जीवो पण चारित्र पाळी,
पाम्या मुक्ति वधू लटकाळीरे; चारित्र० शुक्ल शु-

(४२)

क्ल परिणाम वधंता, एतो अनुजवे ज्ञानी संतारे.
 चारित्र० ॥४॥ मैत्री प्रमोदने माध्यस्थजावे, करुणाए
 हृदय शुद्ध थावेरे; चारित्र० निर्मम निरहंकारे प्रणामे,
 सत्य अप्रतिबद्धता जामेरे. चारित्र० ॥ ५ ॥ अस्तेय
 ब्रह्मचर्य संतोषे, तजी व्यसनने सदगुण पोषेरे.
 चारित्र० मित्र शत्रुपर राग न रोष, नहीं निन्दक
 दृष्टिनो दोषेरे. चारित्र० ॥ ६ ॥ तृण मणिपर सम-
 भावनी वृत्ति, रहे मनमां न विषयासक्तिरे; चारित्र०
 आवे अनुजव सुखनी खुमारी, थाय कर्मो
 सकल उपकारीरे. चारित्र० ॥ ७ ॥ थाय परमार्थ-
 नी योग प्रवृत्ति, दोष अल्पने बहुधर्मनीतिरे.
 चारित्र० कर्म करे पण मोहे न एमां, फल
 आशा रहे नहीं तेमांरे. चारित्र० ॥ ८ ॥ अतिचार
 दोष प्रगट्या वारे, मळयो मानव जव नहीं
 हारेरे. चारित्र० शुद्ध उपयोगथी आत्म प्रकाशे,
 शुज अशुभ न मनमां भासेरे. चारित्र० ॥ ९ ॥
 पूजो गावोने मनमां ध्यावो, लेवो चारित्रनो सत्य

(४३)

ल्हावोरे; चारित्र० संयमीनां दर्शन दुःखहारी, सेवो
 चारित्रिने नरनारीरे. चारित्र० ॥ १० ॥ समकीतीने
 चारित्रनी इच्छा, करी पुरुषार्थ ग्रहे दीक्षारे. चा-
 रित्र० धर्म शुक्ल ध्याने आतमऋद्धि, बुद्धिसागर
 मंगल सिद्धिरे. चारित्र० ॥ ११ ॥

माया कारमीरे माया न करो चतुरसुजाण ए राग.

आतमगुणो विनारे, होळी राजा सरखो वेष;
 भवोभव जीवडारे, पाम्या आधिव्याधि क्लेश. गुण-
 वण आडंबर शा खपनो, बाह्यक्रिया व्यवहारेरे; वेष
 क्रिया छे गुणने माटे, जाणे ते निज तारे. आतम०
 ॥ १२ ॥ मोह वने नहि मनडुं भमतुं, ध्यान समाधि
 योगेरे; जरुमां सुखनी रहे न इच्छा, आतम सुखने
 त्तोगे. आतम० ॥ १३ ॥ दुर्गुण दोषो टाळी सघळा,
 आत्मगुणो प्रगटावोरे; चिदानंद उपयोग रमणता,
 चारित्रज ते च्हावो. आतम० ॥ १४ ॥ मोहनो
 उपशम क्षयोपशमने, क्षायिकजाव जे करवोरे;
 निर्विकल्प समाधि योगे, परमानंदने वरवो. आतम०
 ॥ १५ ॥ आत्मोपयोगे आत्मरमणता, निश्चयथी

(४४)

आरित्ररे; बुद्धिसागर पूर्णानन्दी, आतम पूर्ण पवित्र.
आतम० ॥ १६ ॥

रमणतात्मगुणेषु हि यत्रच ।

विगतनूतनकर्मपथं च यत् ॥

जगति जीवसमूहसुवह्वभं ।

सुललितं चरणं हृदि धारये ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम.

नवमी तपपद पूजा.

द्रव्यभाष्यथी तप तपे, सकल विघ्न दूर जाय;
पञ्चाश लब्धि उपजे, जय जय तप महिमाय. ॥ १॥
तप तपतां कष्टो, टळे, दुःखो दूरे जाय; सर्व कर्म दूरे
टळे, पग पग संगल आय. ॥ २ ॥ तपना भेद
अनेक ठे, तपना बार प्रकार; पूजो वंदो तपस्वीने,
तप तपशो नरनार. ॥ ३ ॥

नमोरे नमो श्री शत्रुंजय गिरिवर.

पूजो वंदो तप गुण धारी, तप तपशो जयका-
रसे, तप तपतां अष्टाकीश पञ्चाश, लब्धि प्रगटे सा-

(४५)

ररे. पू० ॥ १ ॥ सर्व शुभाशुभ इच्छा रोधक, तपथी
 शक्ति प्रकाशेरे; निष्कामी थै कार्यों करतां, तप छे
 जाणो पासेरे. पू० ॥ २ ॥ देव गुरुने संघनी सेवा,
 भक्ति तप छे बेशेरे; धार्मिक कर्म करंतां संकट—सहवां
 दुःखो कलेशेरे. पू० ॥ ३ ॥ आत्मार्थे परमार्थे प्रवृत्ति, करतां
 भय नहि खेदरे; द्वेष न प्रगटे तप ए तपतां, नासे
 मोहना भेदरे. पू० ॥ ४ ॥ मन वाणी कायानी शुद्धि,
 धरवी तप जयकाररे; सर्व शुभाशुभ फलनी इच्छा-
 त्यागथी तप ठे उदाररे. पू० ॥ ५ ॥ तीर्थकर त्रिज्ञा-
 नी पण जे, ते भव मुक्ति जाणरे; तप तपता जाणी-
 ने भव्यो, तप तपशो गुण खाणरे. पू० ॥ ६ ॥ मरण
 जीवनपर नहीं आसक्ति, सर्व समर्पण थायरे; पर-
 मार्थे जीवननी करणी, शुद्धोपयोगे सुहायरे. पू०
 ॥ ७ ॥ सर्व जीवोना हितने माटे, काया मननी
 प्रवृत्तिरे; जैनधर्मनी सेवा ञक्ति, करवानी ठे रीतिरे.
 पू० ॥ ८ ॥ सर्व लोकनां दुःखो हणवा, सहेजे सम-
 र्पाइ जायरे; सुख दुःख आवे हर्षे न शोचे, साक्षी

(४६)

भाव सुहायरे. पू० ॥ ९ ॥ नामने रूपमां मोह रहे
 नहीं, कर्तव्योज करायरे; ज्ञानाग्निमां मोहने होमी,
 मुक्ति क्षणमां पायरे. पू० ॥ १० ॥ मान पूजानी
 होय न वृत्ति, धार्मिक होय प्रवृत्तिरे; बाह्याभ्यंतर
 तपने तपतां, प्रगटे अनंती शक्तिरे. पू० ॥ ११ ॥
 आत्मने परमात्म करवा, तप ठे साधन सत्यरे;
 बुद्धिसागर मंगल पामो, तपथी करी शुच कृत्यरे.
 पूजो० ॥ १२ ॥

वीरकुमरनी वातडी कोने करीए. ए राग.

बासनारोधक तप तपो नरनारी, मनथी इच्छा-
 यो निवारी. करो आत्म शुद्धि जयकारी, शुचाशुभ
 परिणति वारी, रहो आत्म मगन्न, वासना. ॥ १३ ॥
 निश्चय तप क्षण मात्रमां शिव आपे, शुद्ध केवल
 ज्ञाने ठापे; पूर्ण आनंद घटमां व्यापे, रहो तपथी
 प्रसन्न. वास० ॥ १४ ॥ कामादिक मोह वृत्तियो सहु
 टाळो, शुद्ध आत्म स्वरूप निहाळो; भेदभावनी
 वृत्ति बाळो, राखो निर्मल मन. वास० ॥ १५ ॥

(४७)

आत्मज्ञानने ध्यानथी ठे समाधि, टळे आधि व्याधि
 उपाधि; लहो मुक्ति तप आराधी, बनो जीवन्मुक्त.
 वास० ॥ १६ ॥ निश्चय तप पुरुषार्थथी भवी पामो,
 बनी निर्विषयी दुःख वामो; परब्रह्म बनी ठरो ठामे;
 बुद्धिसागर बेश. वास० ॥ १७ ॥

गीत.

गायां गायारे एम नवपद भावथी गायीं; प्रभु
 महावीर देवे प्रकाश्यां, ते में भावथी ध्यायारे. एम.
 चार निक्षेपे सातनयेजे, नवपदनुं करे ज्ञान; सिद्ध
 चक्र आराधी ध्याइं, पोते बने भगवानूरे. एम० ॥ १ ॥
 आंबिल ओळी आदितपथी, नवपदने आराधे. पद-
 पद मंगल ऋद्धिसिद्धि, मुक्तिने ते साधेरे. एम० ॥ २ ॥
 गुरुगम यंत्रने मंत्र ग्रहीने, जप जपतां एकताने.
 जे जे भावे आराधे ते ते, जावे फळे ठे ज्ञानेरे. एम०
 ॥ ३ ॥ संवत् श्रोगणिश सत्तोत्तरनी, साले आश्विन
 मासे, विजया दशमी चढता पहोरे, पूजा रची उह्वा-


(४८)

सेरे. एम० ॥ ४ ॥ सानंद शहरे आनंद ल्हरे, चो-
 मासुं कर्तुं भावे. संघनी सेवा भाक्ति सारी, नवपद
 पूजा जणावेरे. एम० ॥ ५ ॥ तपगच्छहीरविजय सू-
 रिपाटे, सहज सागर उवझाय, पट्ट परंपर योगी म-
 हासिद्ध, नेमि सागर गुरुरायरे. एम० ॥ ६ ॥ सागर
 शाखामां रवि सरखा, रविसागर गुरुराज. गुर्जर देशी
 संघ सुधार्यो, जेनां उत्तम काजरे. एम० ॥ ७ ॥ ते-
 मनी पाटे वैयावच्ची, धर्म क्रियामां धोरी. श्री सुख
 सागर गुरुजी वंदु, ज्ञाननी हाथमां दोरीरे. एम०
 ॥ ८ ॥ गुरु सुखसागर पूर्ण कृपाथी, नवपद महिमा
 गायो, बुद्धिसागर सूरिण जावे, सिद्ध चक्र वधायोरे.
 एम० ॥ ९ ॥

दहति यत्किल कर्म निकाचितं,
 विविध सिद्धि विधायकमप्य हो;
 जिनवरैरपि सेवितमादरात्,
 हृदि वहामि तपो बहु भेदकम् ॥ १ ॥
 उँ ह्रीं श्री परम०

(४९)

पंचाचारपूजा प्रारंभ.



मङ्गलम्.

प्रभु महावीर जिनवरा, तीर्थकर जयकार; सर्व
विश्वशासन प्रभु, परब्रह्म सुखकार. ॥ १ ॥ प्रणमी
वंदी पूजीने, गावुं पंचाचार, पंचाचारे वर्ततां, मुक्ति
लहे नरनार. ॥ २ ॥ द्रव्यभाव आचार ठे, साधन
साध्य प्रकार; सापेक्षे साधन सकल, आत्मशुद्धि
करनार. ॥ ३ ॥



प्रथम ज्ञानाचार पूजा.

दुहा.

मोहनजी मोकलोरे मोसालुं अथवा ओहि जिन पूजीए

मनरंगे—ए राग.

प्रभु महावीर जगहितकारी, प्रतिबोध्यां नरने
नारी, धन्य महावीर जग उपकारीरे, आज मनोरथ

(५०)

मुज फळीया. मनवंठित मेळा मळियारे. आज० ॥ १ ॥
 ज्ञानाचारने समजाव्यो, ते में मनमांही लाव्यो.
 द्रव्यने भावथकी भाव्योरे. आज० ॥ २ ॥ काल
 विनयने बहुमाने, गुरुगम पामी उपधाने, अनि
 ह्वताना तानेरे. आज० ॥ ३ ॥ शब्दार्थ तदुन्नय
 धारो, श्रुत जणतां सुख निर्धारो, तजीए आठे अति-
 चारोरे, आज० ॥ ४ ॥ आगम शास्त्र श्रवणयोगे,
 गुरुसेवा स्वार्पण भोगे, ज्ञान वधे मन आरोग्येरे,
 आज० ॥ ५ ॥ गुरु श्रद्धा प्रीति भक्ति, प्रगटे ज्ञान
 तणी शक्ति, प्रगटे परम प्रभु व्यंक्तिरे. आज ॥ ६ ॥
 ज्ञानावरण सकल दूर नासे, आगम अनुज्ञव अभ्यासे,
 भावथी आतम उल्लासेरे. आज० ॥ ७ ॥ तुज
 आगम गुरुमुख सुणतां, कर्म सकल वेगे टळतां,
 बुद्धिसागर, अनुसरतारे. आज० ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु
 निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय ज्ञानाचारपूजनाय.

(५१)

जलादिकं—यजामहे स्वाहा.

द्वितीय दर्शनाचार पूजा.

दुहा—

दर्शनाचारने पाळीए, आठ तजी अतिचार;
 द्रव्यभाव बे भेदथो, समजो दर्शन सार, ॥ १ ॥
 निश्चयने व्यवहारथी, दर्शनना बहु भेद; दर्शनना,
 आचारने, पाळी टाळो खेद, ॥२॥ देवगुरुने धर्मनी,
 भक्ति करतां भव्य, आत्मिकदर्शन प्रगटतुं, करतां शुभ
 कर्तव्य, ॥ ३ ॥

विनति धरजो ध्यान जगपति विनति ए—राग.

दर्शनना आचार, भवी भजो, दर्शनना आचार
 निःशंकित थै निःकांक्षित थै, रुडो धरो व्यवहार.
 भवी० ॥ १ ॥ वितिगिच्छा दोष निवारी, साधीए
 धर्माचार. भत्री० मूढपणानी दृष्टि त्यागी, धरो प्रभु-
 पर प्यार. भवी० ॥ २ ॥ उपबृंहणथी दर्शन पुष्टि,

(५२)

जिनशासन जयकार. भवी० सकल संघनी सेवा
 भक्ति, निष्कामि आचार. भवी० ॥ ३ ॥ जिनशास-
 नना आठ प्रभावक, सेवो नरने नार, भवी०
 उपयोगी थै दर्शनाचारे; रहेतां कर्म संहार. भवी०
 ॥४॥ लज्जा खेदने द्वेष निवारी, निर्णय थैने उदार.
 भवी० तनमन धननुं अर्पण करवुं, संघोन्नति हित-
 कार. जवी० ॥ ५ ॥ अर्पाइ जाओने जैनो, त्यागी
 देहाध्यास, भवी० देवगुरुने जैन धर्मनो, तजो नहीं
 विश्वास. भवी० ॥ ६ ॥ स्थिर करीए धर्म सर्वने,
 यथाशक्ति नरनार, भवी० साधर्मिकनी भक्ति करीए,
 करी प्रभावना सार. जवी० ॥७॥ निश्चय शुद्धातम
 अनुभवतां, रहे न दर्शन दोष, भवी० बुद्धिसागर
 दर्शन पामे, सहु रीते संतोष. भवी० ॥ ८ ॥

तृतीया चारित्राचार पूजा.

हुहा.

द्रव्यभाव चारित्र छे, निश्चयने व्यवहार,
 चारित्राचारे रमो, आठ तजी अतिचार. ॥ १ ॥

(५३)

पांच समिति त्रण गुप्तिनो, उत्तम जगमां योग,
 जे योगे रमतां थकां, आतम होय अयोग. ॥ १ ॥
 अपवादे समिति कही, उत्सर्गे त्रण गुप्ति; गुप्ते गुप्ता
 मुनिवरा, पामे क्षायिक शक्ति, ॥ ३ ॥

सांभळजो मुनि संयमरागे—ए राग.

प्रभु महावीर जिन उपदेशे, समिति गुप्ति
 साचीरे, असंख्य योगनी प्रवचन माता, रहेशो तेमां
 राचीरे ॥ प्रभु ॥ १ ॥ ज्ञानने भक्ति कर्म उपासना,
 हठयोगादिक योगोरे, त्रण गुप्तिमां सर्व समाता,
 जेथी रहे नहीं जोगोरे ॥ प्रभु ॥ २ ॥ गृहस्थ त्यागी
 बेने हितकर, योग क्षेम प्रदातारे, सिद्ध्या सिजशे
 सिद्धे तेओ, पाळी प्रवचन मातारे ॥ प्रभु ॥ ३ ॥
 भावथकी त्रण गुप्ति साधे, मुक्ति अनुभव आवेरे,
 द्रव्यने जावथकी निज मुक्ति, सहजानंद सुहावेरे
 ॥ प्रभु ॥ ४ ॥ रागद्वेष संकल्प विकल्पो, दूर थतां
 मन गुप्तिरे, निर्विकल्प स्वभावे समाधि, केवल प्रगटे
 शक्तिरे ॥ प्रभु ॥ ५ ॥ आतम ज्ञानोपयोगे रहेतां,

(५४)

समिति गुप्ति पासेरे, ज्ञानी सर्वे कर्मो करतो, ज्ञाने
 गुप्ति उपासेरे ॥ प्रभु ॥ ६ ॥ ज्ञानी समिति धारे
 ज्यां त्यां, द्रव्यभावथी जाणीरे, उत्कृष्टात्रंगे क्षण
 मुक्ति, भाखे केवल ज्ञानीरे ॥ प्रभु ॥ ७ ॥ समिति
 गुप्ति साधे सर्वे, योग सधाता जाणोरे, बुद्धिसागर
 आत्म उजागर, प्रगटे भाव प्रमाणोरे ॥ प्रभु ॥ ८ ॥

चतुर्थी तपआचार पूजा.

डुहा.

बार भेदे तप भलो, बाह्य अभ्यंतर बेश; तप
 तपतां नासे घणा, कर्म निकाचित क्लेश. ॥ १ ॥
 अशुभ शुभ इच्छा सकल, सर्व क्रिया फलत्याग.
 निश्चय तप ते जाणवुं, तपता महा सौभाग. ॥ २ ॥
 बारे अतिचारो तजी, धारो तप आचार, दुःख सही
 आत्म चहो, तप तपशो नरनार. ॥ ३ ॥

चोमासी पारणुं आवे—ए राग.

प्रभुमहावीर जिनजयकारी, तप तपिया बन। अ-
 नगारी, बन्या केवली जगहितकारी, भाख्युं तपवर्तन
 सुखकारीरे, तप सेवो सकल नरनारी, जाड तपि-

(५५)

यानी बलिहारीरे, तप० ॥ १ ॥ द्रव्यभावथी तप
 आचरवुं, भवसागर वेगे तरवुं, निश्चय निज गुणमां
 जळवुं, समजावे रही सहु करवुंरे, तप० ॥ २ ॥ परपुद्-
 गल मोह न धरवो. निश्चय तप गुण ए वरवो, द्रव्यजाव
 काम संहरवो, प्रभु पूजी तप दिल करवोरे. तप० ॥ ३ ॥
 द्रव्य जाव तपस्वीसेवा, करवा प्रगटे दिल हेवा;
 एतो अनुभव अमृत मेवा; तपसीनी सहाये
 देवारे. तप० ॥ ४ ॥ जे जे कर्म उदयमां
 आवे, सुख दुःखपणुं दर्शावे; शुजाशुभ
 बुद्धि नहीं लावे, रहे ज्ञानी सम तप भावेरे.
 तप० ॥ ५ ॥ नाम रूपमां मोह न धारे, करे कर्मनै
 स्वाधिकारे; उपकारमां जीवन गाळे, संघ सेवा तप ते
 भारेरे. तप० ॥ ६ ॥ करे सद्गुरु साधु भक्ति, कोइमां
 नहीं धारे आसक्ति; राखे नहीं सात जातनी भीति,
 एवी ज्ञानी तपस्वी रीतिरे. तप० ॥ ७ ॥ शुद्ध उप-
 योग छे तपभारी, पामे ज्ञानी जन संस्कारी; ध्यान
 सहज समाधि सारी, रहे वृत्ति न कोइ विकारीरे.
 तप० ॥ ८ ॥ पुरुषार्थथी तप आचरशो, यथाशक्ति भावथी

(५६)

करशो; लब्धि सिद्धि प्रकटता करशो, बुद्धिसा-
गर मंगल वरशोरे. तप० ॥ ९ ॥

पांचमी वीर्याचार पूजा.

दुहा-

आतम शक्ति फोरवो, त्रण तजी अतिचार,
सर्व प्रमादो परिहरो, धर्म करो नरनार, ॥ १ ॥ देव
गुरुने धर्मना, आराधनमां शक्ति, फोरवतां शक्ति
वधे, प्रगटे प्रभुपद व्यक्ति, ॥२॥ टींटोमी उत्साहथी,
अनंत गुणो, उत्साह, धारी आतम शुद्धिनो, राखो
मनमां चाह. ॥ ३ ॥

ध्यान क्रिया मनमां आणी जे-ए राग.

प्रभु महावीर जिन उपदेशे, वीर्याचारने धारोरे.
धर्ममां शक्ति फोरवो लोको, करशो पर उपकारोरे.
प्रभु० ॥१॥ दुःख पडंतां नहिं मुंझाशो, परनी व्हारे
धाशोरे, संकट परुता भागी न जाशो, करवा धर्म

(५७)

उजाशोरे॥ प्रभु० ॥२॥ व्रत तप भक्तिमां ढीला न
 थाशो, उत्साहे सुख पाशोरे; कायर थे थाओ नहीं
 दासो, चूको न निज विश्वासोरे. प्रभु० ॥ ३ ॥
 अनंत शक्तिनो स्वामी आतम, कायरथी न पमा-
 तोरे; जीवतां मरजीवा ज्ञानी, तेथी आत्म लहातोरे.
 प्रभु० ॥ ४ ॥ देहाध्यासथी मरतां मुक्ति, पडे न
 पाछा नीतिरे, शूराजननी एवी रोति, धरे न क्याये
 भीतिरे. प्रभु० ॥ ५ ॥ गोपवो नहीं बलवीर्यने धर्म,
 उत्साही सत्कर्मरे; थैने रहेशो आतम शर्म, पडो न
 मिथ्या भर्मरे. प्रभु० ॥ ६ ॥ भावीभाव हशे ते
 थाशे, कर्म लखुं ते थाशेरे; एकांत मिथ्या एवी
 बुद्धि, टाळी रहो उल्लासेरे; प्रभु० ॥ ७ ॥ आतमना
 पुष्पार्थे सर्वे, थातुं निश्चय राखेरे; प्राण पडे पण
 कार्य न मूको, आतम सुखने चाखेरे. प्रभु० ॥ ८ ॥
 वीर्याचारे कर्म टळे सहु, आतम शक्तियो प्रगटेरे;
 आतम ते परमातम थावे, मिथ्या कर्मो विघटेरे.
 प्रभु० ॥ ९ ॥ सर्व प्रकारे धर्म प्रवृत्ति, करतां धैर्यने

(५८)

धारोरे; बुद्धिसागर आनंद मंगल, सिद्ध प्रभु निर्धारोरे.
प्रभु० ॥ १० ॥

कलश.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो—

पंचाचार सदाचार जगमां, ते गातां हरखायो;
वीर प्रज्जु वचनामृत पीतां, तृप्ति न मनमां पायोरे.
महावीर० ॥१॥ पंचाचारना धारक पूजो, पंचमी गति
सुखकारी; वीर प्रज्जुण समकित पामी, पाळ्या दुर्गति
हारीरे. महावीर० ॥२॥ दर्शन ज्ञानने चारित्रमांही,
पंचाचार समाया; पंचाचारने पाळे मुक्ति, सहजानंद
सुहायारे. महावीर० ॥ ३ ॥ अंतर आतम पंचाचारे,
पूजी वीरने भावे; परमातम पोते घट थावे, ध्याता
ध्येय सुहावेरे. महावीर० ॥४॥ सानंद शहेरे आनंद
व्हेरे, पूजा रची गुण दावे; ओगणीश सतोत्तेर आशो
वदि, बीज दिने बहु ज्ञावेरे. महावीर० ॥ ५ ॥
जणतां गणतांने सांभळतां, पामो शिव नरनारी; संघ

(५९)

चतुर्विध मंगल पामो, समकित्ती व्रती अवतारीरे.
 महावीर० ॥ ६ ॥ चउनिक्षेपे सातनये में, पंचा-
 चारने जाण्या; गुरु सुखसागर पूर्ण कृपाथी; घटमां
 भावे आण्यारे. महावीर ॥७॥ गावो जाणो मनमां
 आणो, आचारने आचारो; बुद्धिसागर आनंद मंगल,
 ऋद्धि वृद्धि अपारोरे. महावीर० ॥ ८ ॥

(६०)

अथ विंशतिस्थानक पद लघुपूजा प्रारंभ.

प्रथम अरिहंतपद पूजा.

श्री महावीर जिनेश्वरा, चोवीशमा जिनराज;
 त्रिशलानंदन जयकरा, प्रणमुं जिनशिरताज. ॥ १ ॥
 बहुविध तपशास्त्रो ज्ञण्यां, कर्म दुरित हरनार;
 विंशति स्थानक तत्र वडुं, सहु तपमां शिरदार.
 ॥ २ ॥ विशस्थानक पूजा रचुं, पूज्यपणुं दातार;
 पूज्यनी पूजा भक्तिथी, तीर्थकर पद सार. ॥ ३ ॥

प्रथम अरिहंत पदपूजा.

परमेष्ठीमां प्रथम ठे, अरिहंत जगवंत. नय
 निक्षेपे ध्याइए, आविर्भावे संत. ॥ १ ॥

संभव जिनवर विनति. ए राग.

प्रभु अरिहंत जिन पूजाए, बारगुणे जयकारीरे,
 चोत्रीश अतिशयवंत जे, केवलज्ञानना धारीरे॥
 प्रभु० ॥ १ ॥ पांत्रीश वाणी गुणोवमे, जग बोधे

(६१)

सुखकारीरे; त्रणकाल अर्हन् विभु, सर्व जगत् उप-
 कारीरे. प्रभु० ॥२॥ क्षायिक नव लब्धि धणी, तारण
 तरण झहाजरे. तीर्थ प्रवचन संघने, स्थापे भवी
 हितकाजरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ इन्द्र असंख्य सुरासुरा,
 सेवे प्रभु हितकारीरे; घाती कर्म चउ क्षय करी,
 चाव प्रभुता धारीरे. प्रभु० ॥४॥ दोष अढार रहित
 प्रभु, सर्व शुभोपम छाजरे. बुद्धिसागर ध्यावतां,
 आत्म जगमां गाजरे. प्रभु० ॥ ५ ॥

द्वितीया सिद्ध पदपूजा.

सकल कर्मने क्षय करी, सिद्धया सिद्धशे जेह;
 त्रिकरणयोगे पूजीए, वंदीजे गुण गेह. ॥ १ ॥

ध्याइए ध्याइए ध्याइए- सिद्ध परमात्म प्रभु
 ध्याइए; आठ कर्म क्षये आठ गुणोथी. सिद्ध थया
 दिल लावीए. व्यतिरेकी एकत्रीश गुणो जे. अस्ति
 नास्तिमय चावीए. सिद्ध० ॥ १ ॥ जन्म जरा नहीं

(६२)

मृत्यु न जेने, हृदय धरीने रीजीए. शुद्ध गुणो पर्यायो अनंता, आविर्भावे ते लीजीए. सिद्ध०
 ॥ २ ॥ पूर्णानंदमयी परमेश्वर, आदि न अंत न पाइए. आतम सत्ताए परमातम. सत्ताध्याने सुहाइए. सिद्ध० ॥ ६ ॥ आतम गुण पर्यायथी अस्तिनास्ति परनी जाणीए. उत्पत्तिव्यय ध्रुवतारामी, समये समये चित्त आणीए. सिद्ध० ॥ ४ ॥ सिद्ध प्रभुओ गावो ध्यावो, प्रभु आज्ञा शिर धारीए. बुद्धिसागर सिद्ध प्रभु विभु, थैने जन्म सुधारोए. सिद्ध० ॥ ५ ॥

—
 तृतीया प्रवचन पदपूजा.

प्रवचन पूजतां वंदतां, ध्यावतां मंगलमाल.
 प्रवचन पद दिलमां वस्युं—सर्व पाप हणनार. ॥१॥

विमला नव करशो उच्चाट ए—राग.

प्रेमे प्रवचन पूजो गावो. मनमां धारशोरे.
 भवे तीर्थ संघ सेवाथी, संकट टाळशोरे. प्रेमे० संघ

(६३)

चतुर्विध सेवा भक्ति. करतां प्रगटे सघळी शक्ति.
 करीने शासन सेवा. आतमने उद्धारजोरे ॥ प्रेमे०
 ॥ १ ॥ तीर्थकर षण तीर्थने नमता, तीर्थ नमे ते
 भव नहि जमता. भावे प्रवचन श्रुतने मनमांही
 अवधारशोरे. प्रेमे० ॥२॥ धर्मक्षेत्र साते शुभ पोषो,
 टाळो शंसय आदि दोषो. आतम उपयोगी ऐ
 कर्म कटक संहारशोरे. प्रेमे० ॥३॥ जैन धर्म फेजावो
 करशो, तीर्थकर गणधर पद वरशो. प्रभुनी वाणोने
 जगमां सर्वत्र प्रचारशोरे. प्रेमे० ॥ ४ ॥ प्रवचन सेवा
 माटे सर्वे, मळ्युं गणो नहि रहेशो गर्वे. चावे बुद्धि-
 सागर आप तरो परतारशोरे. प्रेमे० ॥ ५ ॥

अथ चतुर्थ आचार्य पद पूजा.

नमो नमो श्री सूरिवर, गणधर संघ प्रधान;
 तीर्थकर पाछळ प्रभु, अर्हन्सम भगवान्. ॥ १ ॥

जीवलमा घाट नवा शीद घंमे. ए राग.

सूरिवर शासन जक्ति भर्या, हृदयमां ते में
 अंगीकर्या, देशकाल अनुसारे शासन, धर्म प्रचारक

(६४)

खरा. छत्रीशी ठत्रीशी गुणे करी, आतम गुणथी
 भर्या. हृदयमां० ॥ १ ॥ देशकाल तरतम गुण कि-
 रिया, शोभे जे जयकरा; बत्रीश उपमा जेने ठाजे,
 गीतार्थ ज सुखकरा. हृदयमां० ॥ २ ॥ धर्मशास्त्रना
 अर्थ प्रकाशे, शासन शोभा वर्या; स्वतंत्रताए वर्ते
 जगमां, अनंत ज्योते भळ्या. हृदयमां० ॥ ३ ॥ सर्व
 शास्त्रनी एक वाक्यता, करता अनुभव भर्या; आतम
 उपयोगे सहु करणी, करता ध्याने ठर्या. हृदयमां०
 ॥ ४ ॥ ध्यान समाधि योगे योगी, कदि न जावे
 ऋर्या; बुद्धिसागर सूरि सेवा, भक्ति मंगल धर्या.
 हृदयमां० ॥ ५ ॥

अथ पंचम उपाध्याय पद पूजा.

पच्चीश गुणथी शोचता, उपाध्याय जक्कार;
 भणे भणावे साधुने, युवराजा सुखकार. ॥ १ ॥

(६५)

आत्म चक्ति मळ्या केइ देवा. ए राग.

वाचक पद पूजो नरनारी, स्वयं बनो जग तेवा;
 पुरुषार्थे वाचक पद प्रगटे, कर्म क्षये गुण लेवा. वा-
 चक० ॥ १ ॥ जीवंता वाचक सहु पूजो, द्रव्यथी
 भावथी जावे; गुणीनी संगे गुणीना ध्याने, गुण निज
 घटमां आवे. वाचक० ॥ २ ॥ वाचक वैयावच्च क-
 रीने, मानव भव ल्यो ल्हावो; सर्व स्वार्पण करीने
 भक्ति, करतां गुण प्रगटावो. वाचक० ॥ ३ ॥ मिथ्या
 संशय तर्क वितर्को, तजोने वाचक सेवो; लोक विषय
 संज्ञाने त्यागो, वाचक सेवा मेवो. वाचक० ॥ ४ ॥
 अनेक सद्गुणदरिया वाचक, सेवो नरने नारी.
 बुद्धिसागर वाचक पदनी, जाउं हुं बलिहारी.
 वाचक० ॥ ५ ॥

पंचमस्थविरपद पूजा.

स्थिर करता मुनि आदिने, जैन धर्ममां जेह;
 स्थविरोने सेवो सदा, स्थिरतादिक गुण गेह. ॥ १ ॥

(६६)

श्रुतपद नमिये भावे ऋविद्या. ए-राग.

स्थविर मुनि जगमां उपकारी, मुनिजन स्थिरता कारीजी; स्थविर साधुनी संगति करतां, चंचलता टळनारी; स्थविरने, ऋजीएजी, पशुने करता देव, स्थविरने यजीएजी ॥ १ ॥ वीश वर्ष दीक्षा पर्यायी, साठ वर्ष वय धारीजी; आचार आदि अंगना ज्ञाता, श्रुतस्थविरा सुखकारी. स्थविर० ॥१॥ बालक ग्लान संशयी चंचलने, धर्मविषे स्थिरकारीजी; परिणामिक बुद्धि अनुभवी जे, बाल मुनि हितकारी. स्थविर० ॥ ३ ॥ प्रभु महावीरे मेघ कुमरने, संयममां स्थिर कीधाजी; ठाणांगे दश स्थविरा भाख्या, आतम रमणी प्रसिद्धा. स्थविर० ॥ ४ ॥ ज्ञानी ध्यानी मुनिवरा जे, स्वपर समयना दरियाजी; बुद्धिसागर स्थविर मुनि शुभ, तारे ने जे तरिया. स्थविर० ॥ ५ ॥

सत्तम साधु पद पूजा.

आत्म स्वजावे जे रमे, परोपकारी महान्;
सत्तावीश गुण धारका, प्रणमो मुनि गुणखाण. ॥ १ ॥

(६७)

ए गुण वीर तणो न विसारुं ए राग.

मुनिवर देखी प्रणमो वंदो, पूजो घ्यावो भा-
 वारे; मुनिवरनी संगत करवामां, श्रद्धा प्रीति द्यावारे.
 मुनिवर० ॥ १ ॥ वर्तमानमां तरतम योगे, वर्ते
 साधु जेहरे; तेनी सेवा भक्ति करतां, थाशो स्वयं
 गुण गेहरे. मुनिवर० ॥ २ ॥ मुनि आशातना
 हेलना त्यागो, वर्ततानी संगरे; करशो गुणरागी थै
 लोको, गुणनो धरो मन रंगरे. मुनिवर० ॥ ३ ॥ सर्व
 जीव उपकारी साधु, क्षांति आदि धरे धर्मरे; शुद्धा-
 तम उपयोगे वर्ती, करता धर्मनां कर्मरे. मुनिवर०
 ॥ ४ ॥ अप्रतिबद्धपणे जे वर्ते, गुरु निश्राअे संतरे;
 बुद्धिसागर मुनिवर सेवा, अनंत पुण्य मळंतरे.
 मुनिवर० ॥ ५ ॥

अष्टम ज्ञानपद पूजा.

ज्ञानने पूजो जविजना, सकल धर्म आधार;
 ज्ञान प्रकाशी आतमा, परमातम निर्धारं. ॥ १ ॥

(६८)

सिद्धचक्र पद सेवा कीजे. ए-राग.

सर्व गुणोमां ज्ञान छे मोटुं, ज्ञाने परमानंदोजी;
 आत्मज्ञान ठे सर्वमां मोटुं, टाळे जे भवफंदो;
 ज्ञानने भजीएजी, ज्ञान ठे आत्म रूप; निजगुण
 सजीएजी. ॥ १ ॥ ज्ञानोपयोगे आत्मरमणता,
 स्वरूप क्रिया ठे साचीजी; ज्ञानोपयोगे ध्यान क्रिया-
 थी, रहेशो निजगुण राची. ज्ञान० ॥ २ ॥ ज्ञानो
 पयोगे सहज समाधि, निर्लेपे सहु करणीजी; नय-
 निक्षेपे ज्ञानने जाणो, जे छे भवमां तरणी. ज्ञान०
 ॥ ३ ॥ निजपरने उपकारी श्रुत ठे, जाणे छे स्या-
 द्वादीजी; अनेकान्तपणे सहु जाणो, थाओ नहीं
 उन्मादी. ज्ञान० ॥ ४ ॥ ज्ञाने सर्व कर्म क्षयक्षणमां,
 करे उतां नहि कर्ताजी; बुद्धिसागर सद्गुरु सेवो,
 ज्ञानी जवोदधि तरता. ज्ञानने० ॥ ५ ॥

नवमी दर्शनपद पूजा.

द्रव्य ज्ञाव दर्शन नमु, निश्चयने व्यवहार, स-
 म्यगू दर्शन पामीने, मुक्ति लहे नरनार. ॥ १ ॥

(६९)

तपपदने पूजीजे हो प्राणी. ए राग.

दर्शन दिल प्रगटावो हो सुखकर, दर्शन दिल प्रगटावो॥उपशम क्षयोपशमने क्षायिक, द्रव्यने जाव सुहावो; व्यवहार निश्चय समकित पावो, अजरामर थइ जावो हो. सुखकर ॥ दर्शन० ॥ १ ॥ सम्यग् दर्शन योगे मिथ्या, शास्त्रो पण होय सवळां. मिथ्या दर्शन योगे सम्यक्-शास्त्रो पण होय अवळां हो. सुखकर॥ दर्शन० ॥ २ ॥ सम्यक्पणे सघळुं परिणमतुं, समकित्तीने जावे. अल्पबंधने निर्जरा ज्ञाज्ञी, प्रवृत्तिमां थावे हो. सुखकर ॥ दर्शन० ॥ ३ ॥ सात आठ त्रण चार भवोमां, समकित्ती लहे मुक्ति. उक्कृष्टुं अंत सुहूर्तमां, पामे मुक्ति झटिति हो. सुखकर. दर्शन० ॥ ४ ॥ समकित्तीनी सेवा जक्ति, करवा स्वार्पण करवुं. बुद्धिसागर आतम शुद्धि, मंगल पदने वरवुं हो. सुखकर. दर्शन० ॥ ५ ॥

दशमी विनयपद पूजा.

बाह्याज्यंतर विनयने, सेवो नरने नार. सर्व धर्मनुं मूळ ठे, सद्गुणमां शिरदार ॥१॥

(७०)

जीवलडा घाट नवा शीद घडे. ए राग.

विनयनी वाटे जे जन चडे, जगत्मां पाछे ते नहीं पडे. देव गुरुने संत विनयथी, मारग धर्मनो जडे; विनये विद्याज्ञानने पामे, संसारे नहि सके. विनयनी ॥ १ ॥ पांचने दशविध तेरने बावन, भेदे विनयने करे. शमदम आदि गुणने पामे, वांछित वेळा वळे. विनयनी ॥ २ ॥ आहारी पण उपवासी छे, विनयी मुक्ति वरे. गुरु विनये ज्ञानादिक पामे, श्रद्धा प्रीति बळे. विनयनी ॥ ३ ॥ सर्व संघ गुणी-जनना विनये, मोहनी वृत्ति टळे. शुद्धातम उपयोगे करणी, थावे निजगुण चळे. विनयनी ॥ ४ ॥ सर्व शक्तिनुं मूळ विनय छे, चक्कोने सांपडे. बुद्धिसागर मंगल माला, अनंत सुखमां मळे. विनयनी ॥ ५ ॥

अग्यारमी चारित्रपद पूजा.

सर्वगुणी चारित्रथी, मुक्ति लहो नरन, चारित्र सम जग को नहीं, पूर्ण मुक्ति दातार. ॥ १ ॥

(७१)

कानुको न जाणे मोरी प्रीत. ए राग.

चेतन धारी ले चारित्र, दुर्गुण दोष हरीनेरे,
 चेतन॥ द्रव्यने जावथी धारे, कर्मो सघळां संहारे;
 एवुं रुडुं धर चारित्र, शाने मोह धरे छे रे. चेतन०
 ॥ १ ॥ सर्व प्रमादो वारी, चैती ले आत्म सुधारी;
 एही वा त्यागीनुं चारित्र, धरी ले स्वाधिकारेरे. चे-
 तन. ॥ २ ॥ मोह कादवमां खूच्यो, भूडनी पेठे मुं-
 झ्यो; रागद्वेषे पडियो मूढ, शीदने निज विसरेछेरे.
 चेतन० ॥ ३ ॥ हजी ठे हाथमां बाजी, हारे शुं
 थैने पाजी; जीवो मुक्ति पाम्या अनंत, शाने वार
 करेछेरे. चेतन० ॥ ४ ॥ शुद्ध स्वजावमां रमवुं,
 एथी न जवमां जमवुं; बुद्धिसागर गुरु चारित्र, पामी
 जव्य तरेठेरे. चेतन० ॥ ५ ॥



बारमी ब्रह्मचर्य पद पूजा.

रत्न मणिमय मंदिरो, प्रतिमाओ करनार; तेथी
 अनंतु फल लहे, ब्रह्मचर्य धरनार. ॥ १ ॥



(७२)

धनधन ते जगमां नरनार, विमलाचलके
जानेवाले. ए राग.

धन्य धन्य जगमां ते नरनार, निर्मल ब्रह्मचर्य
धरनार; पूजो ब्रह्मचारी नरनार, धारो ब्रह्मचर्य सुख-
कार ॥ रत्नमणि कंचननी प्रतिमा, चैत्य करावणहार;
अनंत गणुं फल तेथी पामे, ब्रह्मचर्य धरनार. धन्य०
॥ १ ॥ सहस चोराशी मुनिवरदाने, जे फल नक्की
धनार; ते फल विजयने विजयाज्ञक्ते, अयुं धन्य
अवतार. धन्य० ॥ २ ॥ द्रव्यथी कायिक वीर्यनी
रक्षा, आत्म रमणता सार; भावथी ब्रह्मचर्य छे एवुं,
सहु शक्ति दातार. धन्य० ॥ ३ ॥ सर्व प्रकारे विष-
यनी वांठा, त्यागी जे रहेनार; अनासक्तिए करे
कृत्य सहु, ब्रह्मचारी शिरदार, धन्य० ॥ ४ ॥ देश
थकी ने सर्वथकी जे, ब्रह्मचर्य धरनार; इन्द्रादिक
तेना पद पूजे, देवो स्हाये थनार, धन्य० ॥ ५ ॥
दिव्य औदारिक त्रिकरण योगे, सर्व काम हरनार,
बुद्धिसागर ब्रह्मचर्यनी, अनंत शक्ति उदार, धन्य० ॥ ६



(७३)

त्रयोदशमी क्रियापद पूजा.

आत्मज्ञानथी सत् क्रिया, करतां कर्म विनाश;
साध्योपयोगे साधना, आपे सिद्धि विलास. ॥ १ ॥

ध्यान क्रिया मनमां आणी जे. ए राग.

धर्मक्रिया करीए उपयोगे, निजपरने हितकारी रे; आवश्यक जे धर्मनां कार्यों, करीए फर्ज विचारि रे. धर्म० ॥ १ ॥ निजपर उपकारक शुभ कार्यों, सर्व संघ उपकारी रे; करतां मरतां मोह न धरीए, फलनी इच्छा निवारी रे. धर्म० ॥ २ ॥ निजपर उपकारक छे प्रवृत्ति, व्यवहारे व्यवहरीऐरे. क्रियानुत्थापे संघ रहे नहीं, समजी सर्वे करीऐरे. धर्म० ॥ ३ ॥ शुच परिणामे शुच फल थातुं, आत्मोपयोगे मुक्तिरे; व्यवहारिक धार्मिक कर्तव्यो, करवां व्यवहारी तरे. धर्म० ॥ ४ ॥ ध्यान क्रिया ध्यानी घट धारे, निज उपयोगे सुधारेरे; ज्ञानी बाह्याच्यंतर किरिया, करतो धर्म वधारेरे. धर्म० ॥ ५ ॥ अशुच क्रिया

(७४)

ध्यान वारी संतो, कस्ता आत्म शुद्धिरे; बुद्धिसागर
सहज स्वभावे, रमतां आनंद ऋद्धिरे. धर्म० ॥ ६ ॥

॥ चौदमी तपपद पूजा. ॥

तपथी प्रगटे लब्धियो, अट्टावीश पच्चाश; कर्म
तपावे चीकणां, तप ते तपशो खास. ॥ १ ॥
फाग रंग मच्यो जिन दरबाररे चालो खेळीए होरी.

ए-राग.

तप तपशो नरनाररे, तप छे सुखकारी; तपथी
अनंती शक्तिरे, प्रगटे हितकारी ॥ बाह्याभ्यंतर तप
बहु भेदे, जन्म मरण दुःखहारी; फल इच्छानो रोध
कर्याथी, कर्म खरे बहु भारीरे. तप छे सुखकारी.
तप०॥१॥ कर्म निकाचित क्षय बहु थातां, करो कर्तव्य
विचारी; धर्म करंतां दुःख सहन तप, परपरिणति
संहारीरे. तप० ॥ २ ॥ परीषह उपसर्गोने सहीने,
कार्य करो उपकारी; मन वाणी कायानी प्रवृत्ति,
परमार्थे जयकारीरे. तप० ॥ ३ ॥ जव मुक्तिमां सम
परिणामी, आशो मोहने मारी; उत्कृष्टं तपनुं फल
ए छे, मुक्ति निश्चय धारीरे. तप० ॥ ४ ॥ तप त-

(७५)

पिया शासनना प्रभावक, वंदु वार हजारी; बुद्धिसा-
गर मंगल माला, पद पद आनंद कारीरे. तप० ॥ ५

पन्नरमी गोयम पद पूजा.

वर्तमान जे वर्तता, साधु श्रमणी जेह; दान
दियंतां तेहने, पामो स्वर शिव गेह. ॥ १ ॥

ए व्रत जगमां दीवो मेरे प्यारे. ए राग.

भावथी दानने दीजे हो, जविजन ! जावथी
दानने दीजे॥ अजय सुपात्रवे दान प्रभावे, आतम
उज्वल कीजे. हर्षोल्लासे तीर्थकर पद, बांधी मुक्ति
वरीजे हो. जविजन० ॥ १ ॥ संघ चतुर्विध सेवा-
जक्ति, करतां निश्चय मुक्ति; दानथी त्यागने त्यागथी
शिवपद, आतम शुद्धि प्रयुक्तिहो. भविजन० ॥ २ ॥
आंखे अश्रु रोमांच विकसित, हृदये हर्ष न मावे;
गदगद वाणी दानी एवो, सर्वोत्कृष्ट कहावे हो.
भविजन० ॥ ३ ॥ स्वार्पण भावे दानने देतां, शिव-
पद सहेजे थावे; सत्त क्षेत्रमां दान दियंतां,

(७६)

परमानंदपद पावे हो. भविजन० ॥ ४ ॥
दान दीधुं तेने. सघळुं कीधुं; दान करो नरनारी.
बुद्धिसागर ऋद्धिवृद्धि, पामो शिव वधू सारी हो.
त्रविजन० ॥ ५ ॥

सोळमी जिनपद पूजा.

नमो नमो जिनपद भळुं, पूजो ध्यावोचित्त;
दोषअढार रहित प्रभु, परमातम जे पवित्र. ॥ १ ॥

श्री श्रेयांसजिन अंतर्यामी. ए राग.

जिनपद गावो जिनपद ध्यावो, आतम तेवो
भावोरे. सोळ कषायो जीते जिन, ते जिनपद घट
प्रगटावोरें. जिनपद० ॥ १ ॥ श्रुतज्ञानी अवधि मन
नाणी, छद्मस्था वीतरागीरे; जिनपद आराधकने
पूजो, आतम रंगी त्यागीरे. जिनपद० ॥ २ ॥
विद्यमान आचार्यने वाचक, बालस्थविरने मांदारे;
वैयावृत्य करो बहु भावे, होय न भक्तिमां वांधारे.
जिनपद० ॥ ३ ॥ वैयावच्च फल नाश थतो नहीं,

(७७)

वैयावच्ची न परुतोरे; सकल संघनी वैयावच्चे,
 कोइ न भवमां रखडतोरे. जिनपद० ॥ ४ ॥ चढता
 भावे जिनपद साधक, सर्व जैननी सेवारे; करतां
 महा पापी पण मुक्ति, पामे निश्चय देवारे. जिनपद०
 ॥ ५ ॥ जैनोमां जिनपदने भावो, आतमने जिन
 करशोरे; बुद्धिसागर आतम जिनवर, पोते थै शिव
 वरशोरे. जिनपद० ॥ ६ ॥



सप्तदश संयमपद पूजा.

शुद्धातम गुण रमणता, संयम छे सुखकार;
 धारण ध्यान समाधिमय, साधो नरने नार. ॥१॥



त्रीजे नव वरथानक तप करी. ए राग.

संयम आराधो नरनारो, आतम शुद्धिकारी;
 ध्यान समाधिमय संयम छे, निज परने उपकारीरे.
 भविजन ! संयमने प्रगटावो, लेशो नरन्नव ल्हावोरे.
 भविजन० ॥ १ ॥ द्रव्य समाधिथी भाव समाधि,
 अनंत गुणी. हितकारी; विकल्पक विकल्प रहित जै,

(७८)

सेवो समाधि विचारीरे. भविजन० ॥३॥ हठ आदि
 अज्ञान समाधि, वीश दोष परिहरीए; गृहस्थने
 त्यागी भेदे संयम, व्यवहार निश्चय धरीएरे. जवि-
 जन० ॥ ३ ॥ चार निक्षेपे सात नये नव, तत्त्व
 सामायिक धारो; मन वश करतां आत्मसमाधि,
 शुद्ध धता आचारोरे. भविजन० ॥ ४ ॥ संयमीनी
 सेवा भक्तिथी, शक्तियो प्रगटावो; बुद्धिसागर आत्म
 संयम, आविर्भावे लावोरे. जविजन० ॥ ५ ॥

अष्टादशमी अभिनवज्ञानपद पूजा.

प्रतिदिन अभिनवज्ञानने, पामो नरने नार;
 अभिनव ज्ञान विना कदा, रहीए नहि क्षणवार. १

सिद्धचक्र पद सेवा कोजे. ए राग.

अभिनव ज्ञान भणो भवी भावे, गुरुगम लही
 सुखकारीजी, स्वर्ग अने शिवसुख झट लहीए,
 स्वाध्याय पंचविध धारी; श्रुतने भणिएजी—त्यागी
 सर्व प्रमाद, नवश्रुत गणीएजी. ॥ १ ॥ बुद्धिना

(७९)

गुण आठ वधारो, आठ दोषने टाळोजी; सर्वथकी
 आराधक ज्ञानी, क्रिया रहित पण चाळो, श्रुतने.
 त्यागी० ॥ २ ॥ देश आराधक किरिया भाखी,
 ज्ञाननी किरिया दासीजी; ज्ञानि ज्ञान आशातना
 टाळो, शुद्ध स्वरूप उल्लासी. श्रुतने. त्यागी० ॥३॥
 ज्ञानथी आतम शुद्धि अनंती, कार्य करंतां थावेजी;
 अज्ञानी संवरने आस्रवने—रूपे मन प्रणमावे. श्रुतने.
 त्यागी. ॥ ४ ॥ अनुभव ज्ञानी सूरि वाचक मुनि,
 संगे निशदिन रहेशोजी; बुद्धिसागर आत्म प्रभुता,
 चिदानंदपद लेशो. श्रुतने. त्यागी० ॥ ५ ॥

आगणिशमी श्रुतपद पूजा.

पंच ज्ञानमां श्रुत ठे—स्वपरोपकारक बेश, चउ
 मुंगां श्रुत बोलतुं, टाळे सर्वे क्लेश. ॥ १ ॥

चंद्र प्रभुजीसे ध्यानरे मोंये लाग। लगनवा,

ए राग.

श्रुत स्वपर उपकारीरे, भवी भावथी सेवो-जवी
 भावथी सेवो; जगमां ठे जयकारीरे. जवी० केवलज्ञा-

(८०)

नीना मुखनी वाणी, चउदने वीश प्रकारे. जवो.
 नव तत्त्व ज षड् द्रव्य प्रकाश्यां, नयनिक्षेपे उदाररे.
 भवी० ॥१॥ तत्त्व फरे नहीं त्रण्यकालमां, फरता
 रहे आचाररे. जवी० दुःषमकाले श्रुत छे जानु, भणो
 भणावो साररे. भवी० ॥२॥ श्रुतज्ञानी केवली सरखो,
 सेवो नरने नाररे. जवी० बत्रीश दोष रहित आगम
 छे, वर्ते जगदाधाररे. जवी० ॥३॥ वीरप्रभुए अर्थ प्र-
 काश्या—सूत्र रच्यां गणधाररे. जवी० श्रुत केवली
 आदि मुनियोए, शास्त्र रच्यां जयकाररे. जवी० ॥४॥
 श्रुतज्ञानीनो विनय करो बहु, प्रेमे करो सत्काररे.
 जवी० बुद्धिसागर शुद्धातम पद, हेते स्याद्वादधाररे.
 जवी० ॥ ५ ॥

“ वीशमी तीर्थपद पूजा ”

संघ चतुर्विध तीर्थ छे, सर्व विश्व सुखकार;
 अरिहा नमता तीर्थने, तीर्थ जजो नरनार. ॥१॥

(८१)

वीरकुमरनी वातकी कोने कहीए. ए राग.

संघ चतुर्विध तीर्थ ठे जयकारी, पंच परेष्टी
हितकारी; सर्व विश्वत्रिषे उपकारी, सेवो नर-
ने नार. संघ० ॥ १ ॥ जंगम तोर्थ आराधना शिव-
कारी, श्रद्धा प्रीतिथी सेवा सारी; जाउ संघनी जग
बलिहारी, सेवे नासे पाप. संघ० ॥ २ ॥ स्थावर
तीर्थने रक्षतो संघ शक्ते, रहो संघनी निशदिन
जक्ते; संघथो जैन शासन वर्ते, जीवो संघना हेत.
संघ० ॥ ३ ॥ स्थावर जंगम तीर्थपर प्रेम लावो,
मोति पुष्पे संघ वधावो; जावे तीर्थकर पद पावो,
बनो संघना दास. संघ० ॥ ४ ॥ सूरि वाचक
मुनि सेवजो सुखकारी, करी स्वार्पणने दोष वारी;
बुद्धिसागर तीर्थनी यारी, करे मंगलमाल. संघ० ५

कलश.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो. ए राग.

गायुं गायुंरे वीशस्थानक पद तप गायुं; गातां
पूजतां ध्यातां दिल्लुं, आनंदथी उन्नरायुंरे. वीश.

(८२)

आतममां वीश स्थानक जाण्यां, अनुभवमां एम
 आव्युं; साधन योगे साध्यनी सिद्धि, जाणंतां मन
 जाव्युंरे. वीश० ॥ १ ॥ एकमां वीशने वीशमां एकज,
 एक साधे वीश साध्यां; साध्योपयोगे साधन सफळां,
 भावथकी आराध्यांरे. वीश० ॥ २ ॥ आतममां
 वीश द्रव्यने जावे, निश्चयने व्यवहारे; शुद्धातम
 उपयोगे घटमां, गुण पर्याय प्रकारेरे. वीश० ॥ ३ ॥
 वीश स्थानक पैकी एक स्थानक, आराधंतां जावे;
 तीर्थकर पद पामे भव्यो, मुक्ति अनंता पावेरे.
 वीश० ॥ ४ ॥ सिद्ध्या सिद्धशे जीव अनंता,
 एकेक पद आराधे; गुण एक सेवे गुण अनंता,
 प्रगटे साधन साधेरे. वीश० ॥ ५ ॥ अयोगिणिश
 सत्तोत्तर आश्विननी, चोथ वदि गुरुवारे; सानंद
 शहेरे चोमासुं करी, पूजा रची भवीतारेरे. वीश०
 ॥ ६ ॥ पूर्ण प्रतापी तप गच्छ नायक, जग गुरु
 बिरुद धराया; हीर विजयसूरि प्रणमुं पाया,
 अकवरे गुण गण गायारे. वीश० ॥ ७ ॥ सहज

(८३)

सागर पाठक जयकारी, सागर शाखा धारी; पट्ट
 परंपर रविसागर गुरु, रविसम प्रगटया भारीरे.
 वीश० ॥ ८ ॥ पूर्ण प्रतापी सुख सागर गुरु, करुणा
 आशोः प्रभावो; बुद्धिसागर पूजा रची शुभ, संघमां
 थाओ वधावोरे. वीश० ॥ ९ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं तीर्थ
 पूजार्थं जलादिकं यजामहे स्वाहा.

(८४)

अथ दशविधयति धर्मपूजा प्रारंभ.

प्रणमुं श्री परमात्मा, महावीर जगदाधार;
 षोवीशमा तीर्थकरा, शासनपति सुखकार. ॥ १ ॥
 जेणे संघने स्थापियो, सर्व धर्म आधार; प्रभु महा-
 वीर जग जयो, अनंत गुण दातार. ॥ २ ॥ यति
 धर्म दशविध कह्यो, आत्मशुद्धि करनार; जगजय
 श्री महावीर जिन, वंदु वार हजार. ॥ ३ ॥ सम-
 वसरणमां बेसीने, कीधो तीर्थ प्रचार; जंगम तीर्थ
 ते मुनिवरा, तेना दश गुण धार. ॥ ४ ॥ दश
 गुणथी मुनि शोभता, पूजो दश विध धर्म; दश
 विध धर्मे आत्मनुं, प्रगटे ज्ञान ने शर्म. ॥ ५ ॥ ते
 माटे दश धर्मनी, रचुं पूजा सुखकार; अष्ट प्रकारे
 पूजशां, वीर प्रभु जयकार. ॥ ६ ॥

—
 प्रथम क्षमापूजा.

प्रभु महावीर भाखता, धर्म क्षमा सुखकार;
 आराधो भवी जावथो, अनंत सुख दातार. ॥ १ ॥

(८५)

सहियर सुणिणरे भगवती सूत्रनी वाणी. ए राग.

प्रभु महावीर विभु उपदेशे, सर्व जगत् हित-
कारी; धर्म क्षमा धारो नरनारी, क्रोधकषायने वारी.

आत्म स्वभावनेरे, समजी क्षमा गुण धारो;
क्षमावंत साधुरे, बाकी वेषाचारो. आत्म० ॥ १ ॥
अपकारे उपकारे क्षमाने, धारे बहुला लोको;
धर्म क्षमा सहजे घट प्रगटे, ज्ञाने क्रोधने रोको.
आत्म० ॥ २ ॥ क्रूरगुरु खंधकना शिष्यो, धन्य
मेतार्य मुनेन्द्रा; काने गोपे खीळा मार्या, सहिया
वीर जिनेन्द्रा. आत्म० ॥३॥ अच्चंकारी भट्टा मोटी,
धन्य क्षमा गुण दरिया; अहंवृत्ति ममता नहि
जेने, क्षमा गुणी मुनि तरिया. आत्म० ॥ ४ ॥
वेष क्रिया तप जप सहु साधन, धर्म क्षमाथी
सफळां; शुभ अशुभ वृत्ति नहि रहेतां, साधन
नहि छे खपनां. आत्म० ॥ ५ ॥ देहादिक अध्यासो
छंदी, आत्मना उपयोगे; रहेतां धर्म क्षमा गुण
प्रगटे, समताना संयोगे. आत्म० ॥ ६ ॥ चिदानंद

(८६)

आत्म प्रगटावो, असंग आत्म जावो; बुद्धिसागर
 पूर्णानंदे, रमता मुनिवर ध्यावो. आत्म० ॥ ७ ॥
 ॐ ह्रीं श्रीं अर्हे परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म-
 जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय क्षमा
 लाभार्थं जलं, चंदनं पु० धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं,
 फलं, यजामहे स्वाहा ॥

द्वितीया मार्दव धर्मपूजा.

द्रव्यभाव अहंकारना, त्याग थकीछे त्याग;
 मुनि श्रमणी लघुता धरो, भावो प्रभु वडभाग.
 ॥ १ ॥ आठ जातिना मद तजी, थावो निरहंकार;
 अगुरु लघु निज आतमा, समजीने सुखकार. ॥२॥
 मान अने अपमानमां, वर्ततां समभाव; अनंत गुण
 प्रगटे खरा, साधो मार्दवदाव. ॥ ३ ॥

श्रावक व्रत सुरतरु फळियो. ए राग.

परमेश्वर वीर उपदेशे, रहो न मुनि रागद्वेषे;
 मान तजे ते सुख वेशेरे, मुनिवर मान परिहरशो.

(८७)

क्षण क्षण आतम गुण स्मरशोरे, मुनि० जवसागर
वेगे तरशोरे. मुनिवर० ॥ १ ॥ आठ जाति मद परि
हरता, आतम शुद्धि ते करता; परम ब्रह्म वेगे
वरतारे. मुनिवर० ॥ २ ॥ रावण मानथकी हायों,
जीमे दुर्योधन मायों; मन पेसे मद अणधायोंरे.
मुनिवर० ॥ ३ ॥ ज्ञानने ध्यानना अहंकारे, तरे
नहीं पर नहि तारे; गारवे जीव करे भारेरे. मुनिवर०
॥ ४ ॥ उंच नीच जेदे आवे, अज्ञानी मनमां फावे;
मद केफे निज चूलावेरे. मुनिवर० ॥ ५ ॥ हुं मारुं
ज्यां नही जागे, त्यांथी मद दूरे भागे; जयडंको
घटमां वागेरे. मुनिवर० ॥ ६ ॥ हुं त्यांथी प्रभु
छे आघा, बाहुबली समजी जाग्या; केवल ज्ञानी
वीतरागारे. मुनिवर० ॥ ७ ॥ मद वण मनरुं रहे
ज्यारे, आत्म प्रभु प्रगटे त्यारे; आप तरे मुनि पर
तारेरे. मुनिवर० ॥ ८ ॥ प्रभु महावीर कथे एवुं.
समजी लक्ष्य विष देवुं; बुद्धिसागर सुख लेवुंरे.
मुनिवर० ॥ ९ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं० प० मारुव गुण
लाभार्थ जलं०—यजामहे स्वाहा ॥

(८८)

तृतीया आर्जव धर्म पूजा.

द्रव्यभाव आर्जव गुणे. रमतां केवलज्ञान; मु-
 निवर आर्जव गुण रमो, स्वयं थशो भगवान् ॥१॥
 जन मन रंजन स्वाथथी, कपट क्रियाओ थाय;
 मानादिकना त्यागथी, आर्जव गुण प्रगटाय ॥२॥
 मद्धिनाथ पूरवभवे, कपटे छी अरवतार, पाम्या
 जाणी मुनिवरो, धरो सरखता सार ॥३॥

जीरण शैठ जावना भावेरे, महावीर प्रभु
 घेर आवे. ए राग.

प्रभु महावीरने दिख धारो, प्रभुने क्षण क्षण
 संभारो; उपयोगे आत्म सुधारो, धरो आर्जव गुण
 निन तारोरे; एवो वीरप्रभु उपदेशो, माया त्यागी
 मुनि शिव लेशोरे. एवां० ॥ १ ॥ निष्कपटे कहेवुं ने
 रहेवुं, दुनियानुं कह्युं सहु स्हेवुं; मान पूजामा लक्ष्य
 न देवुं, जेवुं अंतर बाहिर तेवुंरे. एवो० ॥ २ ॥
 माया त्यागे प्रभु दिख आवे, अन्य दोषो वेगे जावे;

(८९)

शोभे आतम आविर्जावे, शुद्ध सरलता आत्म
 स्वभावेरे. एवो० ॥ ३ ॥ दुनिया भले वंदे निंदे, करे
 हेखना रागी छंके, वध बंधन मारवा मंडे, तहोये
 पडशो नहीं मुनि फंदेरे. एवो० ॥ ४ ॥ मर्या पहेळां
 माया मारो, निर्मायी बनी निज तारो; मळयो मा-
 नव भव नहि हारो, मन कपटवृत्ति संहारोरे. एवो०
 ॥ ५ ॥ माया संगे क्षण क्षण मरवुं, कदि दंजथी
 होय न तरवुं; माया मारी जीवन धरवुं, पळी मरवुं
 नहीं अवतरवुंरे. एवो० ॥ ६ ॥ त्यागो सर्व प्रकारे
 माया, बूरा तेना छे पकढाया; माया त्यागथी प्रभु
 घटढाया, समजी संतो सुख पायारे. एवो० ॥ ७ ॥
 वसे कपट त्यां दुःखना दरिया, माया त्यागी मुनि
 गुण भरिया; बुद्धिसागर मुनि केशरिया, निष्कपटी
 केवल वरियारे. एवो० ॥ ८ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं—आर्ज-
 वप्राप्त्यर्थं जलादिकं. यजामहे स्वाहा ॥

चतुर्थी मुक्तिधर्म पूजा.

लोच तजे सर्वे तज्युं, लोभ टळंतां मुक्ति; जरु
 लोभे नहीं मुंझता, तेने नहीं छे भोति. ॥१॥ लोभ

(९०)

तज्याथी जीवतां, मुक्ति अनुभव थाय; जीवतां
मुक्ति नहीं, देह तजे शुं ? पाय. ॥ २ ॥ सर्व प्रकारे
लोचनो, कीधो जेणे त्याग; जीवता ते मुक्त छे,
सिद्ध बुद्ध वडजाग. ॥ ३ ॥

वीरकुमरनी वातनी कोने कहीए. ए राग.

वीरप्रभु परमात्मा जयकारी, जेछे त्रिश्वविषे
उपकारी; प्रतिबोध्यां नरने नारी, तजो मुक्ति हेत;
लोभ तजीदो साधुओ सुखकारी. ॥ १ ॥ लोभथी
मुक्त ते मुक्त ठे नरनारी, तजो लोभने महा दुःख-
कारी; रहो निःसंग मनडुं धारी, रही जग समजाव.
लोच० ॥ २ ॥ मूच्छा परिग्रह जाणशो वीर बोले,
नहीं संतोषना कोइ तोले; चरुशो नहीं लोभ हिं-
चोळे, मुनि मुक्त स्वतंत्र. लोच० ॥ ३ ॥ सर्व जग-
तना संगथी नहि संगी, अनासक्तिए आत्म सुरंगी.
होय धनी वण चित्त निःसंगी, जरुमां नहीं मोह.
लोभ० ॥ ४ ॥ जरु वस्तुनी लालचे जीव तटक्यो,

(९१)

लाख चोराशीमां लटक्यो; संत पासे जतां पण अ-
 टक्यो, धर्यो नहि प्रभु प्रेम. लोभ० ॥ ५ ॥ लोभे
 लक्षण जाय ठे सत्य नासे, दुर्बुद्धि रहे दिख पासे;
 हिंसादिक पाप प्रकाशे, लोभे सर्व विनाश. लोभ०
 ॥ ६ ॥ लोभी पापो सहु करे एम जाणो, अनास-
 क्तिने मनमां आणो; धरो संतोष दिल मझानो,
 करो उपयोगी काज. लोभ० ॥ ७ ॥ देवगुरु संघ
 भक्तिनो लोभ करशो, निज फर्ज अदा करी फरशो;
 धर्म्य लोभने पहेलां धरशो, पढी निलोभभाव. लोभ०
 ॥ ८ ॥ मुक्तिने भवमां समपणुं दिल धारो, सर्व
 संगे छतां लोभ वागे; शुद्ध आतम परिणति धारो,
 बुद्धिसागर गाय. लोभ० ॥ ९ ॥
 ॐ ह्रीं श्रीं परम० मुक्ति गुण प्राप्त्यर्थं जलादिकं
 यजामहे स्वाहा ॥

—
 पंचमी तपोधर्म पूजा.

मोह टळे शुद्धि वधे, तप ते धर्मने मान; दुर्गुण
 दोषो सहु टळे, तप करवुं गुण खाण. ॥ १ ॥ परो-

(९२)

कारी साधुनां, तप रूपी सह्यु काज; सर्व दुःख सहेवां
समे, तप ते गुण शिरताज. ॥ २ ॥ बाह्याच्यंतर
तपथकी, शक्ति प्रगटे अचनंत; तपने पूजो आदरो.
भ्यावो मुनिवर संत. ॥ ३ ॥

कर्म परीक्षा करण कुमर चलयोरे ए राग.

निष्कामे तप तपशो मुनिवरारे, भाखे वीर
जिनेश; कर्म निकाचित क्षणमां क्षय थतारे, नासे
सघळा क्लेश. निष्कामे० ॥ १ ॥ परोपकारी कर्मो
तप कह्यारे, विश्व जीवोनी सेव; सर्व शुभाशुभ
अभिलाषा विनारे, वर्ते थाओ देव. निष्कामे० ॥ २ ॥
संघनी सेवा भक्ति तप भळुंरे, वैयावच्चने ध्यान;
प्रायश्चित्तने विनये राचशोरे, करो स्वाध्यायथी ज्ञान.
निष्कामे० ॥ ३ ॥ देहाध्यासविना आतम प्रभुरे,
देखाता भगवंत; बाह्य तपो पण आत्म विशुद्धि-
नारे, हेते छे गुणवंत. निष्कामे. ॥ ४ ॥ ज्ञानी
मुनिने तप सह्यु कार्यमारे, जोगविषे पण योग;

(९३)

भोगो पण सहु रोग समा गणरे, वतें योगे अयोग-
 निष्कामे० ॥ ४ ॥ कार्य करे पण अक्रिय जे रहेरे,
 धरी आतम उपयोग; सर्व विषयनो वांछावण रहेरे,
 शोचे न हर्षे भोग. निष्कामे० ॥ ६ ॥ मुनिने मन
 दमतां तप छे सदारे, करतां सर्व प्रवृत्ति; अन्तर
 तप अज्ञो नहि जाणतारे, मनमां नहीं आसकि.
 निष्कामे० ॥ ७ ॥ मुनिनी सर्व प्रवृत्ति तपमयीरे,
 क्षेत्रकाल अनुसार; बाह्यथी अंतर अनंत गणु भळुरे.
 टाळे कर्म विकार. निष्कामे० ॥ ८ ॥ ज्ञानीने सहु
 बंधन कारणोरे, निर्जरहेते थाय; बुद्धिसागर तपसो
 पूजतारे, ध्यातां तप प्रगटाय. निष्कामे० ॥ ९ ॥
 ॐ ह्रीं श्रीं प० तपोगुण लाभार्थं जलादिकं यजा-
 महे स्वाहा ॥

छठी संयम धर्म पूजा.

संयम साधो संयमी, वश करी मन वच काय;
 संयमथो झट सिद्धि छे, लब्धि सकल प्रगटाय.

(९४)

॥ १ ॥ आत्मिक बल संयम जडुं, टाळे आठे कर्म;
 संयमो क्षणमां मुक्ति पद, पामे शाश्वत शर्म. ॥ २ ॥
 धारणा ध्यान समाधिमय, संयम ठे सुखकार; संयम
 धर्मनी पूजना, करशो नरने नार. ॥ ३ ॥

गंगातट तपो वनमांरे बनी रचना भारी. ए राग.

साधो संयम साधुरे, के आतम उपयोगे; पडो
 नहि मोह वनमांरे, रहो मन वैराग्ये. साधो० ॥ १ ॥
 (साखी) लीन बनो निज आत्ममां, गुण पर्यायने ध्याइ;
 मोह परिणति वारतां, प्रगटे मुक्ति वधाइ; आतम
 श्रद्धा प्रेमेरे, के मस्तदशा प्रगटे; निजशक्ति अनंतीरे,
 प्रकटे तम विघटे. साधो० ॥ २ ॥ (साखी) क्षण पण
 संयमी संगवण, जीवो नहि नरनार; संयम साधन
 साध्य ठे, आत्मशुद्धता सार. पंच समतिने गुप्तिरे, के
 साधन जेह वरे; पूर्णानन्दी आतमरे, अनुभव तेह
 करे. साधो० ॥ ३ ॥ व्रत तप जपदम साधनो, सापेक्षे
 छे सत्य; मुनिवरनां संयममयी, सधळीं जाणो कृत्य.

(९५)

भक्ति कमेने ज्ञानेरे, संयम शक्ति वधे; शुद्ध आत्मो
 पयोगेरे, साधन सत्य सधे. साधो० ॥ ४ ॥ उपचा-
 रिक धर्मज भलो, संयम रूपी सर्व; तेमां पण संय-
 मीजनो, करो न क्रयारे गर्व. हठ धर्म निवारीरे,
 संयम सहेजे सजो; बुद्धिसागर प्रेमेरे, महावीर देव
 भजो. साधो० ॥ ४ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं० संयम लाभार्थ
 जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥

सप्तमो सत्यधर्म पूजा.

द्रव्यभाव सापेक्षथी, सत्य असंख्य प्रकार;
 सत्य समो नहीं धर्म ठे, सत्य ग्रहो नर नार. ॥ १ ॥
 सत्य वदोने आचरो, जैन धर्म छे सत्य; प्राणांते
 नहि ठंडशो, सत्य धर्मनां कृत्य. ॥ २ ॥ ज्ञानथकी
 साचुं ग्रहो, करो असत्यनो त्याग; पक्षपात ठंडी
 करी, धरो सत्यनो राग. ॥ ३ ॥

तेजे तरणिथी वडोरे. ए राग.

वीर प्रभुए भाखियोरे, सत्य धर्म जयकार;
 मिथ्या जूठने परिहरोरे, सत्य धरो आचार हो भवि-

(९६)

जन !!! सत्य धर्मने धारजोरे, मानव जव नहि
 हारजोरे, समजो सत्य प्रकार. ॥ १ ॥ सत्य वसे त्यां
 शक्तियोगे, देवो करता सहाय; देशने सर्वथी सत्य-
 नेरे, स्वाधिकारे ग्रहाय हो. भविजन॥ सत्य० ॥ २ ॥
 क्रोध मान माय लोभथोरे, कामथी जूठ वदाय; प्रमु
 वीतरागी आतमारे, बोले सत्य सदायहो. भविजन॥
 ॥ ३ ॥ सत्य ते सेवा जाक्ति ठेरे, सत्य समी नहीं
 शक्ति; सत्य समुं वळ नहि कर्युंरे, सत्य समी नहि
 नीति हो. जविजन० ॥ ४ ॥ भयने हास्यथी जूठ-
 नेरे, बोलंतारे अधर्म; स्वार्थे अज्ञाने जनांगे, बांधे
 अशाता कर्म हो. भविजन० ॥ ५ ॥ दुःख पने प्रा-
 ण जो पटेरे, लोपण ठंडो न सत्य; उपसर्गो थातां
 घणारे, ठंडो न साचां कृत्यहो. जविजन० ॥६॥ ज्ञान
 अने माध्यस्थथीरे, सत्य तत्त्व समजाय. बलिहारी
 सत्यवादीनीरे, जूठाथी दूर जाय हो. भविजन० ॥७॥
 सत्य ग्रहो मुनियोगीओरे, पाभ्या पाभशे मक्ति;
 अनंत महिमा सत्यनोरे, रविथी अनंती द्युति हो.

(९७)

भविजन० ॥ ८ ॥ सत्य वदो सत्य आदरोरे, दुःख
 सहीने अनंत; सुवर्ण पेठे कसोटीएरे, चढीने थावो
 भदंत हो. भविजन० ॥९॥ रवि पहेला ते उगतारे,
 सत्यवादी नरनार; बुद्धिसागर आतमारे, पूणानन्द
 अपार हो. भविजन० ॥ १० ॥ ॐ सत्य लाभार्थ
 जलादिकं यजमहे स्वाहा ॥

अष्टमी शौच धर्म पूजा.

द्रव्यभाव व्यवहारने, निश्चय शौच छे धर्म,
 भाव शौच सेव्याथकी, विघटे सर्वे कर्म. ॥ १ ॥
 द्रव्यथी जाव अनंत गुण, आत्मशुद्धि करनार;
 उपादान निमित्तथी, समजी ग्रहो नरनार. ॥ २ ॥
 आत्मशुद्धिकर शौच छे, लक्ष्य न भूलो लेश;
 साध्योपयोगे शौचने, भरतां टळता क्लेश. ॥ ४ ॥

श्रुतपद नमिये जावे भविद्या, श्रुत ठे जगत
 आधारजी. ए राग.

समवसरणमां बेसी वीरजिन, केवलज्ञाने प्रका-
 शेजो; जाव शौचथी निश्चय मुक्ति, परमानंद

(१८)

विलासे; शौचने धारोजी, तजी पर परिणति टेवं,
 आत्म सुधारोजी० ॥ १ ॥ सात नयोने चउनिक्षेपे,
 शौच धर्मने जाणोजी; देहनी शुद्धि बाह्य शौच ठे,
 अंतर शुद्धता आणो. शौच० ॥ २ ॥ द्रव्यथकी
 पण भाव शौच छे, अनंत गुणो हितकारीजी; काय
 थकी मननीज अनंत गुण, शुचिता छे सुखकारी.
 शौच० ॥ ३ ॥ भाव शौच ज्यां छे त्यां दर्शन,
 ज्ञानचरण जयकारीजी; भाव शौच धरता मुनि वंदो,
 पूजो जग उपकारी. शौच० ॥ आतम ज्ञौच विना
 कायाना-शौचथी थाय न मुक्तिजी, हिंसादिक
 क्रोधादिक दोषो, टळतां शौचनी रीति. शौच०॥५॥
 आंतरमळ मन मोहने टाळो, पवित्र करी मन
 म्हालोजी; बाहिर शौच कदाग्रह ठालो, अंतरने
 अजवाळो. शौच० ॥ ६ ॥ मननो मेल टळ्यार्थी
 मुक्ति, जेनी तेनी थातीजी; एकली पंडिताइ न
 खपनी, निर्मल करशो छाती. शौच० ॥ ७ ॥ राग-
 द्वेष मलीनता टाळो, दोष प्रगटता खाळोजी; का-

(९९)

मवासना बीजने बाळो, प्रभु जिन आतम भाळो.
 शौच० ॥ ७ ॥ भाव शौचवण वेषाचारे, मुंझो
 नहीं नरनारीजी, आतम शुद्धि करे ते शौच छे,
 समजो व्रंति निवारी. शौच० ॥ ९ ॥ शौच धर्मथी
 साधु अनंता, मुक्त थयाने थाशेजी; बुद्धिसागर
 आत्मरमणता, करतां शौच छे पासे. शौच० ॥१०॥
 ॐ—शौच धर्म लाभार्थ जलादिकं यजामहे स्वाहा.

नवमी अकिंचन धर्म पूजा.

मूर्छा परिग्रह ग्रहथकी, मुक्त थतां ठे मुक्ति;
 अकिंचन ते धर्म ठे, त्यागीनी ए रीति. ॥१॥ द्रव्य-
 भाव परिग्रहथकी, न्यारा वतें संत; आत्मानंद रस
 अनुभवे, नमो नमो गुणवंत. ॥ २ ॥ मूर्च्छावण न
 परिग्रही, उपयोगी मुनिराज; उपधि देहादिक छतां,
 निःसंगी शिरताज. ॥ ३ ॥

दान सुपात्रे दिजेहो भवियां, दान सुपात्रे दीजे, एराग.
 परिग्रह मूर्च्छा त्यागी हो मुनिवर, परिग्रह

(१००)

मूर्च्छा त्यागी; अंतर बाहिर ममता रहित थे, वर्ते छे वडभागी हो. मुनिवर ॥ परिग्रह० ॥ १ ॥ नवविध परिग्रहमां नहि ममता, वर्ते सकल परसमता; देहादिक गच्छ संगी ठतां पण; निःसंग ज्ञाने रमता हो. मुनिवर० ॥२॥ साधन उपयोगी उपधि सहु, ज्ञानी न त्यां बंधाता; तारु तरे जेम सरवरमांही, संवर चावे सुहाता हो. मुनिवर० ॥ ३ ॥ मूर्च्छा ए छे सर्वे उपाधि, मूर्च्छावण निरुपाधि; ज्ञानीने आस्रव पण संवर, उपयोगे नहि आधि हो. मुनिवर० ॥ ४ ॥ जडमां शुजाशुभ भाव रहित जे, ते नहि जग बंधातो; बाह्य परिग्रह तेने करे शुं? जे नहीं पुद्दले रातो हो. मुनिवर० ॥ ५ ॥ ममतावण नहीं कर्मबंध छे, ममता त्यागे त्यागी; जडनी ममता त्यागी सुज्ञाने, आशो आतमरागी हो. मुनिवर० ॥ ६ ॥ यावत् मूर्च्छा अंतर तावत्, कोइ न मुक्ति पामे; मूर्च्छावण मणि पर्वत उपर, बेठो ठरे शिव ठामे हो. मुनिवर० ॥ ७ ॥ परिग्रह त्यागी मुनिवर सेवा,

(१०१)

भक्ति करो बहु जावे; क्षण एक साधुनी संगत करतां,
 निश्चय मुक्ति थावे हो. मुनिवर० ॥ ८ ॥ अणुसम
 गृहीने मेरु सरीखा, मुनिवर मोटा जाणो; संतोषे
 नहीं कोनी परवा, आनंद भोगी मानो हो. मुनिवर०
 ॥ ९ ॥ निश्चयने व्यवहारथी त्यागी, सेवो पूजो
 ध्यावो; बुद्धिसागर शुद्धातम पद, पूर्णानंदी पावो
 हो. मुनिवर० ॥ १० ॥ ॐ—अकिंचन धर्म लाभाय
 जलादिकं यजामहे स्वाहा.



दशमी ब्रह्मचर्य धर्म पूजा.

ब्रह्मचर्य सम को नहीं, सर्व धर्ममां श्रेष्ठ, द्रव्य-
 भाव ब्रह्म आगळे, अन्य सकल ठे हेठ. ॥१॥ नेमि
 सुदर्शन जंबुने, स्थूलिभद्रज अनगार; गावो पूजो
 जावथी, ध्यावो नरने नार. ॥ २ ॥ ब्रह्म मळे ब्रह्म-
 चर्यथी, भाखे वीर जिनेश; द्रव्यभावथी धारतां,
 नासे सघळा क्लेश. ॥ ३ ॥



(१०२)

ए व्रत जगमां दीवो मेरे प्यारे, ए व्रत जगमां
दीवो. ए राग.

ब्रह्मचर्य सुखकारी हो जगमां, आतम आनंद-
कारी; ॥ द्रव्यथकी देहवीर्यनी रक्षा, स्त्री मैथुन
परिहारी; चावथकी पर परिणति त्यागे, ब्रह्मव्रती
जयकारी हो. जगमां, ब्रह्मचर्य सुखकारी० ॥ १ ॥
पांचे इन्द्रिय त्रेवीश विषयो, शुभ अशुभ नहीं लागे;
स्वप्ने पण नहीं कामनी वृत्ति, ब्रह्मचाव घट जागे
हो. जगमां ॥ २ ॥ मैथुन जोगे सुख नहीं शांति,
आधि व्याधि उपाधि. जाणी मुनिवर ब्रह्मस्वरूपे,
वर्ते ठे निरुपाधि हो. जगमां० ॥३॥ कामी व्यञ्जिचारी
महादुःखी, रूप राग जरमाया; हडकाया कूतरनी पेठे,
क्याये सुख नहीं पाया हो. जगमां० ॥ ४ ॥ कामभोगथी
थाय न शांति, उलटी कामनी वृद्धि; जाणी कामनी
वृत्ति शमावो, पामो आत्मिक ऋद्धिहो. जगमां० ॥५॥
चामडी रागी जन चामकिया, आतमना नहि प्रेमी;
आतमरागी जग वैरागी, वर्ते योगी क्षेमी हो.

(१०३)

जगमां० ॥ ६ ॥ आतमरागी प्रेमी ज्ञानी, भक्तसंत
 मुनिराया; शुद्ध ब्रह्ममां निशदिन रमता, प्रणमो
 तेना पाया हो. जगमां० ॥ ७ ॥ बिराकार शुद्धातम
 ब्रह्ममां, रमवुं ब्रह्म ठे जावे, पूर्णानंदनी मोझे रमतां,
 पोते प्रभुजी सुहावे हो. जगमां० ॥ ८ ॥ ब्रह्मरसे
 रसिया मुनिवरजी, बाह्यरसे दूर खसिया; एकवार
 आतम आनंदरस, पाम्या ब्रह्म उद्धसिया हो. जगमां०
 ॥ ९ ॥ ब्रह्मचर्यथी शक्ति अनंती, नासे दूरे रोगो,
 ब्रह्मचर्य छे सर्वनुं जीवन, एथी सबळा योगो हो.
 जगमां० ॥ ११ ॥ द्रव्यथी भाव अनंत गुण उत्तम,
 कारणे कार्यनी सिद्धि, अष्ट सिद्धिनवनिधियो प्रगटे,
 आत्मिक क्षायिक लब्धि हो. जगमां० ॥११॥ इन्द्रा-
 दिक सहु देवो पूजे, ब्रह्मचारीने रागे; मुनिवर सेवा
 भक्ति करतां, ब्रह्मव्रत दिल जागे हो. जगमां०
 ॥ १२ ॥ जाव ब्रह्मधारी उपकारी, भोगी जैह
 अज्ञोगो; बुद्धिसागर ब्रह्म अलखने, पूर्ण जगावे
 योगी हो. जगमां० ॥ १३ ॥ ॐ ह्रीं-ब्रह्मचर्य
 क्षाभाय जक्षादिकं यजामहे स्वाहा.

(१०४)

कलश गीत.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो॥ दश
विध साधु धर्मनी पूजा—पुष्पे प्रभुजी वधायो. त्रिशला
नंदन वंदन करतां, सहजानंदने पायोरे. महावीर०
॥ १ ॥ ओगणिश सत्योत्तर आश्विन वदि, छठ
शनिवार शुहायो; दशविध मुनिवर धर्मनी पूजा,
रचतां हर्षे उमाह्योरे. महावीर० ॥ २ ॥ सानंदमां
आनंदनी लहेरे, दशविध धर्मने ध्यायो; संघनी
भक्तिए चोमासामां, मंगल जय वर्तायोरे. महावीर०
॥ ३ ॥ सदसद्भूत ज आतम धर्मनो, अनुभव
निश्चय आयो; आपोआप स्वरूपे खेत्ती, जन्मी जगमां
फाव्योरे. महावीर० ॥ ४ ॥ तपगच्छहीरविजय
सूरि जगगुरु, धर्मना तेजे सवायो; पट्ट परंपर रवि-
स्सागर गुरु, झळहळ ज्योति सुहायोरे. महावीर०
॥ ५ ॥ दर्शन ज्ञानने चारित्रमयश्री, सुखसागर
गुरु रायो; तेना चरकमळमां ब्रमर सम, थात्तां

(१०५)

ब्रह्म जगायोरे. महावीर ॥६॥ गुरु कृपाने आशीर्वादे,
जगमां धर्म फेलायो; बुद्धिसागर आनंदमंगल,
जंगम संघ वधायोरे. महावीर० ॥ ७ ॥



(१०६)

चार जावनानी पूजा.

परम ब्रह्म परमात्मा, प्रभु महावीर देव, सर्व सुरासुरनत विभु, इन्द्रो करता सेव. ॥ १ ॥ प्रभु महावीरे कह्यो, चार भावना बोध; भावे चारे जावना, यातो मोह निरोध. ॥ २ ॥ चार भावना भावतां, प्रगटे आतम शुद्धि; ते कारण चउ भावना-पूजानी ठे सिद्धि. ॥ ३ ॥ मैत्री मुदिता जावना, जाव मध्यस्थ विचार; करुणा चोथी जावना, जावतां भवपार. ॥ ४ ॥ अष्ट प्रकारी पूजना, प्रत्येक पूजा दीठ; प्रभु महावीर पूजतां, प्रगटे सम्यग् दृष्टि. ॥ ५ ॥ चार भावना जावतां, त्यागी गृही नर नार; क्षणमां केवल ज्ञानने, पामंता निर्धार. ॥ ६ ॥

प्रथम मैत्री भावना पूजा.

अरणिक मुनिवर चाल्या गोचरी. ए राग.

चरम जिनेश्वर महावीर पूजीए, जेणे तार्यी नर-नार; भावना चारेरें जेणे उपदिशी, जावे शिव निर्धार.

(१०७)

मैत्रीभावना ज्ञावो भविजना. ॥ १ ॥ सर्व जीवोने
 मित्रसमा गणो, छंडो वैर विरोध; शत्रु दृष्टिरे दिलथी
 परिहरो, एवो प्रचुनोरे बोध. मैत्री० ॥ २ ॥ आतम
 सरखारे सर्वे जीवठे, कर्मवडे परतंत्र; अज्ञाने ते रे
 सत्य न जाणता, जपता मोहनो मंत्र. मैत्री० ॥ ३ ॥
 कर्म प्रमाणेरे सुख दुःख संपजे, जीवो निमित्त होय;
 कर्म विना कोइ निमित्त नहीं थतुं, शत्रु न मानोरे
 कोय. मैत्री० ॥ ४ ॥ सम्यग्दृष्टिने सवळीबुद्धिथी,
 सर्व जीवो होय मित्र; आत्मोन्नतिमारे हेतु परिणामे,
 कोइ न होय अमित्र. मैत्री० ॥ ५ ॥ सातनयो-
 थीरे मैत्रीभावना, चउनिक्षेपेरे जाण; द्रव्यने
 ज्ञावेरे निश्चय व्यवहारे, प्रगटे केवल ज्ञान. मैत्री०
 ॥ ६ ॥ जेना मनमारे मित्र जगत् बन्युं, ते छे जग-
 नोरे मित्र; जव बंधनथीरे मुक्त प्रभु थयो, ज्ञानी
 संत पवित्र. मैत्री० ॥ ७ ॥ खमौ खमावोरे सर्वे
 जीवने, टाळी रागने रोष; जैनधर्मनोरे ए व्यवहार
 छे, करवो आतम पोष. मैत्री० ॥ ८ ॥ मैत्रीज्ञावनठ

(१०८)

वर्तन आदरो, टाळी मोहनी वृत्ति; दुःख सहीनेरे
 सघळा जीवनी, करशो प्रेमेरे जक्ति. मैत्री० ॥ ९ ॥
 परमात्म सत्ताए सहू जीवो, आत्ममां एम भाव,
 बुद्धिसागर मैत्रीजावना, जवसागरमांरे नाव. मैत्री०
 ॥ १० ॥ ॐ-मैत्रीभाव लाभाय ज० य० स्वाहा.



द्वितीया प्रमोदजावना पूजा.

प्रमोद भावना पुष्पथी, पूजो वीरजिनेन्द्र;
 प्रमोद जावे जे रहे, याता तेह महेन्द्र. ॥ १ ॥ दोष
 दृष्टिने टाळवा, प्रमोद जावना बेश; निंदादिक दूरे
 टळे, नासे मिथ्या क्लेश. ॥ २ ॥ गुणने गुणीने
 देखतां, मनहुं हर्षित थाय; ए छे मुदिता जावना,
 आचरतां दुःख जाय. ॥ ३ ॥

ते जे तरणिथी वगोरे. ए राग.

वंदु प्रभु महावीरनेरे, जेणे ओळखाव्यो धर्म;
 उपकारी नहीं तुज समोरे, टाळ्यो मिथ्या जर्म हो.

(१०९)

दिलमां. मुदिता भावना चावीएरे, आत्म प्रभु प्रग-
 टावीएरे. टाळी दोषनी दृष्टि. ॥ १ ॥ कर्म वशे सहु
 प्राणियारे, दोषी काल अनादि; अचरिज शुं त्यां
 मानवुंरे, गुण देखो निरुपाधिहो. दिलमां मुदिता०
 ॥ २ ॥ सर्व संसारी जीवमांरे, दोषने गुण बे साथ;
 गुण देखी चित्त रीझीएरे, रीझे त्रिभुवन नाथ हो.
 दिलमां मुदिता० ॥ ३ ॥ परगुण परमाणु समारे,
 जाणी गिरिसम चित्त; खुशी यता जग सज्जनारे,
 करता आत्म पवित्र हो. दिलमां मुदिता० ॥ ४ ॥
 कृष्णे श्वानना दंतनेरे, प्रशंसया धरी राग; गुण रागे
 प्रगटे गुणारे, जीव बने महाभाग हो. दिलमां
 मुदिता० ॥ ५ ॥ नय निक्षेपे जाणीनेरे, आदरशो
 नरनार; समकितवंता जीवनेरे, एवो ठे आचारहो.
 दिलमां मुदिता० ॥ ६ ॥ मिथ्यादृष्टिपणुं टळेरे,
 टळती दोषनी दृष्टि; सर्व गुणो प्रगटाववारे, पुष्करा
 वर्तनी वृष्टि हो. दिलमां मुदिता० ॥ ७ ॥ निन्दा
 थती नहीं कोइनीरे, सद्गुण लेश जणाय; सर्व जी-

(११०)

वोनी साथमारे, आतम भाव सुहायहो. दिलमां मुदिता० ॥ ८ ॥ सर्व कषायो उपशमेरे; क्षयोपश क्षय थाय; आत्म स्वभावे आतमारे, प्रणमे सुख प्रगटाय हो. दिलमां मुदिता० ॥ ९ ॥ क्षपक श्रेणि चढे आतमारे, समजावे वर्तमान; क्षीण मोही अंत- रातमारे, पामे केवल ज्ञान हो. दिलमां मुदिता० ॥ १० ॥ कोटि दोष छतां गुणोरे, देखंता संत धार; दोष त्यजी गुण हर्षथोरे, राचो नरने नार हो. दिलमां मुदिता० ॥ ११ ॥ शत्रुना पण गुण जुवोरे, करो न नामथी निंद; प्रभु महावीरना बोधथोरे, गुण गुणी मानो वंच्य हो, दिलमां मुदिता० ॥ १२ ॥ जैन धर्मनी जावनारे, गुण रागे प्रगटाय; बुद्धिसा- गर आतमारे, ज्योति ज्योते सुहाय हो. दिलमां मुदिता० ॥ १३ ॥ ॐ—प्रमोद भाव लाभाय. ज० य० स्वाहा.



(१११)

तृतीया माध्यस्थ भावना पूजा.

दुहा.

माध्यस्थ त्रीजी भावना, आदरे जे नरनार;
 सर्व प्रकारे सत्यने, पामे शांति अपार. ॥ १ ॥ मिथ्या
 दुर्बुद्धि टळे, पक्षपात दूर जाय; दुःसाग्रहो सर्वे टळे,
 रागने रोष पलाय. ॥ २ ॥ ज्यां त्यां सत्य प्रकाशतुं,
 रहे नहीं अज्ञान; नय निक्षेपे धर्मने, जाणंतां ठे
 ज्ञान. ॥ ३ ॥

धन धन संप्रति साचो राजा. ए राग.

जेम जेम राग अने द्वेष विघटे, तेम प्रगटे
 समजावरे; दृष्टि रागनो त्याग थतां दिल, प्रगटे
 मध्यस्थ जावरे. वीर प्रभुए ए गुण जाख्यो, आदरो
 नरने नाररे; मध्यस्थ भावे सत्य प्रकाशे, आनंद
 अपरंपाररे. वीर ॥ १ ॥ पक्षपात थाय रागने द्वेषे,
 मानव स्वार्थे अन्धरे; मिथ्याबुद्धियोगे लोको,
 अवळी दृष्टिए बन्धरे. वीर ॥ २ ॥ सर्व कदाग्रह

(११२)

दूरे नासे, प्रगटे सत्य प्रकाशरे; सत्यने माटे सर्व
 समर्पण, शुद्धातम विश्वासरे. वीर० ॥ ३ ॥ द्रव्य
 क्षेत्रने कालने भावथी, सत्यासत्य जणायरे; सत्यनां
 सर्वे दृष्टि बिंदुओ, प्रगटे सत्य ग्रहायरे. वीर० ॥ ४ ॥
 सत्यने न्याय ग्रहे मध्यस्थी, पकड़े न गद्धापुच्छरे;
 जूठुं ते साचुं नहीं माने, सत्य आगळ सह तुच्छरे.
 वीर० ॥ ५ ॥ नय निक्षेपने जंग प्रमाणे, जैन धर्म
 ठे सत्यरे; सर्व नयोनी सापेक्षाए, समजो दर्शन कृ-
 त्यरे. वीर० ॥ ६ ॥ ज्ञानी संतनी सेवा जक्ति, करतां
 मध्यस्थ जावरे; प्रगटे सर्व कर्म व्यवहारे, समजाता
 सत्य दावरे. वीर० ॥ ७ ॥ काल स्वभावने नियति
 कर्मे, उद्यमे थातुं काजरे; पंचनासमवाये छे कार्यनी-
 सिद्धिनुं साम्राज्यरे. वीर० ॥ ८ ॥ माध्यस्थभावे
 वर्तो लोको, करशो धार्मिक कर्मरे; सुणशो वांचशो
 जोशो चिंतशो, दिलमां प्रगटशे शर्मरे. वीर. ॥ ९ ॥
 सर्व बाजुथी सत्य तपासो, करो मध्यस्थे काजरे;
 दर्शन ज्ञान चरणनी प्राप्ति, प्रगटे शिव साम्राज्यरे.

(११३)

वीर० ॥ १० ॥ मध्यस्थ ज्ञावे वीर प्रभुने, पूजो ध्यावो
 हमेशेरे; बुद्धिसागर शुद्धातम पद, पामो अलख
 प्रदेशेरे. वीर० ॥ ११ ॥ ॐ—माध्यस्थ भाव लाभाय
 ज० य० स्वाहा.

चोथी करुणा भावना पूजा.

दुहा.

चोथी करुणा भावना, सर्व धर्मनुं मूल;
 करुणा वण समकित नहीं, सर्व धर्म अनुकूल.
 ॥ १ ॥ दया धर्ममां सत्यने, दान शीयल तप माय;
 सर्वे धर्म समाय छे, करुणामां सुखदाय. ॥२॥ प्रभु
 महावीर प्रकाशियो, दया धर्म दिलजाव, भवोदधि
 तरवा खरुं, करुणा उत्तम नाव. ॥ ३ ॥
 सांभळशो मुनि संयमरागे उपशम श्रेणि चढियारे.

ए—राग.

प्रभु महावीर जग उपकारी, तीर्थकर जय-
 कारीरे, करुणा भावने उपदेश्यो शुभ, आदरशो

(११४)

नरनारीरे. प्रभु० ॥ १ ॥ द्रव्य करुणा सर्व जीवोनां,
 दुःखो दूरे करवांरे; सर्व जीवोना प्राणनुं रक्षण,
 करवुं कर्म आचरवांरे. प्रभु० ॥ २ ॥ यथाशक्ति
 उपकारो करवा, रोगादिकने हरवांरे; द्रव्य करुणा
 एवो पहेली, भावी गुण अनुसरवांरे. प्रभु० ॥ ३ ॥
 भाव करुणा निज आतमपर, कर्म शत्रु संहरवांरे;
 सर्व लोकने आतमज्ञाने, प्रतिबोधी उद्धरवांरे.
 प्रभु० ॥ ४ ॥ जैनधर्म जगमां फेलावे, भाव करुणा
 थातीरे; निजपर आतम शुद्धि. माटे, भाव दया
 प्रगटातीरे. प्रभु० ॥ ५ ॥ सात नये करुणाने जाणी,
 कहेणी रहेणीए रहेवुंरे, शत्रु उपर पण करुणा बुद्धि,
 राखी दुःखने सहेवुंरे. प्रभु० ॥ ६ ॥ ज्ञानथकी
 करुणा घट प्रगटे, हिंसा बुद्धि विघटेरे; ज्यां करुणा
 त्यां प्रभु छे निकटे, आतम भवमां न भटकेरे.
 प्रभु० ॥ ७ ॥ नेमि प्रभुए परणवा जातां, शृगनी
 करुणा कीधीरे; वीरप्रभुए चंडकौशिकपर, करुणा
 कीधी प्रसिद्धिरे. प्रभु० ॥ ८ ॥ द्रव्य दयाथी चाव

(११५)

दया छे, अनंत गुण हितकारीरे; जे जे भावे करवी
घटे ते, करशो समय विचारीरे. प्रभु० ॥ ९ ॥ दया
विनानो धर्म नहीं छे, धर्म न हिंसा कर्मैरे; रागने द्वेष
विना निष्कामी, रहे आवश्यक धर्मैरे. प्रभु० ॥१०॥
अल्प दोषने धर्म महा लाभ, दया कर्म आचरवारै;
स्वाधिकारै तरतमयोगे, कर्म विवेके करवारै. प्रभु०
॥ ११ ॥ प्रभु महावीर श्रद्धा जक्ति, पामी करुणा
करशोरे; बुद्धिसागर परमब्रह्मने, शुद्ध बनीने वर-
शोरे. प्रभु० ॥ १२ ॥

कलश गीत.

गाया गायारे प्रभु महावीर प्रेमे ध्याया॥ चारै
भावना पुष्पथी पूज्या, वीर जिनेश्वर राया; आतम
ते महावीर प्रभुजी, घटमां व्यक्त सुहायारे. प्रभु०
॥ १ ॥ चार भावना द्रव्यने जावे, भावंतां प्रभु पाया;
आत्म सरोखुं जग सहु भास्युं, अनुजव रंग वधा-
यारे. प्रभु० ॥ २ ॥ संवत् ओगणिश सत्योतरमां,

(११६)

साणंद रही चोमासुं; आश्विन वदि सातम रवि-
 वारे, पूजा रची सुख भास्युरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ चारे
 भावना भावतां घटमां, आनंद अनुभव आयो;
 प्रभु महावीर देवने भावे, भावना भावी वधायोरे.
 प्रभु० ॥ ४ ॥ महावीर पट्ट परंपर तपगच्छ, हीर-
 विजय सूरिरायो; जगगुरु पदवी पाम्या साची,
 अकबरशाहे वधाव्योरे. प्रभु० ॥ ५ ॥ वाचक सहज
 सागर गुरु पट्टनी, परंपराए आठ्या; श्री रविसागर
 गुरु महंता, जगमां प्रसिद्धि पायोरे. प्रभु० ॥ ६ ॥
 तस शिष्य वैयावच्चीशिरोमणि, चारित्री शिर
 राजा; श्री सुखसागर शांत सुधाकर, क्रियावंत शिर
 ताज्योरे. प्रभु० ॥ ७ ॥ गुरु सुखसागर पूर्ण कृपाथी,
 पूजा रची सुखकारी; भणे गुणे जे सांभळे ते सुख-
 पामो मंगल भारीरे. प्रभु० ॥ ८ ॥ आत्मोपयोगी
 भावना जावी, आतम शुद्धिकारी; बुद्धिसागर ऋद्धि
 वृद्धि; शांति लहो नरनारीरे. प्रभु० ॥ ९ ॥ ॐ
 करुणा लाभाय ज० य० स्वाहा ॥

(११७)

दान शीयल तप भावनी पूजा.

प्रथम दान पूजा.

जय जगमां महावीर जिन, सर्व विश्वआधार;
 परम ब्रह्म तीर्थकरा, परमेश्वर जयकार. ॥१॥ केवल-
 ज्ञानी जिनपति, सुरनर पूजे पाय; वीतराग परमा-
 तमा, सेवतां सुख थाय. ॥ २ ॥ समवसरणमां
 बेसीने, सत्य जणाव्यो धर्म; दान शीयल तप भा-
 वनां, सत्य जणाव्यां मर्म. ॥ ३ ॥ दान शीयल तप
 भावथी, मुक्ति लहे नरनार; एमां शंसय नहि जरा,
 समजाव्युं निर्धार. ॥ ४ ॥ ते माटे पूजा रचुं, दान
 शीयल तपभाव; द्रव्यज्ञावथी पूजतां, प्रगटे गुण
 सद्भाव. ॥ ५ ॥

प्रथम दान पूजा.

दान समो नहि धर्म जग, दान दियो नरनार;
 दानथी ज्ञावे त्याग ठे, दानथी जग उपकार. ॥१॥
 दीक्षा ग्रहतां पूर्वे, तीर्थकर दे दान; दानथी निश्चय

(११८)

मुक्ति पद, चाखे ठे भगवान्. ॥ २ ॥ दान सुपात्रे
वापरो, धारी सत्य विवेक; दान विना नहीं सिद्धि
ठे, दाने समकित टेक. ॥ ३ ॥

सांभळशो मुनि संयम रागे. ए राग.

नमो नमो महावीर उपकारी, जगमांही जय-
कारीरे. दानस्वरूप प्रकाश्युं साचुं, द्रव्यभाव सुख-
कारीरे. नमो० ॥ १ ॥ अन्नय सुपात्र उचित अनु-
कंपा, कीर्ति पांच ए भाख्यांरे; यथायोग्य सेवे नर-
नारी, उत्तम फल तस दाख्यांरे. नमो० ॥२॥ अन्न
वस्त्रने औषधदाने, परोपकार करातोरे; ज्ञानदान
सहु दानमां मोटुं, महिमा न वर्णव्यो जातोरे. नमो०
॥ ३ ॥ भावथी समकित दान अभय छे, चारित्रा-
दिक जाणोरे; जन्ममरणथी बूटे आतम, दान ते
जाव प्रमाणोरे. नमो० ॥४॥ ममता टळतां दान ज
थातुं, अगियारमो प्राण आपेरे; सर्व प्राणार्पण ज्यां
दाने, त्यां प्रजु प्रगटी व्यापेरे. नमो० ॥ ४ ॥ राचे

(११९)

माचे दान करीने, ते उत्तम पद पामेरे; आतम गुण
 आतमने आपे, ते ठरतो शिव ठामेरे. नमो० ॥६॥
 दानथकी गुण सर्वे प्रगटे, दुर्गुण दोषो टळतारे;
 वैरीजन पण व्हाला थाता, वांडित मेळा मळतारे.
 नमो० ॥ ७ ॥ सातनयेने चउ निक्षेपे, दानस्वरूप
 विचारोरे; सर्व धर्ममां दान छे पंहळुं, त्रिकयोगे ते
 धारोरे. नमो० ॥ ८ ॥ दानने देतां सर्वे दीधुं, धन
 धन जगमां दानीरे; दाने तीर्थकर पद बांधे, सप्तजे
 धर्मी ज्ञानीरे. नमो० ॥ ९ ॥ संघ चतुर्विध शासन
 चक्ति, दानने देतां थातीरे; देव गुरुने संतनी सेवा,
 तरतमयोगे सुहातीरे. नमो० ॥ १० ॥ अरस्परस
 उपकारक हितकर, दान समुं नहीं कोइरे; प्रभु
 महावीर देवे प्रकाश्युं, आदरशो शुभ जोइरे. नमो०
 ॥ ११ ॥ द्रव्यने जावथी धर्मदानथी, दानीनो बलि-
 हारीरे; बुद्धिसागर दानने आषो, धर्मी नरने नारीरे.
 नमो० ॥ १२ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा मृत्यु

(१२०)

निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय दान लाजाय जलं चंदनं
युष्पं धूपं दीपं अक्षतं नैवेद्यं फलं यजामहे स्वाहा॥

द्वितीया शीयल तप पूजा.

शीयल सम नहीं धर्म कोइ, सकल कर्म हरनार.
शीयल सागर सम जलुं, अन्य नदी सम धार॥१॥
शीयल पाळे पाळ्युं सहु, पाळ्याव्रत आचार, शीय-
लवंताने नमो, पूजो नरने नार. ॥ २ ॥ शीयलव्र-
तथी मुक्ति ठे, स्वर्ग तो सहेजे होय; दुष्ट उपद्रव
झट टळे, नडे न निजने कोय. ॥ ३ ॥

श्री जिनजाषित वचन विचारीए-ए राग.

आत्म प्रभु महावीरने पूजीए, ध्याइ जे बहु
भाव-जविकजन; प्रभु गुण लेतां प्रभुसम शोभिए,
लक्ष्य न चूको एह दाव. जविकजन० शीयलने
पाळो साचा जावथी० ॥ १ ॥ सीतादिक सतीयो
संभारीए, ध्याइए तीर्थकर आदि, भविक०॥ शेठ

(१२१)

सुदर्शन जंबुने स्मरो, कामनी वारोरे व्याधि. भविक-
 शीयल० ॥ १ ॥ धन्य धन्य स्थूलीभद्र महंत जे,
 शीयलधारीमांही श्रेष्ठ. जविक ॥ कामना घरमां
 पेसी कामने, पाडयो पटकीर हेठ. भविक. शीयल०
 ॥ ३ ॥ विजयने विजयाने धन्य धन्य छे, टाळ्युं
 कामनुं मूळ; भविक०॥ शीयलवंतां नरने नारीओ,
 टाळो कामनुं शूळ. भविक. शीयल० ॥ ४ ॥ शीय-
 लधारी जनने पूजीए, वंदोए करीने संग; भविक.
 संगे रंग प्रगटतो दिंलविषे, प्रभुवचने दृढ रंग.
 जविक. शीयल० ॥५॥ सातनयोने चउ निक्षेपथी,
 जाणी शीयलनुं रूप; भविक. द्रव्यभावथी सेवे
 शिव मळे, नासे भव भय धूप. भविक० शीयल०
 ॥६॥ द्रव्य ते जावनुं कारण जाणवुं, कारणे कार्यनी
 सिद्धि; भविक०॥ कायिकवीर्यनी रक्षा धारतां, प्रगटे
 बाह्यनी ऋद्धि. भविक. शीयल० ॥ ७ ॥ पतिव्रता
 पत्नी व्रत शीयल छे, गृही आश्रम हितकार; भविक.
 द्रव्य भावथी शीयल छे त्यागोने, दुर्गुणनो परिहार.

(१२२)

भक्तिक. शीयल० ॥८॥ सद्वर्तन चारित्र ते शीयल
 छे, उत्तम गुणना आचार; भक्तिक. दोष व्यसन दुर्गु-
 णना त्यागथी, शीयल छे सुखकार. ऋक्तिक. शीयल०
 ॥ ९ ॥ द्रव्यने भाव शीयल पूजावडे, पूजो महावीर
 देव; भक्तिक. आत्म महावीर प्रगटे आत्ममां, निज
 गुण पर्याय सेव. भक्तिक. शीयल० ॥ १० ॥ आत्म
 शुद्ध उपयागे वर्तीण, भाव शीयल ठे ऐ बेश.
 भक्तिक. बुद्धिसागर परमानंदनी, प्राप्ति होय हमेश.
 भक्तिक० शीयल० ॥११॥ ॐ० शीयल लाजाय ज०
 य० स्वाहा ॥

तृतीया तप पूजा.

तप पूजो भवी जावथी, सेवो ध्यावो बेश;
 तपथी प्रगटे सिद्धियो, नासे सघळा क्लेश. ॥ १ ॥
 अनेक जातनां तप भलां, द्रव्यभाव व्यवहार; कार्य-
 सिद्धि पुरुषार्थता, दुःख सहन तपसार. ॥ २ ॥
 तन मन धनना जोगथी, करतां शुभ पुरुषार्थ;
 संकट दुःखोने सहे, तप प्रगटे परमार्थ. ॥ ३ ॥

(१२३)

ओधवजी संदेशो कहेजो श्यामने. ए-राग.

द्रव्यभावथी तप तपशो नरनारीओ, कार्यनी
 सिद्धि तप वण कोइ न होय जो; मोहपरिणति
 रोधक निश्चय तप भवुं, कर्तव्यो करतां सहेजे तप
 जोयजो. द्रव्य० ॥ १ ॥ बाहिर तप षड्भेदे सुखकर
 छे सदा, भव्यजीवो तेनो धरता व्यवहारजो; अर्च्यं-
 तर तप षड्भेदे ठे निर्मलुं, शुद्धातम कारक ते छे
 सुखकारजो. द्रव्य. ॥ २ ॥ देवगुहने संघनी सेवा
 नक्तिमां, सर्व समर्पण करवुं तप ए बेशजो; निष्का-
 मे निज अधिकारे फर्जो अदा-करतां तप ते परुता
 सहेवा कलेशजो. द्रव्य० ॥ ३ ॥ प्राण पके पण धर्म
 कर्म नहीं मूकवां, निर्णय निश्चल भावे रहेवुं चि-
 त्तजो; सर्व शुभाशुभ भावविषे समभावना, धरवी
 तप ए जाणो श्रेष्ठ पवित्रजो. द्रव्य० ॥ ४ ॥ दुर्गुण
 दोषने सर्व व्यसनने टाळवां, उपकारी कर्मो करवां
 सही दुःख जो; लाभालाभमां मान अने अपमा-
 नमां, समताए रहीए ने सहीए चूखजो. द्रव्य०
 ॥ ५ ॥ रोगी आदि जीवोनां दुःख टाळवा, तनमन

(१२४)

धन शक्तिनो देवो भोगजो; परमार्थो करवामां
 स्वार्थो होमवा, एवो साचो दुष्कर तपनो योगजो.
 द्रव्य० ॥ ६ ॥ फलनो इच्छा राख्या वण परमार्थनां,
 करवां कृत्यो त्यागी भयने द्वेषजो; खेद विना शुभ
 धर्म प्रवृत्ति धारीण, साध्योपयोगे मुक्तिनो उद्दे-
 शजो. द्रव्य० ॥ ७ ॥ नामरूपमां निर्मोही बनी
 वर्तवुं, सर्व शुभाशुभ इच्छानो करो रोधजो; अर्पाइ
 जावुं गुरु आदि भक्तिमां, योग्यजनोने देवो घटतो
 बोधजो. द्रव्य० ॥ ८ ॥ प्रायश्चित्तने विनये, वैया-
 चृत्यथी, स्वाध्याय ध्यानथी प्रकटे आतम शुद्धिजो;
 देहादिकमां निर्मोही थै वर्ततां, प्रगटे आतमनी
 नव क्षायिक लब्धिजो. द्रव्य० ॥ ९ ॥ मनवाणीने
 कायाथी तप योग छे, तपथी शुद्ध करो आचार
 विचारजो; बुद्धिसागर प्रभु महावीर देवनो, ज्ञाख्यो
 तप एवो छे जग सुखकारजो. द्रव्य० ॥ १० ॥

ॐ तपो लाजाय ज० य० स्वाहा ॥

चोथी भाव पूजा.

भावथकी क्षणवारमां, प्रगटे केवलज्ञान;

(१२५)

क्षणमां जावथी मुक्ति छे, वीर कथे भगवान् ॥ १ ॥
 वीरो शाळवी भाव वण, पाभ्यो काया क्लेश; जाव
 रुचि रस प्रेमथी. विघटे रागने द्वेष. ॥ २ ॥ भाव
 विना किरिया सकल, निष्फळता देनार; हर्षोह्लासे
 जावना, भावो नरने नार. ॥ ६ ॥

जीरण शैठ भावना भावेरे. महावीर प्रभु घेर
 आवे-ए राग.

महावीर प्रभु जयकारी, जावे उपदेशे सुख-
 कारी; जावथी सर्व सिद्धि थनारी, भाव दिलमां
 धरो नर नारीरे; जावनी जगमां बलिहारी, जाव
 अमृत आनंदकारीरे. जाव. ॥ १ ॥

चक्री भरते भावना जावी, क्षणमां घाति कर्म
 हठावी; थै केवली मुक्तिने पावी, जाव; चक्तिनी छे
 चावीरे. जावण ॥ १ ॥ जावे जावना भावतां ज्ञानी,
 थया आषाढा मुनि ध्यानी; थया क्षणमां केवल-

(१२६)

ज्ञानो, रही खप नहीं बीजा कशानीरे. जाव० ॥२॥
 वांस उपर नाटक करता, इला पुत्रजी ध्यान धरंता;
 जावथी श्रेणि,ए संचरंता, एक क्षणमांकेवल वरतारे.
 भाव० ॥ ३ ॥ प्रभु महावीर पारणुं आवे, जीरण
 शेठ भावना भावे; पूरण घेर दानने पावे, जीरण
 शेठ स्वर्ग सिधावेरे. भाव० ॥ ४ ॥ जावथी धर्म
 कोइ न भोटो, भाव रसवण सर्वमां तोटो; थाय
 व्रत तप मांही गोटो, भाव वण आडंबर खोटारे.
 भाव० ॥ ५ ॥ भाव आनंद रस रुचि प्रीति, जेमां
 द्वेष नहीं खेद भोति; हर्षोल्लासनी उत्तम रीति,
 उज्वल परिणाम प्रवृत्तिरे० भाव० ॥ ६ ॥ जाववण
 कोइ सुक्ति न पाभे, भाववण नहीं शक्तिथी ज्ञामे; कोइ
 किरिया न आवे कामे, भाववण वळतुं नहि दामेरे.
 भाव० ॥ ७ ॥ भाव चढतीरसनी धारा, सेवा नक्तिथी
 सुखकारा; वहे आनंद अपरंपारा, रस वेधक सिद्धि
 उदारारे. भाव० ॥ ८ ॥ श्रद्धा प्रीतिवडे जाव आवे,
 शुष्कज्ञानीन जरुं शुं पावे; सत्य आनंद रस उप-

(१२७)

जावे, तेनी घेंन खुमारी न जावेरे. जाव० ॥ ९ ॥
जेथी जाव वधे ते करशो, एवुं सांभळो व्रत आच-
रशो; भावरस ज्यां त्यां मन धरशो, तेथी आतम
जीवन वरशोरे. भाव० ॥ १० ॥ शुद्धभाव
आनंद रस व्यापे, क्षणमां मुक्तिरस छापे; कर्म
अनंत भवनां कापे, बुद्धिसागर आनंद आपेरे.
भाव० ॥११॥ ॐ जाव लाजाय ज० य० स्वाहा ॥

गीत कलश.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो.

दान शीयल तपभाव पूजाए, अतिशय आनंद
पायो; द्रव्य पूजाने भाव पूजानो, ए अधिकार
रचायोरे. महावीर. ॥ १ ॥ द्रव्य पूजाने जाव
पूजानो, गृहस्थ छे अधिकारी; भाव पूजाना अधि-
कारी मुनि, शुद्धातम सुखकारीरे. महावीर० ॥ २ ॥
दानशीयल तप जावना योगे, मुक्ति लहे नरनारी;
सर्व साधारण धर्म ठे जगमां, सर्व जीव हितकारी रे.

(१२८)

महावीर० ॥ ३ ॥ एक दिवसमां पूजा रची शुभ,
 सर्व भवी उपकारी; आश्विन वदि आठम साम-
 वारे, वर्ते जग जयकारीर. महावीर. ॥ ४ ॥ आग-
 णिश सत्तोत्तरमां साणंद, चोमासुं कर्तुं भावे;
 संघनी भक्तिए उपदेश, रहेतां आनंद दावेरे.
 महावीर० ॥ ५ ॥ प्रभु महावीर पट्ट परंपर, तपग-
 च्छ संघना राजा; जगगुरु हीर विजय सूरि शोत्रे,
 सर्व गच्छ शिरताजारे. महावीर० ॥ ६ ॥ तपगच्छ
 सागर पट्ट परंपर, रविसम पूर्ण प्रतापी; रविसागर
 गुरु प्रेमे प्रणमुं, जगमां कीर्ति व्यापीरे. महावीर.
 ॥ ७ ॥ तश शिष्य चारित्री शिर शेखर, सुख सागर
 गुरु धीरा; शांतने दांत महंत मुनीश्वर, सर्व मुनिमां
 वीरारे. महावीर. ॥ ८ ॥ गुरु सुखसागर पूर्ण कृपा-
 थी, आत्मामृतरस पीधो; बुद्धिसागर आनंद मंगल,
 पामी पूर्ण प्रसिद्धारे. महावीर० ॥ ९ ॥

(१२९)

अष्टांग योगनी पूजा.

प्रणमुं तीर्थकर विभु, चोवीशमा जिनराज;
 परमेश्वर महावीर देव, योगेश्वर सम्राट. ॥ १ ॥
 योगनां अंगो आठ छे, तेह प्रकाश्यां बेश; समवस
 रणमां बेसीने, दीधो शुभ उपदेश. ॥ २ ॥ हठनां
 अंगो चार ठे, राजनां अंगो चार; निश्चय नेव्यवहा-
 रथी, समजी ग्रहो नरनार. ॥ ३ ॥ दर्शन ज्ञानने
 चरणमां, अंगो आठ समाय; पंचाचारने समितिमां,
 गुप्तिमांही सुहाय. ॥ ४ ॥ स्याद्वादी समकितीने-
 सम्यक्पणे प्रणमाय; साधननी उपयोगिता, स्वाधि-
 कारे जणाय. ॥ ५ ॥ त्यागी गृहस्थने योगनुं, आरा-
 धन सुखकार; असंख्य योग वीरे कह्या, मुक्ति हेतु
 निर्धार. ॥ ६ ॥ ज्ञानी गुरुगमने लही, जैन शास्त्र
 अनुसार; योगाष्टक पूजा रचुं, स्वर्गने शिव दातार. ॥७

प्रथम यम योग पूजा.

अहिंसा सत्य यम कथ्या, अस्तेय छे जयकार;

(१३०)

ब्रह्मचर्य संतोषने, आदरतां शिव सार. ॥१॥ पाप
कर्मने रोधतो, यम ते संवर जाण; आदरतां आस्रव
टळे, प्रगटे अनुभव ज्ञान. ॥२॥ सर्व योगतुं मूल छे,
सर्व योग आधार; प्रथम पगथियुं मुक्तिनुं, पाळो
नरने नार. ॥ ३ ॥

देखो गति दैवनीरे. ए राग.

प्रणमो पूजो वीरनेरे, जेने जणाव्यो योग; पंच
महाव्रत यमथकीरे, नासे कर्मनो रोग. भवी यम
आदरोरे; टाळी दुःखकर भोग. भवी यम आदरोरे.
॥ १ ॥ हिंसा दुःखनी वेलडीरे, अहिंसा सुखखाण;
बैर विरोध रहे नहींरे, मुक्तिनुं छे प्रमाण. जवी०
॥ २ ॥ सत्य समो नहीं धर्म ठे रे, सत्य जगत् आ-
धार; सत्यथी धर्मो प्रगटतारे, सत्य ग्रहो धरी प्यार.
जवी० ॥ ३ ॥ सर्व प्रकारनी चोरीथीरे, विरमे
शांति सुहाय; चोरी करतां प्राणियारे, सुख शांति
नहि पाय. भवी० ॥ ४ ॥ द्रव्यथी मैथुन त्यागतांरे,
नववाडो धरी बेश; आधि व्याधि उपाधिनेरे, नासे

(१३१)

रोगने क्लेश. ज्वी० ॥ ५ ॥ भावथकी ब्रह्मचर्य
छेरे, मोह परिणति त्यागः शुद्धब्रह्ममां म्हालवुंरे,
सर्वयाग शिर याग. भवी० ॥ ६ ॥ मूर्च्छा परिग्रह
त्यागथीरे, मन चंचलता जाय; द्रव्य परिग्रह पण
टळेरे, आत्मानुजव थाय. भवी० ॥ ७ ॥ जोगोप-
भोगथी विरमतांरे, पाप कर्मनो अंत; यमवने प्रभु
पूजोनेरे, मुक्तिवर्या बहु संत. भवी० ॥ ८ ॥ देहनी
शुद्धि यमथकीरे; मनवच कायनी शुद्धि; बुद्धिसा-
गर आत्मनोरे, प्रगटे चिदानंद ऋद्धि. भवी० ॥ ९ ॥
ॐ ०५० यमयोगं त्वाप्नायज० य० स्वाहा ॥

द्वितीया नियम पूजा.

बीजी नियमनी पूजना, करतां दुःखनो नाश;
मन इन्द्रिय वशमां रहे, नियम ते जाणो खास.
॥ १ ॥ जे जे उपाये मन तनु, आत्म वश वर्ताय;
नियम ते जाणो सहो, पाळंतां सुख थाय. ॥ २ ॥
नियम योगने आदरी, पास्या मुक्ति अनंत; नियम

(१३२)

सिद्धि ठे यमथकी, जाखे वीर जदंत. ॥ ३ ॥

सुत सिद्धारथ भूपनारे, सिद्धारथ भगवान्—ए राग.

शुभ नियम बहु जातनारे, द्रव्यने भावथी जाण; मोह पशुबळ झट टळरे, आदरतां गुण खाणरे; नियमने पाळशो, टाळी विषय कषायरे, दोषो टाळशो. ॥ १ ॥ बाह्याच्यंतर तप तपेरे, षड् आवश्यक कर्म; सहज कर्म सदोषीनेरे, करतो साधे धर्मरे. नियम० ॥ २ ॥ घोर अभिग्रह धारतोरे, गुर्वादिकनीरे जक्ति; परोपकारी कार्यमांरे, फोरवतो निज शक्तिरे. नि० ॥३॥ देवगुरुने साधुनांरे, दर्शननी शुभ टेक; आवश्यक सहु फर्जनेरे, धारे धरीने विवेकरे. नियम० ॥ ४ ॥ सकल साधन नियमनांरे, द्रव्यने भावथी जेह, साध्योपयोगे धारतोरे, देह छतां निर्देहरे. नियम० ॥ ५ ॥ द्रव्यभावथी शौचनेरे, धारे मन संतोष; निन्दादिक दुर्गुण त्यजेरे, धरी गुण दृष्टि पोषरे. नियम० ॥ ६ ॥ धर्म कर्म करवां घटेरे,

(१३३)

ते ते करतोरे सर्व; दुष्ट जे कामनी वासनारे, टाळे
 प्रगटथो गर्वरे. नियम० ॥ ७ ॥ सूरिवाचक मुनि
 सेवतारे, करतो हर्षोल्लास; जिन प्रतिमा अवलंब-
 तोरे, प्रभु वचने विश्वासरे. नियम० ॥ ८ ॥ सम-
 कितवण हठयोगथीरे, पामे नहि कोइ मुक्ति;
 सम्यग्ज्ञाने नियमनीरे, पाळे जे शुभ रीतिरे.
 नियम० ॥९॥ हठयोगी अज्ञानथीरे, निष्कामी नहीं
 थाय; सम्यग् ज्ञानी नियमनेरे, पाळंतो शिव जा-
 यरे. नियम० ॥ १० ॥ द्रव्यक्षेत्रने भावथीरे,
 सातनयोथीरे जेह; जाणी नियमने आदरेरे, सिद्ध
 बने छे तेहरे. नियम० ॥ ११ ॥ पाळो नियमना
 योगनेरे, जेथी आस्रव जाय; बुद्धिसागर आतमारे,
 परमेश्वर पद पायरे. नियम० ॥१२॥ ॐ ०५० नियम
 योगलाजाय ज य० स्वाहा ॥

तृतीया आसन योग पूजा.

आसनथी आरोग्यता, देहनी पुष्टि थाय; रो-
 गादिक दूरे टळे, देहथी धर्म सधाय. ॥ १ ॥ ते

(१३४)

माटे आसन घणां, जेने घटे जे तेह; करतां देहनुं
बळ वधे, निमित्तसाधन एह. ॥ २ ॥ आसन जय
करीने जनो, सेवा भक्ति योग; साधे पंचाचारने,
टाळे कर्मना रोग. ॥ ३ ॥

इडर आंवा आबलीरे, ए राग.

आसन जयथी योगनीरे, भूमि शुद्धि थाय;
देह आरोग्यता संपजेरे, वायु रोगो जायरे; ऋविजन !!!
आसन जयने साध्य, तेवडे प्रभु आराध्यरे. ऋवि०
॥ १ ॥ गोडुहिकासनथी प्रभुरे, वीरजिने कर्तुं ध्यान;
पर्यकासन बेसीनेरे, वीर लह्या निर्वाणरे. भवि०
॥ २ ॥ काउसग्गना आसनेरे, कीधां अनेके ध्यान;
पद्मासनथी साधुओरे, लह्या घणा निर्वाणरे. ऋवि० ॥३॥
योग वहन देव वंदनेरे, आसननो उपयोग; प्रतिक्र-
मणने मंत्रनीरे, साधनामांहि योग्यरे. भवि० ॥४॥
कायिक आसन जय करेरे, वायु रोगो जाय; अनेक
रोगो न उपजेरे, धर्म साधनमां सहायरे. भवि०

(१३५]

॥ ५ ॥ भावथा आसन जाणवुंरे, आतम स्थिर
 परीणाम; आशावण मन ध्येयमारे, वर्तेतां स्थिर
 धामरे. भवि० ॥ ६ ॥ मननी चंचलता मटेरे, ठरी
 रहे स्थिर ठाम, भाव आसन ते जाणवुंरे, निश्चल-
 ता निष्कामरे० ऋवि० ॥ ७ ॥ पद्मासन बेठा प्रभुरे,
 वंदो पूजो ऋव्य; बुद्धिसागर योगनुंरे, साधो झट
 कर्तव्यरे. भवि० ॥ ८ ॥ ॐ ०प० आसन योगलाजाय
 ज० य० स्वाहा.

चतुर्थ प्राणायाम पूजा.

प्राणायामथी प्राणनी, मन तनु शुद्धि थाय;
 अष्टधा प्राणायामना, जेद कह्या गुणदाय. ॥ १ ॥
 जैन शास्त्रमां भाखिया, ते रीते नरनार; प्राणायामने
 साधीने, मनोजयने वरनार, ॥ २ ॥ द्रव्यज्ञावथी
 जाणतां, करतां प्राणायाम; सहज योगनी पुष्टिनुं,
 साधन छे परिणाम. ॥ ३ ॥

कुंबखडानी देशी.

प्राणायामनी साधनारे, करशो नरने नार; प्रभु

(१३६)

पद पूजीए. रेचक पूरक कुंभकेरे, प्राणनी शुद्धि
 थनार. प्रभु पद पूजीए, पूजीए जिनवर पूजीएरे,
 आनंद प्रगटे अपार. प्रभु पद० ॥ १ ॥ प्राणायाम-
 मना ज्ञानथीरे, शुभ अशुभ जणाय, प्रभु ॥ इडा पिं-
 गला नाडीयोरे, सुषमणा बोध थाय. प्रभु० ॥ २ ॥
 अष्टधा प्राणायामथीरे, टळता रोग अनेक. प्रभु;
 वायु अने पित्त कफतणारे, टळता महाउद्रेक.
 प्रभु० ॥ ३ ॥ प्राणायामना जयथकीरे, प्रगटे
 बाहिर सिद्धि. प्रभु ॥ वीर्यादिक रक्षण थतुरे, आयु-
 ष्य बलनी ऋद्धि. प्रभु० ॥ ४ ॥ मन तनु वाणी
 शक्तियोरे, विकसे सात्विक बुद्धि. प्रभु ॥ बाह्य शक्ति
 कारणपणेरे, आत्म शक्तिनी वृद्धि. प्रभु० ॥ ५ ॥
 भाव प्राणायाम साधनारे, सम्यग् ज्ञानीने होय. प्रभु ॥
 दुष्ट संकल्प विकल्पनोरे; रेच करे सुख जोय. प्रभु०
 ॥६॥ धर्म शुकल ध्याने पूरतोरे, पूरक प्राणायाम.
 प्रभु ॥ शुद्ध स्वजावे स्थिरतारे. कुंभकना परीणाम.
 प्रभु० ॥ ७ ॥ अशुद्धनुं रेचन करेरे, शुद्ध पूरण

(१३७)

पुरुषार्थ. प्रभु ॥ निज गुणथी पूरण थवुंरे, पूरकनुं पर-
 मार्थ. प्रभु० ॥ ८ ॥ अष्ट कर्मने आत्मथीरे, कर्षवां
 रेचक ज्ञाव. प्रभु ॥ उपशम क्षयोपशम क्षयेरे, पूरावुं
 पूरक दाव. प्रभु० ॥ ९ ॥ क्षायिकज्ञावे आत्ममारे,
 स्थिरता रमणता जेह. प्रभु ॥ कुंभक भावथी जाणी-
 नेरे, आदरशो धरी स्नेह. प्रभु० ॥ १० ॥ भाव प्रा-
 णायाम योगथीरे, क्षणमां केवल सिद्धि. प्रभु ॥ द्रव्य-
 थकी भाव जाणवोरे, अनंत गुण प्रद ऋद्धि. प्रभु०
 ॥ ११ ॥ द्रव्य ते भावनो हेतु छेरे, कारणे कारज
 थाय, प्रभु ॥ बुद्धिसागर आत्मनीरे, शुद्धता हेते
 उपाय. प्रभु० ॥ १२ ॥ ॐ ०५० प्राणायाम योगला-
 भाय ज० य० स्वाहा ॥

पंचम प्रत्याहार योग पूजा.

बाहिर जाती वृत्तियो, रोधवी प्रत्याहार; अना-
 सक्ति विषयोविषे, राग रीस परिहार. ॥ १ ॥
 त्रेवीश विषयोमां थतो, राग रीस परिणाम; तेथी
 विमुख थवुं भलुं, निर्विषयी रुन ठाम. ॥ २ ॥

(१३८)

सकल शुभाशुभ वृत्तियो, रोकवी प्रत्याहार; धारी
समकित्तीजनो, पामे चवोदधिपार. ॥ ३ ॥

तेजे तरणीथो वडोरे, ए राग.

प्रभु महावीर पूजीएरे, वंदीए धरी भाव.
प्रत्याहार प्रकाशियोरे, जेथी वधे गुणदावहो.
भविका० प्रत्याहारने धारशोरे, मननी मलीनता
टाळशोरे. शुद्ध थशो नरनारण ॥ १ ॥ मोहनी
वृत्तियो बाह्यमांरे, जातां रोकवी योग; बाहिर वृत्ति
जीवमारे, पामे शोकने रोगहो. ॥ भविका० ॥ २ ॥
बाह्य परिणति वृत्तिएरे, गुणश्रेणि न चढाय; अंत-
रंग परिणामथीरे, क्षायिक गुणमां जवाय हो. भविका०
॥ ३ ॥ उत्तरोत्तर उज्ज्वलपणेरे, ज्ञानादिक परि-
णाम; उत्तरोत्तर गुणस्थानकोरे, पामे मन विश्राम
हो. चविका० ॥ ४ ॥ शुभ अशुभता नहीं रहेरे,
दृश्य अदृश्य मझार; प्रत्याहारनी सिद्धतारे, निज-
गुण निजमां धार हो. भविका० ॥ ५ ॥ दुर्गुण दोषो

(१३९)

सहु टळेरे, नासे व्यसनो दुष्ट; प्रत्याहारनी सिद्धि-
 एरे, आतम निर्मल पुष्ट हो. ऋविका० ॥ ६ ॥ रात्री
 दिवस क्षण क्षण विषेरे, करतां कर्माचार; मन
 वाणी काय प्रवृत्तिमांरे, धरशो प्रत्याहार हो० भविका०
 ॥ ७ ॥ सम्यग्ज्ञानीने सहजथीरे, थातो प्रत्या-
 हार; योगपणे घट परिणमेरे, प्रारब्धनो व्यवहार
 हो. भविका० ॥ ८ ॥ सम्यग्ज्ञानोपयोगथीरे, सुख
 दुःखमां समभाव; निजगुण निजमां खेंचतोरे, एवो
 आविर्जाव हो. ऋविका० ॥ ९ ॥ प्रत्याहारे जे परि-
 णमेरे, ग्रहे न छंमे जेह; बुद्धिसागर आत्मनीरे,
 पूर्णता पामे तेह हो० भविका० ॥ १० ॥ ॐ ०प०
 प्रत्याहार योगलाभाय ज० य० स्वाहा ॥

छठी धारणायोग पूजा.

दुहा.

अरिहंत महावीर धारणा, धारो नरने नार.
 शब्दथी अर्थनी धारणा, धरतां शक्ति अपार ॥ १ ॥
 श्रद्धा प्रेमथी धारणा, धरता जे निष्काम; शुद्धि करी

(१४०)

निज हृदयनी, पांमे शिवपुर ठाम ॥ २ ॥ नव पदनी
दिल धारणा, धरतां केवलज्ञान; बाह्यांतर त्राटक
भळे, धारणमां गुणखाण. ॥ ३ ॥

सनेही संत ए गिरि सेवो. ए राग.

द्रव्यभावथी धारणा धरीए, प्रभु महावीर
दिलमां स्मरीए. अन्य परिणतिने परिहरिए, निज
आतम शुद्धता करीए; प्रभु महावीरने दिल धरीए,
एवी धारणाए प्रभु वरीए. प्रभु० ॥ १ ॥ प्रभु
ध्येयनी धारणा धारो, षट चक्रोमां निर्धारो; प्रभु
धारणमां मन वाळो, तेथी घटमां थतो उजियारो.
प्रभु० ॥ २ ॥ बाह्य आंतर त्राटक करीए, दुर्ध्या-
नने झट परिहरिए; उपयोगे रहीए फरीए, प्रभुमय
थै प्रभुने वरीए. प्रभु० ॥ ३ ॥ प्रभु महावीरमां मन
राखो, मुखे महावीर नामने भाखो; मोह शत्रुने मारी
नाखो, आतम आनंद रस चाखो. प्रभु० ॥ ४ ॥
प्रभु महावीरमय थै जाशो, बीजुं सघळुं भूळी जाशो;

(१४१)

सिद्धियोमां नहीं लोभाशो, सत्य धर्म कमाणी
 कमाशो. प्रभु० ॥ ५ ॥ खातां पीतां हरतां फरतां,
 उपयोगे कर्मो करतां; प्रचुनी घट धारणा धरतां,
 नरनारी संयम वरतां. प्रभु० ॥ ६ ॥ पहेली साकार
 धारणा आवे, पछी निराकार सुहावे; प्रभु नवधा
 भक्ति प्रभावे, भक्त योगी शिवपद पावे. प्रभु० ॥७॥
 सर्व जापो धारणा माटे, वळो वहेला शिवपुर वाटे;
 मुक्ति मळे छे शिरने साटे, मळे धारणा ज्ञानोना
 हाटे. प्रभु० ॥ ८ ॥ मनथी मोहदूर हठावो, शुद्ध
 आतम महावीर भावो; धारणाए वीर वधावो, भाव
 अन्नहद तान वजावो. प्रभु० ॥ ९ ॥ गुणस्थानक
 षट्वा निसरणी, धारणा भवसागर तरणी; बुद्धि-
 सागर अमृत सरणी, धरो मनमां धारण करणी० ॥
 प्रभु० ॥१०॥ ॐ ०५० धारणा योगलाभाय. ज० य०
 स्वाहा ॥

—•—
 सप्तमी ध्यानयोग पूजा.

धर्म ध्यानने शुक्लथी, मुक्ति सहेजे थाय; निरा-

[१४२)

कार साकार बे, ध्यानथी कर्मों जाय. ॥ १ ॥ अरि-
हंत आदि ध्येयमां, मन एकाग्र प्रधान; थातां
क्षायिकभावथी, प्रगटे केवलज्ञान ॥ २ ॥ चार
प्रकारे ध्यान ठे, आत्म शुद्धि करनार; ध्यानथी प्रभु-
मय थै जतां, प्रगटे प्रभु निर्धार. ॥ ३ ॥

सांजळशो मुनि संयम रागे उपशम श्रेणि
चढियारे. ए राग.

धन्य महावीर जिन उपकारो, जगमांही जय-
कारीरे; ध्यान धरीने केवल पामी, मुक्तिवर्या
सुखकारीरे. धन्य० ॥१॥ सर्व प्रकारनां ध्यान प्रका-
श्यां, उपदेश्यां नरनारीरे; आर्त रौद्रने धर्म शुक्ल चउ,
समजो गुरुगम धारीरे. धन्य० ॥ २ ॥ पिंरुस्थने
पदस्थने ध्यावो, रूपस्थथी लय लावोरे; रूपातीतना
ध्याने केवल-ज्ञानने क्षणमां पावोरे. धन्य० ॥ ३ ॥
ध्येयमां अंतर्मुहूर्त ध्यानज. थातां जीवन्मुक्तिरे;
आत्मानंद रसोदधि प्रगटे, विषयोमां न आसक्तिरे.
धन्य० ॥ ४ ॥ अंतर्मुहूर्त ध्यान प्रतीते, आत्म
समाधि प्रगटेरे; खातां पीतां कार्य करंतां, शुद्ध

(१४३)

स्वरूप न विघटेरे. धन्य० ॥ ५ ॥ श्रुतज्ञानी ध्याने
 अधिकारी, आत्मार्थी अविकारीरे; आत्मरंगी
 ध्यानी संगी, निःसंगी नरनारीरे. धन्य० ॥ ६ ॥
 मुस्कलवासी गुरुना भक्तो, सर्व स्वार्पणकारीरे;
 लोकादि संज्ञा परिहारो, ध्यानी बने गुणधारीरे.
 धन्य० ॥ ७ ॥ धर्म शुक्ल बे जावना भावो, अशुभ
 ध्यान हठावोरे; शुद्धात्म उपयोग जमावो, परमात्म
 प्रगटावोरे. धन्य० ॥ ८ ॥ अशुभ ध्यान ठाण त्रेसठ
 वारो, शुद्ध स्वरूप विचारोरे; मानव भवनी क्षण
 नहि हारो, आत्म गुणने सुधारोरे. धन्य० ॥ ९ ॥
 साकार ध्यान निराकार ध्यान बे, अनुक्रमथी भवी
 ध्यावोरे; बुद्धिसागर आत्मशुद्धि, करवा लगनी
 लगावोरे. धन्य० ॥१०॥ ॐ ०५० ध्यान योगलाजाय
 ज० य० स्वाहा ॥

अष्टमी समाधियोग पूजा.

ध्यानतणा अभ्यासथी, प्रगटे आत्म समाधि;
 राग द्वेषने कामनी, होय नहीं मन आधि ॥ १ ॥

(१४४)

आतममां मन स्थिर थतां, शुद्ध समाधि थाय;
 मोहात्मक संकल्पने, विकल्प उपशमी जाय ॥ २ ॥
 ज्ञानोपयोगे सहज ठे, आत्म समाधि व्यक्त. परमा-
 नंद रस स्वादथी, बाहिर नहि आसक्ति ॥ ३ ॥

चौद लोकके पार कहावे ए राग-वा.

जिनपद जगमां जाचुं जाणो-ए राग.

सहज समाधियोगे महावीर, केवलज्ञानने पा-
 म्याजो. अप्रमत्त दशा प्रगटावी, घाती कर्मने
 वाम्या; जिनवर नमीएजी, त्यागी मोह स्वजाव,
 निज गुण रमीएजी. ॥ १ ॥ उपशमने क्षय क्षयोप-
 शमथी, आत्म समाधि प्रकाशेजी; मोहाजावे सहज
 समाधि, आतम आनंद जासे. जिनवर० ॥ २ ॥
 ब्रह्मरन्ध्रमां प्राण चढंतां. हठ समाधि कथातीजी;
 तेनी किंमत कोकी सरखी, शुद्धोपयोगे जणाती.
 जिनवर० ॥ ३ ॥ द्रव्य समाधि ज्ञान विनानी, शाता
 वेदनी भोगेजी; भाव समाधि सहजानंदे, आतमना

(१४५)

उपयोगे. जिनवर० ॥ ४ ॥ द्रव्य समाधिकर्मने
 करवां, भाव समाधि पामोजो; शुद्धोपयोग छे
 सहज समाधि, आतम गुण विश्रामी. जिनवर०
 ॥ ५ ॥ शुभ उपयोग छे द्रव्य समाधि, शुद्ध कषाय
 प्रणामेजी; शुभर्था शुद्ध उपयोगमां रमतां, आतम
 मुक्ति पामे. जिनवर० ॥ ६ ॥ यावत् रागने द्वेष
 विना मन, आतम निज उपयोगीजो; तावत् शुद्ध
 समाधि वर्ते, आतम आनंद जोगी. जिनवर० ॥ ७
 उदये आव्यां कर्म शुद्धाशुद्ध, ज्ञानी त्यां समजा-
 वीजी; आतमनो उपयोग न चूके, देतो मोह ह-
 ठावो. जिनवर० ॥ ८ ॥ निर्विकल्प समाधिमांही,
 मोह विचार न आवेजी; मोह विकल्पो प्रगटे त्यारे,
 सविकल्प कहावे. जिनवर० ॥ ९ ॥ शुद्धातम महा-
 वीर प्रभु एक, स्थिर उपयोगे प्रकाशेजी; एकता ली-
 नता समता प्रगटे, मोहनं द्वैत प्रणाशे. जिनवर०
 ॥ १० ॥ मिथ्या ज्ञानीने जे समाधि, मिथ्याभावे
 ते कहीएजी; भव मुक्तिमां समपरिणामे, केवल
 ज्ञानने लहीए. जिनवर० ॥ ११ ॥ कर्म योगीने

(१४६)

शक्तने ज्ञानी, शुद्ध समाधि पामेजी; असंख्य योग
 यता अहीं भेळा, घाती कर्म विराप्ते. जिनवर०
 ॥ १२ ॥ ज्ञानानंदे शुद्ध समाधि, पामे केवल प्रग-
 टेजी; बुद्धिसागर आनंद मंगल, पामे माया विघटे.
 जिनवर० ॥ १३ ॥

कलश गीत.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो.

अष्टांग योगनी पूजा रचीने, वीर जिनेश्वर
 ध्यायो; अष्टांग योगना भाव पूजनथी, आतम शुद्धि
 पायोरे. महावीर. ॥ १ ॥ सम्यग् ज्ञानीने आठे
 अंगो, प्रणमे सम्यग् भावे; मिथ्यात्वीने मिथ्या स्व-
 रूपे, निज दृष्टिना स्वभावेरे. महावीर० ॥ २ ॥ जैना
 गम अनुसारे अंगो, हेमसूरिए प्रकाश्यां; ज्ञानी
 गुरुगमथी ग्रहतां ए, सम्यग्भावे विकाश्यांरे. महा-
 वीर ॥ ३ ॥ देशथकी गृहो ठे अधिकारी, सर्वथकी
 मुनि त्यागी; गुरुगमथी अधिकार लहीने, थाशो
 योगना रामीरे. महावीर० ॥ ४ ॥ पाशव आसुरी

(१४७)

बलने हणवा, योगांगो हितकारी; सत्ताए आतम परमातम, व्यक्त करे निर्धारिरे. महावीर० ॥ ४ ॥ तिरोजावोय ज्ञानादि गुण, आविर्भावने माटे; योजे निजगुणमां ते योगो, धूर छे तेमां आठेरे. महावीर० ॥ ६ ॥ आतम गुणने आतममां जे, योजे ते योग कहेवो; ज्ञानादि शक्तियो योगज, सम्यग अर्थने लेवोरे. महावीर० ॥ ७ ॥ अनंत ज्ञानानंदनी प्राप्ति-कारक योग ते जाणो; सात नयोथो योगने जाणी, निश्चय अनुभव आणोरे. महावीर. ॥ ८ ॥ निमित्त उपादान बे भेदे, द्रव्यने भावथी जाणी; शुद्धातम प्रगटावो संतो, एवी वीरनी वाणोरे. महावीर. ॥ ९ ॥ म्हारेतो गुरु सेवा पसाये, सम्यग् अनुभव आव्यो; नय निक्षेपादिकथी तत्त्वो, जाणी स्याद्धाद जाव्योरे. महावीर० ॥ १० ॥ प्रभु महावीर पट्ट परंपर, श्वेतांबर मुनिराया, तपगच्छ जगगुरु हीर विजय सूरि, अकबरे पूज्या पायारे. महावीर० ॥ ११ ॥ तस पट्टसागर शाख परंपर, रविसागर गुरुराया; तस शिष्य संत शिरोमणि गुरुवर, सुख

(१४८)

सागर नमुं पायारे. महावीर० ॥ १२ ॥ ओगणिश
 सत्तोत्तर आश्विननी, वदि दशमी बुधवारे; पूजा
 रचीने पूरण कीधी, लाभ घटिका सवाररे. महा-
 वीर० ॥ १३ ॥ संघनी श्रद्धा प्रीति जक्ति, आग्र-
 हथी चोमासुं; सानंद शहेरे कीधुं भावे, धर्म स्वरूप
 प्रकाश्युरे. महावीर० ॥ १४ ॥ योगनी पूजा जणे ने
 गणे ते, पामो उत्तम शक्ति; बुद्धिसागर संघमां
 मंगल, प्रगटो ऋद्धि भक्तिरे. महावीर. ॥ १५ ॥

ॐ ०५० समाधि योगलाजाय ज० य० स्वाहा ॥



(१४९)

अथ नवधा क्रिया भक्ति पूजा.

परम प्रभु परमात्मा, चोवीशमा जिनराज;
वर्धमान महावीर नमुं, विश्वपति शिरताज. ॥ १ ॥
नवधा भक्ति पूजना, पूज्यनी करतां सार; पूजक
पूज्यपणुं वरे, पूज्य वनी निर्धार. ॥ २ ॥ नवधा
भक्तिनी जलो, पूजा शिवदातार; आत्म ते परमा-
त्मा, व्यक्त बने नरनार. ॥ ३ ॥ जक्तिनी पूजा
रंचुं, हृदय शुद्धि करनार; शुद्ध हृदयथी ज्ञाननी,
प्राप्ति छे जयकार. ॥ ४ ॥ देवगुरुने धर्मनी,
संघनी भक्ति वेश; करतां मुक्ति थाय छे, नासे
सघळा क्लेशं. ॥ ५ ॥

प्रथम श्रवण क्रिया पूजा.

प्रभु महावीर देवनां, वचन सुणो नरनार;
गुरु संत उपदशने, सुणतां ज्ञान थनार. ॥ १ ॥
श्रवणथको श्रुत ज्ञान ठे, श्रुति ते हेत कथाय;
प्रभु वचनामृत सांजळे, सम्यग्ज्ञान सुहाय. ॥ २ ॥
ब्राह्मी सुंदरी मुखथको, सुणी वचनामृत सार;

(१५०)

बाहुबली जिन केवलो, बन्या धन्य अवतार.
 ॥ ३ ॥ श्रवण करे जे शास्त्रने, ते पामे श्रुत-
 ज्ञान. माटे श्रवण क्रियावडे, पूजो प्रभु जग-
 वान्. ॥ ४ ॥

राग केदारो अथवा आशावरी.

प्रभु महावीरनां वचन सुणो जवी, जेथी प्रगटे
 ज्ञानरे; रोहिणीयो जेम स्वर्गने पाम्यो, सफल करो
 निज कानरे. प्रभु० ॥ १ ॥ प्रभु गुरु वचनामृत
 सुणतां जे, धारे मन बहुरागरे; समकृती ते मि-
 थ्यात्वने छंडे, पामे साचो त्यागरे. प्रभु० ॥ २ ॥
 इन्द्रभूति आदि गणधर मुनिवर, सांजळी प्रभु
 उपदेशरे, प्रतिबुध्या चारित्र धरी शुभ, टाळ्या
 कर्मना कलेशरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ चंड कोशियो स्वर्गने
 पाम्यो, श्रवण करी प्रभु बोधरे; श्रवण क्रियावण
 मुक्ति नहीं छे, श्रवणे कर्मनो रोधरे. प्रभु० ॥ ४ ॥
 विनय अने बहुमान सुरागे, सांभळो प्रभुनी
 वाणीरे; सर्व प्रमादो दूर करीने, सांभळो थाशो

(१५१)

ज्ञानीरे. प्रभु० ॥ ५ ॥ गुरुसंत मुखथी प्रभु वाणीने,
 सांचळतां ठे ज्ञानरे; वांचन करतां अनंतगणुं फळ,
 श्रवण करे श्रुति मानरे. प्रभु० ॥ ६ ॥ मिथ्या
 कषायो निंदा न सुणशो, सुणशो धर्मनो बोधरे; तन
 मन धनने तुच्छ गणीने, सुणतां मोहनो रोधरे.
 प्रभु० ॥ ७ ॥ जांगुली आदि मंत्र श्रवणथी, सर्पा
 दिक विष जायरे; गुर्वादिकनो बोध सुणतां, मोहनुं
 विष पलायरे. ॥ ८ ॥ मोरली सुणतां नाग हरण
 जेम, भूले तनुनुं जानरे; अर्पाइ जातां तेम नव्यो,
 श्रवण करो जिनवाणरे. प्रभु० ॥ ९ ॥ प्रति-
 दिन क्षण क्षण गुर्वादिकनी, सेवा करी सुणो
 धर्मरे; बुद्धिसागर आत्म महोदय, पामो ज्ञानने
 शर्मरे. प्रभु० ॥ १० ॥

ॐ ह्रीं श्री परम पुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म
 जश मृत्यु निवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, श्रवण
 पूजार्थं जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं,
 फलं, यजामहे स्वाहा—

(१५२)

अथ द्वितीया कीर्तन क्रिया पूजा.

दुहा.

अर्हत् सिद्धने सूरिनी, कीर्ति करो नरनार;
 वाचक साधु आदि नव, पद स्तवतां सुखसार.
 ॥ १ ॥ गुर्वादिक गुण गावतां, खरे अनंतां कर्म;
 अनंत गुण प्रगटे दिले, अनंत प्रगटे शर्म. ॥ २ ॥
 देव गुरुने धर्मनी, कीर्ति करी नरनार; पूज्यपणुं
 पामे सही, विघटे दुःख अपार. ॥३॥ कीर्तन पूजा-
 थी प्रभु. पूजो धरी मन प्यार; द्रव्यथी भावथी
 सिद्धि छे, आत्म शुद्धि निर्धार. ॥ ४ ॥

न्हवणनो पूजारे निर्मल आतमारे. ए राग.

कीर्तन पूजारे करो जिनराजनीरे, भाव धरी
 नरनार; अरिहंत महावीर कीर्ति गावतांरे, पामो
 भवोदपार. कीर्तन० ॥ १ ॥ सिद्धने सूरिवाचक
 साधुनुंरे, कीर्तन गुणनुं बेश; गुरु गुणीजननुं कीर्तन
 मन थकीरे, करतां राग न द्वेष. कीर्तन० ॥ २ ॥
 तपसी पन्नरसे त्रणने बोधियारे, गोतम लब्धि प्रयोग;

(१५३)

अनुमोदन कीर्तनथी ते वर्यारे, केवल ज्ञाननो योग;
 कीर्तन० ॥ ३ ॥ कीर्तन करतां रावणे बांधियुरे, श्री
 तीर्थकर नाम; नामने रूपनो मोह त्यजी घणारे,
 पाम्या शिवपुर धाम. कीर्तन० ॥ ४ ॥ अपकीर्ति
 अपयश अवगुण टळेरें, दोषनी दृष्टि पलाय, गुणने
 गुणीनी एकता झट थतीरे, कर्मनो जेद हणाय.
 कीर्तन० ॥ ४ ॥ गुणनी स्तवनाथी समकित मळेरें,
 प्रगटे सम्यग् ज्ञान, क्षपक श्रेणिए चारित्रो चढेरें,
 थाय न मान अमानं. कीर्तन० ॥ ६ ॥ कीर्तन करतां
 क्षणमां केवलीरे, असंख्य थयां नरनार; गुणनी
 स्तुति अवगुण ढांकवारे, कीर्तन पूजा सार. कीर्तन०
 ॥ ७ ॥ सत्यादिक गुण वृन्दनी कीर्तनारे, प्रभुनी
 पूजा एह; शुद्धातम करवा प्रभु प्रार्थनारे, स्तवना
 छे गुण गेह. कीर्तन० ॥ ८ ॥ द्रव्यने जावथी प्रभु
 कीर्तन करोरे, प्रभुने गावो जव्य; बुद्धिसागर शुद्धा-
 तम प्रभुरे, भक्तिनुं कर्तव्य. कीर्तन० ॥ ९ ॥

ॐ ०५० कीर्तन पूजार्थं ज० य० स्वाहा ॥

(१५५)

तृतीया मेवन क्रिया पूजा.

अरिहंत आदिनी करो, द्रव्यज्ञावथी सेव; सेवक बनो उपयोगथी, सेव्य बनो स्वयमेव. ॥ १ ॥ सात नयोथी सेवना, आत्मशुद्धिने हेत; गुर्वादिकनी सेवना, आत्म मुक्ति संकेत. ॥ २ ॥ श्रवण अने कीर्तनथकी, सेवाभाव सुहाय; सेवाथी सहु सिद्धियो, प्रगटंती घटमांछ. ॥ ३ ॥

पुखलवइ विजयेजयोरे. ए राग.

प्रभु महावीर सेवीएरे, श्रद्धा प्रीति धरी मान; विनये वैयावृत्यथीरे, पामो केवल ज्ञानरे; भविजन !!! सेवा करो धरी भाव, लेजो नरभव लहावरे. भविजन० ॥ १ ॥ स्वार्पण करी गुरु सेवीएरे, रही अंतर निष्काम; सेवा फल नहीं इच्छीएरे, अधिकारे करो कामरे. भविजन० ॥ २ ॥ तमोरेजोगुण सेवनारे, त्यागी सात्विक सेव; करतां शुद्ध उपयोगथीरे, बनो प्रभु जिनदेवरे. भविजन० ॥ ३ ॥ संघ चतुर्विध सेवनारे, आत्म सेव ते जाण; गुणीजन दश सेवा

(१५५)

थकीरे, प्रगटे आतम ज्ञानरे. ऋविजन० ॥ ४ ॥
 सेवा योग छे आद्यमारे, सकल धर्मनुं बीज; खेद
 रहित निर्जय दशारे, अद्वेष सात्विक रीझरे. ऋवि-
 जन. ॥ ५ ॥ संशयने निंदा त्यजीरे, त्यागो सर्व
 आसक्ति; उपकारी जीवन धरीरे, पामो प्रभुपद व्य-
 क्तरे. भविजन० ॥ ६ ॥ प्रभुमय थइ प्रभु सेवीएरे,
 दया सत्य धरी टेक; संकटमां धीरज धरोरे, चूको
 न धर्म विवेकरे. भविजन० ॥ ७ ॥ दुःख पडे नहीं
 शोचीएरे, सुख थतां नहीं हर्ष; मानामानमां सम-
 पणुंरे, त्यागो चित्त अमर्षरे. भविजन० ॥ ८ ॥ स-
 त्ताए सहु जीवनेरे, सिद्धसमागणो चित्त; चारे
 भावना भावीनेरे, सेवा करतां पवित्ररे. ऋविजन०
 ॥ ९ ॥ दीन दरिद्री दुःखीनीरे, धर्म हीणानी सेव;
 फर्ज अदा करो सर्वदारे, त्यागी दुर्गुण टेवरे. भवि-
 जन० ॥ १० ॥ चढते भावे सेवनारे, करतां आतम
 शुद्धि; बुद्धिसागर मंगलोरे, पगले पगले समृद्धिरे.
 भविजन० ॥ ११ ॥

ॐ ००० सेवन क्रियालाभार्थं ज० य० स्वाहा.

(१५६)

चतुर्थी वचन क्रिया पूजा.

वाचिक शक्ति ए पूजोए, प्रभु महावीर जिणंद;
 वीरे वाचिक शक्तिथी, टाळ्या भवना फंद ॥ १ ॥
 प्रभु वाणीने पूजोए, सेवोए सुखकार; प्रभु वचन
 समज्याथको, पामो भवनो पार. ॥ २ ॥ सत्य
 असत्य जे वचन छे, समजो तेना भेद; निश्चयने
 व्यवहारथी, समजे नासे खेद. ॥ ३ ॥

सुमतिनाथ गुणशुं मलीजी. ए राग.

सत्य वचनने आदरोजो, भावधरी नरनार;
 धर्म संघ परमार्थमांजो, करवो वचन व्यापार; महा-
 वीर प्रभुए, सत्य वचन कथ्यां पार. ॥ १ ॥ निज-
 पर उन्नति काजमांजो, देवा धर्मोपदेश; सदुपयोगे
 वचननेजी, वापरशो सही क्लेश. महावीर० ॥ २ ॥
 जूठां वचनो नहीं वदोजो, सत्यवचननो प्रकाश;
 सत्य असत्यना जेदनेजो, जाणीने करशो विकास.
 महावीर० ॥ ३ ॥ मृत्यु आदि भय त्यजीजी,

(१५७)

क्रोधादिक त्यजी दोष; हिंसादिक अत्रत तजीजी,
 सत्य वचन करो पोष. महावीर० ॥ ४ ॥ स्वाधि-
 कारे सत्य वचनने, वदतां धर्म अपार; सापेक्षाए
 जाणशोजी, सत्यासत्य प्रकार. महावीर० ॥ ५ ॥
 सत्यअसत्य वचन सकळजी, देश कालादिसा-
 पेक्ष; अधिकार समज्या विनाजी, वचन सकल
 निरपेक्ष. महावीर० ॥ ६ ॥ अनेकनयनी दृष्टि-
 एजी, वदो सापेक्ष वचन; वचन भलामां वापरोजी,
 आशय शुभ धरो मन्न. महावीर० ॥ ७ ॥ परमार्थे
 उपयोगथीजी, सर्वदा वचन व्यापार; करशो
 निर्भयता धरीजी, करशो जग उपकार. महा-
 वीर० ॥ ८ ॥ द्रव्य जावथी देवगुरुनी—धर्मनी सेवा
 काज; बुद्धिसागर सत्य वचनने, वदतां सुख साम्रा-
 ज्य. महावीर० ॥ ९ ॥

ॐ ०५० वचनक्रिया लाभाय ज० य० स्वाहा.

पंचमी वन्दन क्रिया पूजा.

अरिहंतादिक वंदतां, भावथो मुक्ति थाय;

(१५८)

नवपदने वंदन करे, अपकीर्ति दुःख जाय. ॥ १ ॥
 द्रव्यने जावथी वांदीए, गुरुने धरी बहुप्रेम;
 ज्ञान चरण आनंद गुण, प्रगटे योगने क्षेम.
 ॥ २ ॥ सात्विक वंदन श्रेष्ठ छे, मोहनी करे
 चकचूर; वंदक वंद्यपणुं वरे, सुख पामे भर-
 पूर ॥ ३ ॥

संभव जिनवर वीनति. अवधारो गुण

ज्ञातारे-ए राग.

प्रभु महावीर वंदना, द्रव्यने जावथो होशोरे;
 मारे एक तुं शरण छे, त्हारो एक भरोंसोरे. प्रभु०
 ॥ १ ॥ वन्दन आवश्यक क्रियां, केवल ज्ञाने
 प्रकाशीरे; देवगुरुने वंदतां, नासे सकल उदासीरे.
 प्रभु० ॥ २ ॥ सातनये छे वंदना, चार निक्षेपे
 धारोरे; शुद्धोपयोगे घटविषे, प्रगटे छे उजिया-
 रोरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ श्रद्धा प्रीति उल्लासथी, विन-
 यने बहुमानेरे; गुर्वादिकने वंदतां; भक्तो शोत्रे

(१५९)

ज्ञानेरे. प्रभु० ॥४॥ एकवार जो भावथी, प्रभुने वंदन
थावेरे; तो क्षणमां घाती हणी, केवलघट प्रगटावेरे.
प्रभु० ॥५॥ प्रभु महावीरमय वनी, आतम महावीर
जाणोरे, शुद्धोपयोगे वंदतां, आतम केवल ज्ञानीरे.
प्रभु० ॥६॥ अरिहंतादिक वंदना, आतम प्रति ते
होवेरे; आपो आपने वंदना, आपो आपने जोवेरे.
प्रभु० ॥ ७ ॥ व्यवहार निश्चय पूज्यने, पूर्ण
प्रेमे वधावोरे; गीतार्थादिक संतने, वंदन करी ल्यो
ल्हावोरे. प्रभु० ॥ ८ ॥ रोमराजी विकसे घणी,
हैडे हर्ष न मावेरे; आनंद अश्रु आंखमां, गद
गद वाणी सुहावेरे. प्रभु० ॥ ९ ॥ पूज्यथी एक
स्वरूपता, आनंदोदधि प्रगटेरे; ध्येय ध्यातानी
एकता, धातां कर्मो विघटेरे. प्रभु० ॥ १० ॥
एकवार महावीरने, अमृत वंदन थावेरे बुद्धि-
सागर आतमा, सहजानंदने थावेरे. प्रभु० ॥११॥

ॐ ०५० वन्दन क्रियालाजाय ज० य० स्वाहा.

(१६०)

षष्ठी ध्यान क्रिया.

आत्म शुद्धि जेथी थती, ते छे उज्वल
 ध्यान; धर्म शुक्ल बे ध्यानथी, प्रगटे केवलज्ञान.
 ॥ १ ॥ मनथी ध्यान क्रिया थती, ध्यानथी कर्म
 विनाश; कर्म विनाशथी मुक्ति छे, मुक्ति अनंत
 सुखवास. ॥ २ ॥ पिंरुस्थादिक ध्यानथी, अक्रिय
 थावो जव्य; रागद्वेषादिक विना, अक्रियता कर्त-
 व्य. ॥ ३ ॥

ध्यान क्रिया मनमां आणीजे. ए-राग.

ध्यान करो भवी भाव धरीने, प्रजु महावीर
 प्रकाशेरे; अरिहंत आदि ध्यान धरंतां, गुण पर्याय
 विकासरे. ध्यान० ॥ १ ॥ ध्याता ध्येयने ध्याननी
 एकता, योगे पूर्ण समाधिरे; नामने रूपनो मोह
 रहे नहीं, विघटे उपाधि आधिरे. ध्यान० ॥ २ ॥
 शुद्धोपयोगे प्रभु महावीर, रंगरसे जे रसियोरे;
 क्षण क्षण प्रभुरसरंगे रीझै, चढता जावे उल्लसि-

(१६१)

यारे. ध्यान० ॥ ३ ॥ कर्म करे पण अक्रिय आतम,
 शुद्धोपयोगे रसियोरे; पर परिणतिने दूर करीने,
 निज आतममां वसियोरे. ध्यान० ॥ ४ ॥ पिंडस्था-
 दिक चार प्रकारे, ध्याने आत्मखुमारीरे; घटमां
 प्रगटे स्वाद न उतरे, ध्यानीनी वलिहारीरे. ध्यान०
 ॥ ४ ॥ क्षण क्षण ध्यानीने छे महोत्सव, आनंदनी
 वहे हेलीरे; जीवन्मुक्ति प्रभुमय जीवन, करतो नि-
 जगुण केलिरे. ध्यान० ॥ ६ ॥ बाहिर अंतर सर्व-
 मयी ते, सर्वथकी ते न्यारोरे; कर्ता अकर्ता योगी
 अयोगी, जोगी अजोगी धारोरे. ध्यान० ॥ ७ ॥
 जलपंकजवत् निर्लेपज्ञानी, आतममां मस्तानीरे;
 रहे दशा नहीं प्रगटी छानी, अनुभव ज्ञाननी वा-
 णीरे. ध्यान० ॥ ८ ॥ अंतरमां मन राखी वर्ते,
 होय न लेश उदासीरे; कर्मविपाके सुख दुःख
 वेदे, आत्मानंद विलासीरे. ध्यान० ॥ ९ ॥ श्रुत-
 ज्ञाने ध्यानने ध्यातां, आतम ज्ञान प्रकाशेरे; कर्म
 विपाकोदधिपर तरतो, आपोआप विलासेरे. ध्यान०

(१६२)

॥ १० ॥ आत्म लय लागी छेजेने, ते ध्यानी जय-
कारीरे; बुद्धिसागर ध्यानानुभव, प्रगटयो आनंद-
कारीरे. ध्यान. ॥ १० ॥ ॐ० ध्यानक्रिया लाजाय
जलं० य० स्वाहा ॥

सप्तमी लघुता क्रिया पूजा.

दुहा.

लघुताथी प्रभुता मळे, टळे दोष अभिमान;
बाहुबलि लघुता धरी, पाम्या केवलज्ञान. ॥ १ ॥
लघुता गुणनी वेवडी, लघुता मुक्तिद्वार; ज्वोदधि-
पर तुंबीवत्, तस्तां नरने नार. ॥ २ ॥ कर्मचार
हलको थतो, आत्म नहीं लेपाय; लघुता पूजाथी
प्रभु, पूजंतां सुख थाय. ॥ ३ ॥

उत्तम फल पूजा कीजे, मुनिने दान सदा दीजे.

ए राग.

वीर प्रभु पूजो ध्यावो, सेवक बनो लेवो
ल्हावो; लघुताए प्रभुने जावोरे, प्रभु उपदेशे मन-

(१६३)

खावो. लघुताए प्रभुता पावोरे. लघुण ॥ १ ॥ आठ
 प्रकारे मद त्यागो, देहाध्यास तजी जागो; शुद्धा-
 तम जावे लागोरे, लघुताण ॥ २ ॥ सेवक ते स्वामी
 थावे, ए अनुक्रम ज्ञानी पावे; मानदशा मन नहीं
 लावेरे. लघुता० ॥ ३ ॥ जडपुद्गलमदमां मुंझे,
 तेने प्रभु दिल नहीं सूजे, आत्मप्रभुने शुं पूजेरे.
 लघुता० ॥ ४ ॥ रस ऋद्धि गारव पडिया, शातागा-
 रवे लडथडिया, जीवोने प्रभु नहीं जडियारे. लघुता०
 ॥ ५ ॥ इन्द्रादिकपदवी सर्वे, रहेवुं नहीं तेहना गर्वे;
 प्रभु मळता नहि मन भमैरे. लघुता० ॥ ६ ॥ गुरुता
 लघुता जरुमाया, मोहदशाना परुछाया, अगुरु लघु
 आतमरायारे. ॥ लघुता० ॥७॥ अगुरु लघु गुण उप-
 योगी, षट्कारक आतमयोगी, थातां न मोहे संयो-
 गीरे. लघुता. ॥ ८ ॥ यावत् जरुगुरुता आवे, तावत्
 लघुताना जावे, रहेशो अगुरुलघु दावेरे. लघुता०
 ॥ ९ ॥ दीनभाव लघुता छंडो, आत्मप्रभुता रढ
 मंडो, ठंफो मानतणो झंडोरे. लघुता० ॥ १० ॥

(१६४)

सापेक्षे लघुता समजो, मान अहंवृत्ति दमशो, बुद्धि-
सागर दिल रमशोरे. लघुता० ॥ ११ ॥

ॐ० लघुता लाभार्थं ज० य० स्वाहा ॥

अष्टमो एकता क्रियापूजा.

वीर प्रभुथी एकता, भावो नरने नार; अक्य
करी प्रभु साथमां, लहो जवोदधिपार. ॥१॥ संग्रह
नय सत्तावने, सर्व जीवो छे एक; आतम सत्ता
ध्यावतां, प्रगटे व्यक्ति विवेक. ॥ २ ॥ जरुथी
न्यारो आतमा, गुणपर्यायाधार; एकता जावे भावतां,
कर्म रहे न लगार.

मेरुशिखर न्हवरावे हो सुरपति मेरुशिखर न्हवरावे.

ए राग.

आतम एकता ध्यावो हो, जविजन!!! आतम
एकता ध्यावो; प्रभुमां लयलीन थावोहो, जविजन!
आतम एकता ध्यावो॥ एकता भावना जावो विवेके,
नय सापेक्ष प्रमाणे; द्रव्यार्थिकथी एकता ध्यातां,

(१६५)

निर्विकल्पता जाणे हो. ऋविजन० ॥ १ ॥ गुणपर्याये
 अनेकता आतम,—मांही समावे ध्याने; राग रीस
 रूप मनकुं मरेने, शोत्रे केवलज्ञाने हो. भविजन०
 ॥ २ ॥ ज्ञाताज्ञेयने ध्याताध्येयनी, एकता अनुभव
 थातां; पूरण आत्म प्रतीति प्रगटे. कर्मों सकल दूर
 जातां हो. भविजन० ॥ ३ ॥ सत्ताए महावीर
 प्रभुनी, साथे एकता ताने; रहेतां आतम आनंद
 स्वादो, अनुभव अनुजवी जाणे हो. भविजन०
 ॥ ४ ॥ रागद्वेषनुं द्वैत टळ्याथी, निज गुण पर्याय
 योगे; आतम एकता थावे नक्की, रहे न भिन्नता
 भोगे हो. भविजन० ॥ ५ ॥ जड द्रव्योना गुण
 पर्यायो, तेथी आतम न्यारो; आपोआप स्वभावे
 खेले, एकता एह विचारो हो. ऋविजन० ॥ ६ ॥
 अनंत ज्ञानानन्दथी आतम, एक स्वरूप सुहायो;
 गुणगुणीनी एकता एवी, लीनता आनंद थायो
 हो. ऋविजन० ॥ ७ ॥ आदि अंत न आतम एवो,
 भावो ध्यावो गावो; परमातम महावीर प्रभुथी,

(१६६)

एकमेक थइ जावो हो. भविजन० ॥ ८ ॥ एकलो आव्यो एकलो जाशे, कोइ न साथे जाशे; प्रभु महावीर जिन उपदेशे, चेते ते सुख पाशेहो. भविजन० ॥ ९ ॥ तत्त्वमसिसोऽहं पदध्याने, अकता अनुभव आवे; बुद्धिसागर आत्ममहावीर, आपोआप सुहावेहो. भविजन० ॥ १० ॥ ॐ एकता लाभार्थे ज० य० स्वाहा ॥

नवमी समताक्रिया पूजा.

समताथी पूजो प्रभु, विभुमहावीर जिनेश;
ज्यां समता प्रगटी खरी, त्यां नहि रागने द्वेष. ॥१॥
सकल साधना सिद्धता, समता प्रगटे थाय; क्षा-
यिक समता प्रगटतां, बाकी न कार्य रहाय. ॥ २ ॥
आत्म ते परमात्मा, समभावे प्रगटाय; आपो आ-
पनी पूजना, अकता अनुभव पाय. ॥ ३ ॥

मेतारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार.

ए राग.

समतारस सागर प्रभुजी, वीर जिनेश्वर देव;

(१६७)

समभावे प्रभु सेवतांजी, नासे कर्म कुटेव.
महावीर जिनेश्वर, धन्य धन्य तुम उपदेश,
॥ १ ॥ जडचेतनमय विश्वमांजी, समभावे
उपयोग; विषमपणुं प्रगटे नहींजो, समता
आनंद जोग. महावीर० ॥ २ ॥ खंधक शिष्यो
पांचशेजी, प्राणांते समभाव, मोहने मार्यो छेवटेजी,
धन्य अे समता दाव. महावीर० ॥ ३ ॥ मुनि
मेतार्ये समपणुंजी, धार्युं छंडयो देह, शुभाशुभ
बुद्धि विनाजी, पाम्यां मुक्तिगेह. महावीर० ॥
॥ ४ ॥ समता भावने आदर्योंजी, गज सुकुमाल
मुनीश, देहनी ममता परिहरीजी, सोमिलपर नहि
रीस. महावीर० ॥ ५ ॥ अन्य तीर्थियो पण
लहेजी, समता जावेरे मुक्ति, समता ते पाम्या प-
छीजी, नहीं तप किरिया रीति. महावीर०
॥ ६ ॥ दर्शन ज्ञान चरण सकलजी, समतामांही
सुहाय, समता प्रगटे सिद्धताजी, अेक पलकमां
थाय. महावीर० ॥ ७ ॥ काने खोला मारि-

(१६८)

काजी, पगपर रांधीरेखीर; तो पण समभावे रह्याजी,
 परमेश्वर महावीर, महावीर० ॥ ८ ॥ पार्श्व
 प्रभु समता धरीजी, कमठे कीधोरे रोष; नासापर
 जल आवियुंजो, तोपण रोष न तोष. महावीर०
 ॥ ९ ॥ वृत्ति शुचाशुभ नहीं रहेजी, प्रगटे केवल-
 ज्ञान; आपोआप प्रभु विभुजी, चिदानंद भगवान्.
 महावीर० ॥ १० ॥ ग्रहण त्याग इच्छा नहींजो,
 वर्ते पूर्व प्रयोग, समभावे शुद्धातमाजी, चिदानंद
 गुणभोग. महावीर० ॥ ११ ॥ शुभाशुच वृत्ति
 विनाजी, कर्म निकाचित जोग; जोगवतां तनु वर्त-
 तांजी, केवळ ज्ञानजो योग. महावीर० ॥ १२ ॥
 हर्षशोक सुखदुःखमांजी, समता भावेरे वर्त;
 बुद्धिसागर आत्ममांजी, अनंत आनंद शर्त.
 महावीर० ॥ १३ ॥

कलश-गीत.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो.
 नवविध किरिया भक्तिथी पूज्यो, आतम अनु-

(१६९)

भव पायो; एकता लीनता समतायोगे, सहज स्व-
 ज्ञावे सुहायोरे. महावीर ॥ १ ॥ श्रद्धाप्रीति पूजन
 अर्चन, स्पर्शनज्ञाव लहायो; दास्यने सख्यने आ-
 तमअैक्ये, अमृत किरियाए छायोरे. महावीर ॥ २ ॥
 नवधाभक्ति सापेक्षाए, अनेकभेदे ध्यायो; अज्ञेदज्ञावे
 अद्वैतभक्ति, करतां सुख प्रगटायोरे. महावीर ॥ ३ ॥
 सम्यग्दृष्टिए भक्तिनां अंगो, ग्रहीने सापेक्षभावे;
 आत्मशुद्धि करीए रंगे, सहेजे आत्मस्वज्ञावेरे.
 महावीर ॥ ४ ॥ भक्तिना तानमां भेद न भासे,
 आत्मज्ञाने प्रकाशे; नवविध किरिया अक्रियपदने,
 आपे परमोद्धासेरे. महावीर ॥ ५ ॥ अन्यो अन्यने
 विषगरलथी, विश्वभ्रमणता थावे; तद्धेतु अमृत
 किरिया योगे, परमानंद सुहावेरे. महावीर ॥ ६ ॥
 म्हारे तो गुरुकृपा पसाये, अमृत आनंद आयो;
 आपोआप स्वरूप सुहायो, अक्रिय अनुज्ञव पायोरे.
 महावीर ॥ ७ ॥ ओगणिश अठोत्तरनी साले, ज्ञान
 पंचमी शुक्रवारे; नवधा किरिया पूजा रचो शुभ,

(१७०)

ऋष्य जीवोने तारेरे. महावीर० ॥ ८ ॥ सानंद सं-
 घनी शुभ भक्तिअे, कर्तुं चोमासुं जावे; पूजा रचंतां
 अनुभव आनंद, प्रगटयो भक्ति प्रजावेरे. महावीर०
 ॥ ९ ॥ शासन नायक वीर जिनेश्वर, श्वेतांबर मुनि
 राजा; तपगच्छ जगगुरु हीर विजय सूरि, संयमी गुण
 शिरताजारे. महावीर० ॥ १० ॥ पट्टपरंपरा श्री नेमि-
 सागर, रविसागर गुरुराया; श्रीसुखसागर समता
 दरिया, संवेगी शिरसुहायारे. महावीर० ॥ ११ ॥
 गुरु कृपाअे पूजा रची शुज, संघ सकल हितकारी;
 बुद्धिसागर मंगल माला, आनंदघन अवतारीरे.
 महावीर०॥१२॥ ॐ समता लाभार्थं ज० य० स्वाहा॥



(१७१)

अष्टकर्मसूदनार्थं अष्ट प्रकारी पूजा.

परमेश्वर महावीर जिन, तीर्थकर जगदेव;
परमप्रभु परमात्मा, भावे करीये सेव. ॥ १ ॥ अष्ट
कर्मना नाशहेत, पूजा अष्ट प्रकार; रचतां गुण अठ
संपजे, प्रगटे शांति अपार. ॥ २ ॥ ते माटे पूजा
रचुं, संक्षेपे हितकार; प्रभु महावीर देशना, अनु-
सारे सुखकार. ॥ ३ ॥

प्रथम ज्ञानावरणीयसूदनार्थं जलपूजा.

न्हवणनी पूजारे निर्मल आतमारे, ए राग.

न्हवणनी पूजारे ऋवि भावे करोरे, प्रभु महा-
वीरनी सत्य; ज्ञानविना अज्ञाने प्राणियारे, करता
आस्रव कृत्य. न्हवण० ॥ १ ॥ ज्ञानावरणे ज्ञान न
संपजेरे, भवमां भमवुं थाय; ज्ञानावरणनी पांच प्रकृ-
तिछेरे, ज्ञानाच्छादन न्याय. न्हवण० ॥ २ ॥ क्षयो-
पशमने क्षायिक जावथीरे, ज्ञानावरण विनाश; मति
श्रुत अवधि मनपर्यव अनेरे; प्रगटे केवल खास-

(१७२)

न्हवण० ॥ ३ ॥ मति अट्टावीश भेदेछे तथारे,
 त्रणशे चालीश भेद; श्रुतछे चउद अने वीश भेद-
 थीरे, प्रगटे नासे खेद. न्हवण० ॥ ४ ॥ असंख्य
 प्रकारे अवधिज्ञानछेरे, मनपर्यव वे जेद; केवल
 ज्ञान ते एक प्रकारछेरे, प्रगटेछे निर्वेद. न्हवण०
 ॥ ५ ॥ ज्ञानावरणी ज्ञानने रोधतुरे, तेनो नाश
 जो थाय; तो प्रगटेछे ज्ञान प्रकाशतारे, नहि अज्ञान
 रहाय. न्हवण० ॥ ६ ॥ ज्ञानने ज्ञानी सेवा त्रक्ति-
 थीरे, वसतां गुरुकुल वास; ज्ञानावरणी कर्म विना-
 श छेरे, टळतां मोह विलास. न्हवण० ॥ ७ ॥ ज्ञा-
 नीनी निंदा आशातनारे; तजजो नरने नार; श्रुत-
 ज्ञानी गुरुना भक्तो बनोरे, प्रगटे ज्ञान उदार. न्हवण०
 ॥ ८ ॥ त्रणो भणवो श्रुतने त्रविजनारे, अनुभो-
 दो द्यो दान; बुद्धिसागर आत्म शुद्धतारे, प्रगटे
 केवल ज्ञान. न्हवण० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० ज्ञान वरण सूदनार्थं ज० य० स्वाहा॥

(१७३)

द्वितीया दर्शनावरणीयकर्मसूदनार्थं जलपूजा

दर्शनावरण हठाववा, चंदनपूजा सार; दर्शनावरणनी प्रकृति, नव कोजे परिहार. ॥ १ ॥ चक्षुश्चादि चारणां, आवरणो छे चार; पांचे निद्रा त्यागतां, दर्शन गुण जयकार. ॥ २ ॥ देवगुरुने धर्मनी, आशातनथी कर्म, बंधातां ते जाणीने; सेवो जिनवर धर्म. ॥ ३ ॥

सांज्ञळशो मुनि संयम रागे-ए राग.

चंदनपूजाए प्रभु चर्चो, निजआतमने अर्चोरे; दूर करो झट कर्मनो फडचो; राखो न भेदनो कर्चो रे. चंदन ॥ १ ॥ दर्शनावरणना क्षयोपशमथी, क्षायिकथी गुण प्रगटेरे; चक्षु अचक्षु अवधि केवल, दर्शनथी दुःख विघटेरे. चंदन ॥ २ ॥ दर्शननुं आवर्ण करे ते, दर्शनावरणी जाणोरे; दर्शनावरणने हणवा माटे, सेवाभक्ति प्रमाणोरे. चंदन ॥ ३ ॥ गुरुनो श्रद्धा प्रीतियोगे; आशातनने वियोगेरे; सद्गुण गणना पूर्णप्रयोगे, वर्ते न हर्षे शोकेरे. चंदन ॥ ४ ॥

(१७४)

दर्शनावरण टळे छे क्षणमां, ज्ञानने ध्यानाच्यासेरे;
 समताजावे कर्म करंतां, दर्शनशक्ति प्रकाशेरे. चंदन
 ॥ ५ ॥ पांच प्रकारनी निद्राक्षयथी, दर्शनगुण झट
 प्रगटेरे; आतमदर्शन अनुभव आवे, मिथ्याबुद्धि
 विघटेरे. चंदन ॥ ६ ॥ चंदनसम दर्शन शीतलता,
 जावे आतम पूजोरे; निंदा विकथा परपरिणतिथी,
 मनमां लेश न मुंझोरे. चंदन ॥ ७ ॥ जिनवर पूजा
 ते निजपूजा, शुद्धातम उपयोगेरे; केवलज्ञानने के-
 वलदर्शन, प्रगटे निजगुण जोगेरे. चंदन ॥ ८ ॥
 दर्शनावरणीय कर्मने हणवा, स्थिर उपयोगे रहेशोरे;
 बुद्धिसागर आनंदमंगल, परम प्रभुता लेशोरे.
 चंदन ॥ ९ ॥

ॐ० प० दर्शना वरणीय कर्म सूदनार्थं चंदनं० य० स्वाहा॥

तृतीयवेदनीय कर्म सूदनार्थं पुष्प पूजा.

शाताअशाता वेदनी, सुखदुःख फलदातार;
 सुखदुःख वेदे सर्व जीव, लक्षचोराशी मझार, ॥१॥
 सुखदुःख मोहथी वेदतां, थातो कर्मनो बंध; सुख

(१७५)

दुःखमां समभावथी, आतमछे निबर्धे ॥ २ ॥ आतम
सुखनं वेदवा, पुष्पे पूजो राज; आत्ममहावीर
प्रगटतां, सफळां सर्वे काज. ॥ ३ ॥



इडर आंवा आंबलीरे. ए राग.

पूजो प्रभु महावीरनेरे, जेणे जणाव्यो धर्म;
पुष्पमाल प्रभु कंठमांरे, स्थापंतां शिवशमरे. भवि-
जन. पूजो महावीर देव, फळती प्रभुनी सेवरे, भवि-
जन!!! पूजो० ॥ १ ॥ शाताअशाता वेदतांरे, समभाव
पुष्पनी माळ, धारंतां प्रभु कंठमांरे, रहे न मोहनी
जाळरे. भविजन पूजो० ॥ २ ॥ छाया ताप परे आ-
वतुंरे, सुखदुःख वाराफेर; पुण्यपापकर्मे फळरे, करो
न राग न वैररे. भविजन ! पूजो महावीर देव० ॥ ३ ॥
सुखदुःख वेदे समपणरे, अधिकारे करे काज; सहज
समाधि ते योगछेरे, प्रगटे शिव साम्राज्यरे. भवि०
पूजो० ॥ ४ ॥ शुद्धोपयोगे वर्ततांरे, वर्णादिक करे
कर्म; बाहिर व्यवहार साधतांरे, वर्ते आतम धर्मरे.
भवि. पूजो० ॥ ५ ॥ बाहिर वर्ते बाह्यमांरे, अंतरमां

(१७६)

उपयोग; निर्वध आत्म वर्ततारे, जोगवतो सह
 जोगरे. जवि० पूजो० ॥ ६ ॥ सुखदुःख वेदनी जोग-
 मारे, धरे न सुखदुःख बुद्धि; आत्ममां सुख अनु-
 जवेरे, प्रगटे सिद्धनी ऋद्धिरे. जवि० पूजो० ॥ ७ ॥
 सुख आवे हर्षे नहींरे, दुःख प्रगटे नहीं शोक; सुख
 दुःख बुद्धि न भोगमारे, तेने पूरण योगरे. भविजन
 पूजो० ॥ ८ ॥ कर्म निकाचित प्रगटतारे, सुखदुःख
 जोगवेरे जोग; जोगी अजोगी अंतरविषेरे, योगे वर्ते
 अयोगरे. जविजन! पूजो० ॥ ९ ॥ चक्री इन्द्रादिक
 भोगमारे, रहे न सुखनी वृत्ति; आत्म सुख अनु-
 जव थतारे, जीवतां निर्वृत्तिरे. भविजन! पूजो०
 ॥ १० ॥ प्रभु महावीर देवनोरे, अवे ठे उपदेश;
 बुद्धिसागर आत्मारे, आनंदरूप हमेशरे. जविजन!
 पूजो० ॥ ११ ॥

ॐ० प० वेदनीय कर्म सूदनार्थं पुष्पं य० स्वाहा ॥



(१७७)

चतुर्थ मोहनीयकर्मसूदनार्थं धूपपूजा.

दर्शनचारित्र मोहनी, सर्वकर्म शिरदार; मोह
टले कर्मों सकल, विणसंतां निर्धार. ॥ १ ॥ मोह
तणा परिणामथी, आठकर्म बंधाय; निर्मोही आतम
पणे, शुद्धातम प्रगटाय. ॥ २ ॥ ध्यानधूप प्रज्जु आ-
गळे, करतां नहि दुर्गंध; आतम आत्मपणे रमे,
आतम वर्ते अबंध. ॥ ३ ॥

दशमे देशावगाशिकेरे, चउद नियम संखेव—ए राग
धन्य महावीर जगधणीरे, केवलज्ञानी देव;
आतमध्यानना धूपथीरे, साधुं ताह्यरो सेव हो.
जिनवर० आतमसुखने आपशोरे, रोमे रोमे व्या-
पशोरे; ताह्यरो रहो उपयोग. ॥ १ ॥ दर्शन मोहनी
नाशथीरे, प्रगटे समकित धर्म; चारित्र मोहनी ना-
शथीरे, प्रगटे आतमशर्म हो. जिनवर॥ आतम ॥ २ ॥
अठावीश मोह प्रकृतिरे, क्षयोपशम तस होय; उप-
शम क्षायिकभावथीरे, शुद्ध परिणति जोय हो.

(१७८)

जिनवर॥ आतम. ॥ ३ ॥ सकल कर्ममां मोहनुरे,
 अनंतगणुं छे जोर; मोह टळे बीजां टळेरे, नासे छे
 जेम चोर हो. जिनवर. आतम. ॥ ४ ॥ निर्मोहभावे
 वर्तवुरे, आतमधर्म छे एह; आतम शुद्धोपयोगथीरे,
 रहे न मोहनीरेह हो. जिनवर. आतम० ॥ ५ ॥ अत्र-
 ततजी व्रत आदरोरे, धारो संवर भाव, निर्जराहेतु
 आदरोरे, आतमशुद्धि दावहो. जिनवर० आतम०
 ॥ ६ ॥ आतमज्ञानने पामतांरे, प्रगटेछे वैराग्य;
 आतमना उपयोगथीरे, वर्ते सहेजे त्यागहो. जिन-
 वर० आतम० ॥ ७ ॥ जिनआगम गुरु संगतिरे,
 करतां संतनो संग; निर्मोहभावे आतमारे, परिण-
 मतो जिनरंगहो. जिनवर० आतम० ॥८॥ देवगुरुने
 धर्मनेरे, आराधे मोह जाय: रवि उगे परभातमांरे,
 तम तो दूर पलायहो० जिनवर० आतम० ॥९॥
 गृही त्यागीदशविषेरे, करतां व्यवहार कर्म; नि-
 र्मोहे नहीं कर्मछेरे, प्रगटे मुक्ति शर्महो. जिनवर०
 आतम० ॥ १० ॥ ज्ञानक्रियाथी मोहनोरे, क्षय क्षण-

(१७९)

सांहे थाय; नामरूपनिर्मोहथीरे, केवल ज्ञान सुहा-
 यहो. जिनवर० आतम० ॥११॥ आतम आतमने
 दियेरे, प्रभु भक्ते निज मुक्ति; बुद्धिसागर आत्म-
 नारे, उपयोगे नहि भोतिहो. जिनवर० आ० ॥१२॥
 ॐ० प० मोहनीय कर्मसूदनार्थं धूपं य० स्वाहा ॥

पंचम आयुःकर्मसूदनार्थं दीपपूजा.

सुरनर तिर्यच नरकनुं, आयुः चार प्रकार; चार
 गतिमां आयुथी, तनु स्थितिठे निर्धार. ॥ १ ॥
 चारगतिमां आयुथी, बंधावानुं थाय; अनंतजीवन
 पामतां, आयु बंधन जाय. ॥ २ ॥ ज्ञानदीप प्रगटा-
 वीने, पूजो प्रभु जिनराज; अनंत शाश्वत जीवनने,
 पामो सिद्धे काज. ॥ ३ ॥

मल्लिजिननाथजी व्रतलीजेरे ए राग.

प्रभु महावीरपर धरो प्रीतिरे, टाळो दुष्टाचार
 अनीति. प्रजु० द्रव्य दीपक धरी भाव दीवोरे, प्रग-
 टावी अनंतुं जीवोरे; प्रभु वचनामृतने पोवो. प्रभु०

(१८०)

॥ १ ॥ पुण्ययोगे सुरनर आयरे, प्रायः तिर्यच आयु
 वंधायरे, पापे नरकतिरि गति थाय. प्रभु० ॥ २ ॥
 आयुः कर्मतणीए मायारे, जेवा पाणीमां पडठायारे;
 ज्ञानी जक्तो नहीं मुंझाया. प्रभु० ॥ ३ ॥ स्थिति
 अनंत पामीने ठरवुंरे, पठी जन्म मरण नहि कर-
 वुंरे; एवुं शुद्धातम पद वरवुं. प्रभु० ॥ ४ ॥ मोह
 योगेछे आयुष्य बंधरे, निर्मोहे वर्ते अबंधरे; परभा-
 वनी होय न गंध. प्रभु० ॥ ५ ॥ पूर्व कर्म निका-
 शित जोगोरे, तेवा मळता सर्व संयोगोरे; वर्ते अंत-
 रमां योगो. प्रभु० ॥ ६ ॥ ज्ञानीने जे आस्रव कर्मोरे,
 परीणमे ते संवर धर्मोरे; टळे ज्ञाने मिथ्याभर्मो.
 प्रभु० ॥ ७ ॥ श्रुत दीपकथी प्रभु पूजेरे, शुद्धआत्म
 स्वरूप झट सूजेरे; पामी आतम मन नहीं मुंझे.
 ॥ ८ ॥ शुद्ध आत्मस्वरूपना रसियारे, गति छतां न
 गतिमांहि वसियारे; कर्मयोगी अकर्म उल्लसिया.
 प्रभु० ॥ ९ ॥ गति आयुछे बंदिखानुंरे, तनु हेड-
 समुं न मझानुंरे; त्यांतो ज्ञानीने रुचे शानुं ? प्रभु०

(१८१)

॥ १० ॥ मनुजवमां थायछे मुक्तिरे, ज्ञान वैराग्य
 व्रत धरो नीतिरे; टळे सर्व प्रकारनी चीति. प्रभु०
 ॥११॥ एवी प्रभुमहावीरनी वाणीरे, ज्ञानवैराग्यथी दिल
 आणीरे; प्रभुपूजा करो गुणखाणी. प्रभु० ॥ १२ ॥
 ज्ञानानन्द अनंतपद वरवारे, जवपाथोधि वेगे तर-
 वारे; बुद्धिसागर गुरु अनुसरवा. प्रभु० ॥ १३ ॥
 ॐ० प० आयुः कर्म सूदनार्थं दीपं य० स्वाहा ॥

षष्टनाम कर्म सूदनार्थं अक्षत पूजा.

नामकर्मनी प्रकृति, एकसोत्रण ठे सर्व; देहा-
 दिकमां मोह वा, करवो नहि कंइ गर्व. ॥ १ ॥ नाम
 कर्मना क्षयथकी, अरूपपद प्रगटाय; रूपीपणुं नहि
 आत्मनुं, रूपादिक जडमांछ. ॥ २ ॥ अक्षयरूप
 छे आत्मा, अक्षत करवा हेत; व्यवहारे अक्षतथकी,
 प्रभु पूजा संकेत. ॥ ३ ॥

सनेही संत एगिरि सेवो. चउदभुवनमां

तीर्थ न एवो.—ए राग.

प्रभु महावीरजी जयकारी; पूजो अक्षतथो

(१८२)

सुखकारी. प्रभु ॥ प्रकृतिरस स्थिति प्रदेश, चारेभेदे
 बंध न लेश; सत्ता उदीरणा नहीं कलेश, टाळया
 राग अने मन द्वेष. प्रभु० ॥ १ ॥ टाळया कर्मवि-
 पाको सर्वे, रही शुक्लध्याने अगर्वे; रह्या नहीं
 परपुद्गल भर्मे, मुंड्या नहि मिथ्याजडशर्मे. प्रभु०
 ॥ २ ॥ नामरूपमां निर्मोह जावे, रहे जे कोइ सा-
 क्षीना भावे; नाम कर्मथी नूटो थावे, शुद्ध अरूपपद
 निज पावे. प्रभु० ॥ ३ ॥ नाम कर्म प्रारब्धना भोगो,
 अनासक्तिए वर्ते योगो; थाय नहीं कंइ हर्ष न
 शोको, थाय विषम न प्रकटे रोगो. प्रभु० ॥ ४ ॥
 थतां केवल नाम रहेछे, आयु पर्यंत तेह वहेछे;
 समजावे ज्ञानी सहेछे, शुद्ध आत्मरमणता चहेछे.
 प्रभु० ॥ ५ ॥ प्रभु सरखा थावा माटे, वळो केवल
 ज्ञानीनी वाटे; माल वेचायछे गुरु हाटे, लेजो स्वा-
 र्पण करी शिरसाटे. प्रभु० ॥ ६ ॥ नामरूप अध्या-
 सने त्यागो, शुद्ध आत्म भावे जागो; त्याग ग्रह-
 णमां मनथी न लागो, मोहजावथी दूरे जागो. प्रभु०

(१८३)

॥ ७ ॥ नामकर्म अघातीढे जाणो, ज्ञान प्रगटे अ-
 बंध प्रमाणो; निर्मोही आतमराणो, निजगुणथी
 खेले मझानो. प्रभु० ॥ ८ ॥ नाम कर्मने परोपकारे,
 वापरो जैन धर्म प्रचारे; वापरे ते धर्म न हारे, करो
 कर्तव्य निज अधिकारे. प्रभु० ॥ ९ ॥ एत्री वीर
 प्रभुनी वाणी, सर्व नयथी यथातथ्य जाणी; श्रद्धा
 प्रीतिए मनमां आणी, कर्म तलने पीलवा घाणी.
 प्रभु० ॥ १० ॥ नामरूपमां नहीं मुंझाशो, शुद्ध उप-
 योगथी सुख पाशो; बुद्धिसागर दिल हरखाशो, चि-
 दानंद स्वरूप प्रकाशो. प्रभु० ॥ ११ ॥

ॐ० प० नाम कर्म नाशार्थ अक्षतं य० स्वाहा ॥

सप्तमी गोत्रकर्मसूदनार्थ नैवेद्यपूजा,

उच्च नीच व्यवहारथो, निश्चयथी नहीं कोय;
 उच्चनीच जडमोहथी, आत्मस्वरूपे न जोय. ॥१॥
 उच्चने नीच बे गोत्रछे, यश अपयश करनार; मान
 अने अपमानना, हेतुछे व्यवहार. ॥ २ ॥ प्रभु महा-

(१८४)

वीर बोधथी, उच्च नीच बे भेद; बेमां समजावे रहे,
 ज्ञानीने निर्वेद. ॥ ३ ॥ उच्च नीच बे प्रकृति, तेमां
 निर्मोह हेत; नैवेद्य पूजानो भलो, द्रव्यजाव
 संकेत. ॥ ४ ॥

प्रभु प्रतिमा पूजीने पोसह करीए.—ए राग.

महावीर जिनवर पूजीने गुण लीजेरे; उच्चने
 नीचनो भेद विसारीए. निज आतमनुं शुद्ध स्वरुप
 विचारोरे, पुद्गलनी माया जूठी धारीए, आतमछे
 सरखा मन अवधारोए, कुलादिक मदने प्रगटयो
 वारीए. ॥ १ ॥ उच्चपणाना माने हर्ष न धरोएरे,
 जातिना अभिमानेरे धर्म न हारीए; सत्ता विद्या
 लक्ष्मी आदि मोहेरे, भूलंतां भानरे निज नहि ता-
 रीए. आतम० ॥ २ ॥ कर्मनी माया पाणीना पड-
 ढायारे, उंचने नीचना भेद नहीं खरा; समज्या ते
 मुंझाया नहि भरमायारे, पाम्यारे आनंद अमृतना
 झरा. आतम० ॥ ३ ॥ चडती पडती उच्च नीच
 अवतारोरे, संसारे एह अवस्था सर्वनी; परने पोतानुं

(१८५)

मानी शुं फूलोरे, छाजे नहि कोइ अवस्था गर्वनी.
 आतम० ॥ ४ ॥ आठमदे भरिया जीव दुःखने वरि-
 यारे, स्वप्नानी बाजीरे जूठी जागतां; उच्चने नीच
 पणुं स्वप्नानी बाजीरे; आतमरे अगुरुल्लु घट
 लागतां. आतम० ॥ ५ ॥ कुल विद्या लक्ष्मी सत्ता
 हिणाशेरे, पामंतां हर्ष न. उद्वेगे रहो; उच्च नीचनी
 माया स्वप्ना जेवीरे, जाणीरे समभावे जीवन वहो.
 आतम० ॥ ६ ॥ मान अने अपमानने लाजाला-
 चेरे, समताने धारी. कर्तव्यो करो; योगी भक्तजीवन
 एवुं आतमनुंरे, परमात्म प्रगटावी मुक्ति वरो.
 आतम० ॥ ७ ॥ उच्चने नीचना भेदे नहि मुंझा-
 शोर, खत्तारे खाशो पडती पामशो; आतमने कदि
 नीच न मानो भव्योरे, बाहिरनी वृत्तिथकी विरामशो.
 आतम० ॥ ८ ॥ उच्चने नीचनी व्रान्ति कर्मनी दृष्टेरे,
 आतमनी दृष्टिए कशुं ठे नहीं; आतमदृष्टि जीवनथी
 संचरशोरे, परमानंद पामोरे अधिकारे वहो. आतम०
 ॥ ९ ॥ उच्चनीचना जेदे सुखदुःख वृत्तिरे, स्वप्नामां
 एछे जागंतां नहीं; कर्म अन्नथी उंचा ज्ञानी जाग्यारे,

(१८६)

स्वप्नामां जेद खेद प्रगटे सही. आतम० ॥ १० ॥
 अगुरु लघुछे आतम निजअनुभवतोरे, तेनीरे आ-
 गळ कर्म ते शुं करे; बुद्धिसागर आतम रविझळ-
 हळतोरे, केवलज्ञानज्योतेरे प्रभुपदने वरे. आतम०
 ॥ ११ ॥ ॐ प० गोत्र कर्म विनाशाय नैवेद्यं
 य० स्वाहा ॥



अष्टम अंतरायकर्म सूदनार्थ फल पूजा.

दान लाजने जोगने. वीर्य अने उपभोग; पांच
 तणां आवर्णने, हणतां निजगुण योग. ॥ १ ॥ अंत-
 राय हणवा भवी, फलथी पूजो देव; द्रव्य भावथी
 शक्तिने, पामो करी जिन सेव. ॥ २ ॥ दानादिक
 आवर्णनो, क्षयोयशम क्षय थाय, दानादिक निज
 शक्तियो, प्रगटे धर्म सुहाय. ॥ ३ ॥



वाजां वाग्यारे प्रभु दरवाररे. मोहन वाजां वागियां.

ए राग.

मुक्तिफल पामवा हेतेरे, फले प्रभु पूजोए.

(१८७)

सर्व इच्छाओं करीने निरोधरे, निजातम रीजीए;
गुणपर्यायदान निज दीजीए, चिदानंदनो लाभज
निजरे. फले॥गुणपर्याय भोगोपजोगमां, परपुद्गलनी
नही खीजरे. फले० ॥ १ ॥ शुद्ध आतमबल प्रग-
टावीए, दुष्ट टाळीए पशुबल वेगरे. फले॥मन इन्द्रि-
योमां पशुबल वसे, तेथी करीए नहिं अविवेकरे.
फले० ॥ २ ॥ लब्धि शक्तिओने प्रगटावीए, नहिं
रीजीए खीजीए बाझरे. फले. परमार्थमां तनमन
वापरो, करो विश्वमां सारां काजरे. फले० ॥ ३ ॥
जैन धर्मने संघनी उन्नति, करवामां होमशो सर्वरे,
फले० अणशक्तिए खेद न कीजीए, होय शक्ति
छतां नहि गर्वरे. फले० ॥ ४ ॥ देवगुरुने धर्मनी भ-
क्तिमां, मृत्यु थतां न हठीए लगाररे, फले. ॥ खेद
भय अने द्वेषने त्यागीए, करो परमार्थो नरनाररे.
फले० ॥ ५ ॥ समभावथी कर्मांतरायनो, क्षयोपशमे
क्षय झट थायरे, फले.॥ दानलाक्षादि वापरो जावथी,
थतां निष्काममुक्ति सुहायरे. फले० ॥ ६ ॥ जोव

(१८८)

अजीव उपकार सहजछे. एतो थाय परस्पर जाएरे.
 फले. दानादिक प्रवृत्तिनिवृत्तिमां, शुद्ध उपयोग
 दृष्टि प्रमाणरे. फले० ॥ ७ ॥ देशो तेवुंज नक्की
 पामशो, वावो तेवुं फले निर्धाररे, फले.॥ बाह्यफल
 मिष शिवफल पामवा, लहो सहज समाधि साररे.
 फले० ॥ ८ ॥ ज्ञानपरमानंद फल जीवतां, लही
 मुक्ति अनुभव थायरे. फले. सर्व कर्तव्य कर्मो कर्मा
 करो, तेथी शक्तियो प्रगटी सुहायरे. फले० ॥ ९ ॥
 शुद्ध आतम प्रभु महावीरछे, एवा निश्चयथी जाय
 दुःखरे, फले. बुद्धिसागर शुद्ध प्रभु विभु, आपो आप
 अनंतु सुखरे. फले० ॥ १० ॥

कलश ॥

गायो ध्यायोरे महावीर जिनेश्वर गायो, अष्ट-
 कर्म निषूदनहेते, अष्टधा पूजा गायोरे. महावीर०
 आतम साथे काल अनादि, कर्मबंध व्यवहारे; कर्म-
 नो कर्ता चोक्ता आतम, रागद्वेष विकारेरे. महा-
 वीर० ॥ १ ॥ बंध उदय उदीरणा सत्ता, कर्मभेद

(१८९)

व्यवहारे; प्रारब्ध संचितने क्रियमाणज, अशुद्धनय
 उपचारेरे. महावीर० ॥ २ ॥ सम्यग्ज्ञान वैराग्यन
 त्यागे, वर्ते साक्षी भावे; कर्म शुभाशुज सुखदुःख
 फळने, वेदो समता दावेरे. महावीर० ॥ ३ ॥ ज्ञान
 ध्यानथी क्षणमां मुक्ति, निर्मोह कर्म करंतां; गृही
 त्यागी निज अधिकारे, गुण कर्मे विचरंतारे. महा-
 वीर० ॥ ४ ॥ द्रव्यार्थिक शुद्धनय दृष्टिण, कर्मनो
 कर्ता न हर्ता; आतम सत्ताण निर्लेपी, बेनय समजे
 संतारे. महावीर० ॥ ५ ॥ व्यवहारने निश्चय बेन-
 यथी, सापेक्षाण जाणो; निश्चयदृष्टिना उपयोगे,
 रहीने अनुभव म्हाणोरे. महावीर० ॥ ६ ॥ पुण्य
 पाप बे भेदमां आठे, कर्मो समाश् जातां, आस्रव-
 मांही पुण्य पाप बे, अंतर्जावी थातारे. महावीर०
 ॥ ७ ॥ तमो रजो गुण स्रवनी वृत्ति, मोहनीमांही
 समाती; मोहनी जीते जीत्यां बाकी, सम्यग्दृष्टि
 सुहातीरे. महावीर० ॥ ८ ॥ रागरीस अरि जीत्या
 अरिहंत, महावीर केवल ज्ञानी; प्रभुण कर्म स्वरूप

(१९०)

प्रकाश्युं, समजे समकीर्ती ज्ञानोरे. महावीर० ॥ ९ ॥
 पुनर्बंधक नहींछे ज्ञानी, नहीं पुद्गल अभिमानी;
 अल्पबंध महानिर्जरा करतो, निर्मोहभावे ध्यानीरे.
 महावीर० ॥ १० ॥ सम्यग्ज्ञाने बळियो आतम,
 अज्ञाने बळियुंछे कर्म; कर्म निकाचित प्रारब्ध
 भोगमां, उपयोगे आतम शर्मरे. महावीर० ॥ ११ ॥
 ओगणिस अठोत्तर कार्तिक सुदि, आठम मंगल-
 वारे; पूजी रचीने आनंद पाम्यो, प्रभुदाणोना
 प्यारेरे. महावीर० ॥ १२ ॥ सानंद शहेरमां चोमासुं
 कर्युं, संघनी भक्तिछे सारी; प्रभु महावीर पट परं-
 पर, तपगच्छ जग जयकारीरे. महावीर० ॥ १३ ॥
 जगगुरु हीरविजयसूरि राजा, पट परंपर छाजे, श्री
 नेमिसागर रविसागरजी, सुखसागर गुरु गाजेरे.
 महावीर० ॥ १४ ॥ गुरु कृपाए पूजा रची शुभ,
 संघमां आनंदकारी, बुद्धिसागरसूरि मंगल, जिन-
 शासन जयकारीरे. महावीर० ॥ १५ ॥

ॐ० प० अंतराय नाशार्थं फलं य० स्वाहा ॥

(१९१)

षडावश्यकपूजा.

श्री परमेश्वर वीरजिन, चोवीशमा जिनराज;
 त्रिशलानंद जगधणी, सर्वदेव शिरताज. ॥ १ ॥
 समवसरणमां बेसीने, भाख्यो साचो धर्म; षट् आ-
 वश्यक भाखियां, गृही साधुनां कर्म. ॥ २ ॥ षट्
 आवश्यक कर्मथी, चित्तनी शुद्धि थाय. मनशु-
 द्धिथी आतमा, केवल ज्ञानने पाय. ॥ ३ ॥ सामा-
 यिक चउविश जिन, स्तव गुरुवंदन बेश; प्रतिक्रमण
 आवश्यके, नासे कर्मना कलेश. ॥ ४ ॥ कार्योत्स-
 र्गने आदरे, करतां प्रत्याख्यान; आत्मशुद्धिथी प्रग
 टतुं, सहेजे केवलज्ञान. ॥ ५ ॥ षडावश्यकनी रचुं,
 पूजा द्रव्यने भाव; जेदे उपयोगे भली, जवोदधिमा
 नाव. ॥ ६ ॥ अष्टप्रकारे पूजना, प्रत्येक पूजा दीठ;
 आत्मानुभव पामवा, ज्ञान क्रियाथी मिष्ट. ॥ ७ ॥

प्रथम सामायिक आवश्यक पूजा.

सामायिक करतां थकां, रागद्वेष विनाश; क्ष-

(१९२)

णमां केवल उद्भवै, नासे भाव उदास० ॥ १ ॥
 अनंतजीवो पामिया, समता योगे मुक्ति; समतावण
 मुक्ति नहीं, साधे कोटि युक्ति. ॥ २ ॥ सर्व धर्म
 मत पंथमां, समत्वथी छे मोक्ष; समत्वपणुं सहु ध-
 र्ममां, मुक्तिभाव परोक्ष. ॥ ३ ॥ सर्व व्रतादिक सार
 ठे, समता धारो भव्य; समत्व सामायिक भहुं, आ-
 वश्यक कर्तव्य. ॥ ४ ॥ नयव्यवहारथी बे घडी,
 आराधो नरनार; निश्चय समता हेतुछे, सेवो जवि
 सुखकार. ॥ ५ ॥ चउनिक्षेपे धारीए, सातनये ते
 जाण; द्रव्यभावथी सेवतां, प्रगटे सम्यग् ज्ञान.
 ॥ ६ ॥ समताभावठे सर्वदा, त्यागी निश्चय जाव;
 समता ते चारित्रछे, उपयोगे दिल लाव. ॥ ७ ॥

प्रभु पडिमा पूजीने पोसह करीएरे—ए राग.

समताभावे सामायिकमां रहीएरे, सामायिक
 योगे शिवसुख थायठे; समभावे रहेवाथी अनुभव
 जागेरे, स्थिरताना योगे तत्त्व जणायठे, अंतरना

(१९३)

उपयोगे धर्म ग्रहाय छे, चंचळता मननी दूरे जाय छे; वैराग्ये भाव भलो परखाय ठे, धन्य धन्यरे समताभाव सुहाय छे. अंतरण॥१॥ गुरुमुखथी सामायिक उच्चरे श्रावकरे, लाखचोराशी जीवयोनिने खमावतो; दश मनना दश वचनना द्वादश कायारे, बत्रीश दोषो टाळी आतम जावतो. अंतर० ॥ २ ॥ पिंडस्थादिक चार ध्यानने धरीएरे. वरीएरे धर्म शुक्ल बे ध्यानने; आर्त रौद्र बे ध्यान बूरां परिहरीएरे, तजोएरे माया ममता मानने. अंतर० ॥ ३ ॥ धर्मग्रंथने जणीए गणीए भावरे, विकथानी वातो लेश न कीजोए; द्रव्य गुण पर्याये वस्तु विचारीरे, वस्तु स्वभाव धर्म ग्रहीने रीझोए. अंतर० ॥ ४ ॥ स्थिर उपयोगे ध्यान समाधि वरीएरे, झळकरे ज्योति आतमरामनी; श्वासोश्वासे अजपाजापे स्मरीएरे, वाटेरे चालो अविचळ धामनी. अंतरण ॥५॥ आत्मज्ञानथी सत्य समाधि पामोरे, वामोरे रागद्वेष बे दोषने; मैत्री प्रमोद करुणा माध्यस्थ विचारोरे;

(१९४)

धारोरे निरुपाधि सुखपोषणे. अंतर० ॥ ६ ॥ नय
 निक्षेपे सामायिकने समजीरे, कोजीये सामायिक
 शिववेलकी; समतामृत भोजनथी प्रगटे शान्तिरे,
 समतानी आगेरे शुं ठे ? शेलकी. अंतर० ॥ ७ ॥
 सिद्ध समा समताथी सर्वे जीवोरे, नटकेरे कर्मथकी
 संसारमां; कर्मदोष त्यां जाणी जीव खमावोरे, सम-
 तानो ल्हावोरे मनु अवतारमां. अंतर० ॥८॥ जाग !
 जाग ! चेतन तुं सामायिकमांरे, मुंझीश नहि मुसा-
 फर मायाजाळमां; बुद्धिसागर सामायिक उपयोगेरे,
 गाळोने जीवन सहू कल्याणमां. अंतर० ॥ ९ ॥

सामायिक निज आत्मा, समता परिणतियोगेरे;
 परमानंदना जोगमां, वर्ते निज उपयोगेरे; वीर जि-
 नेश्वर जाखता, आत्म स्वजावे रहेशोरे; विषम स्वजावे
 नहीं रहो, शुद्ध परिणति वदेशोरे. वीर० ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० सामायिकार्थं जलं चंदनं
 पुष्पं धूपं दीपं अक्षतं नैवेद्यं फलं यजा-
 महे स्वाहा.

(१९५)

द्वितीया चतुर्विंशतिस्तव पूजा.

चोवीश जिनवरने नमो, वंदो पूजो भव्य, स्त-
 वो ऋक्ति बहुमानथी, ए बीजुं कर्तव्य. ॥ १ ॥
 चोवीश तीर्थकर प्रभु, वीतराग भगवंत; स्तवतां
 ध्यातां आतमा, पामे भवनो अंत. ॥ २ ॥ चंद्र समा
 निर्मल सदा, रविथी अनंत प्रकाश; एवा चोवीशठे
 विभु, ध्यातां आरमविलास. ॥ ३ ॥ सागरवत्
 गंभीर जे, सिद्ध गति दातार; प्रभुमयथै प्रभुने स्तवे,
 स्वयं प्रभु निर्धार. ॥ ४ ॥

हे सुखकारी आ संसार थकोजो मुजने उद्धरे.

ए राग.

जग उपकारी चोवीश तीर्थकर मुज मनमांही
 वस्या, प्रभु जयकारी शुद्धातम उपयोगे अंतर उ-
 द्धस्या, चोविश जिनस्तव जावे करतां, अंतरमां उप-
 योगे वरतां, घातोकर्मो वेगे खरतां, नरनारी केवल
 पद वरतां. जग० ॥ १ ॥ एकतान प्रभु साथे जागे,

(१९६)

मनडुं वर्ते प्रभुना रागे; श्रद्धा प्रीतिलय जो लागे,
मनडुं वर्ते भव वैराग्ये. जग० ॥ २ ॥ प्रभु ज्ञेय स्व-
भावे घट आवे, कर्तव्य सकल योगे थावे; आतम
निल्लेपपणुं जावे, आतम परमातम थै जावे. जग०
॥ ३ ॥ परमातमने दिलमां धारो, आविर्भावे घट
उजियारो; नहीं नामरूपनो अहंकारो, कर्तव्य करे
आवे पारो. जग० ॥ ४ ॥ चोवीश जिनवर साथे
प्रीति, तेथी नासे सघळी भीति; प्रगटे जगमां
साची नीति, प्रामाणिकता साची रीति. जग०
॥ ५ ॥ मुजध्याने ध्येयपणे आवा, मुज ज्योते हो
आविर्भावो; एकमेक स्वरूपेछे ल्हावो, परमानंदे
प्रगटे दावो. जग० ॥ ६ ॥ सर्वे जिनवर पूजा गावो,
वंदो प्रणमो प्रेमे ध्यावो; ध्येयाकारे घट प्रणमावो;
प्रभुसम निज आतम प्रकटावो. जग० ॥ ७ ॥ प्रभु
स्तवतां केवलने मुक्ति, भक्ति आवश्यकनी रीति;
प्रभु स्तवतां प्रगटे गुण नीति, आचारे रहे नहि
दुर्नीति. जग० ॥ ८ ॥ प्रभुरूपे अकैय बनी

(१९७)

भळवुं, प्रभु ज्योते ज्योतयकी मळवुं; पछी जगमां
 नहिठे अवरवुं, प्रभु प्रार्थी निश्चय पद वरवुं. जग०
 ॥ ९ ॥ प्रभु वीर बोध मनमां वसियो, चोविश जिन
 स्तवनानो रसियो; बुद्धिसागर प्रभु उडलसियो, शु-
 द्धातम जावे विकसियो, जग० ॥ १० ॥

ॐ० प० चतुर्विंशति स्तव आराधनार्थं जलं० य० स्वाहा॥



तृतीया गुरुवन्दन आवश्यक पूजा.

दुहा.

आवश्यक गुरुवन्दना, प्रतिदिन त्रण्ये काल,
 करतां ज्ञानादिक गुणो, प्रगटे मंगलमाल. ॥ १ ॥
 श्रद्धा प्रीति जावथी, गुरु वंदंतां ज्ञान; गुरुवण ज्ञान
 न थाय ठे, गुरुवण होय न सान. ॥ २ ॥ विधिपूर्वक
 गुरुवन्दना, करतां नासे कर्म; शुद्धातम घट उल्लसे,
 प्रगटे साचो धर्म. ॥ ३ ॥ गुरुदीवो गुरुदेव ठे; गुरुनो
 सत्याधार; गुरुवण मुक्ति न कोइनी, समजो नरने-
 नार. ॥ ४ ॥ वंदो पूजो सद्गुरु, प्रणमो वारंवार;
 सूरिवाचक यतिसंघनी, भक्ति रुदा फळनार. ॥ ५ ॥

(१९८)

गुरुवंदन आवश्यके, पाम्या मुक्ति अनंत; चउनि-
क्षेपे नये ज्ञाना, सेवो सद्गुरु संत. ॥ ६ ॥ क्षणपण
सद्गुरु संगति, टाळे रागने रीस; समकितप्रद गुरु
जक्तिथी, मुक्ति विश्वावीस. ॥ ७ ॥

ध्यानक्रिया मनमां आणीजे. ए राग.

जगगुरु महावीर जिन जयकारी, वंटु वार हजा-
रीरे; गुरु वंदन आवश्यक ज्ञाख्युं, जेथी तरे नरना-
रीरे. जग० ॥ १ ॥ गुरुवंदनमां मुज मन राचे, गाजे
घन मोर नाचेरे; रीझे नहि मन कुगुरु काचे, स्वार्प-
णता ठे साचेरे. जग० ॥ २ ॥ गुरुवंदनथी केवल
वरिया, अनंत जीवो तरियारे; लघुता विनयवडे
संचरिया, गुरुभक्ते जे भरियारे. जग० ॥ ३ ॥ सद्-
गुरु रागे गुण सहु आवे, दुर्गुण सघळा जावेरे; गुरु-
पदेशे श्रद्धा जावे, शक्ति सकल प्रकटावेरे. जग०
॥ ४ ॥ सर्व खमावुं कृत अपराधो, सद्गुरु जगमां
लाध्योरे; तुज कृपाए अनुजव वाध्यो, साधनथी प्रभु

(१९९)

साध्योरे. जग० ॥ ५ ॥ विधिपूर्वक गुरुवंदन होशो;
दुर्गुण स्हामुं न जोशोरे; माफ करो गुरु म्हारा दोषो,
मुज आतमने पोषोरे. जग० ॥ ६ ॥ एवी रीते गुरु
वंदन करता, गुरु सदा अनुसरतारे; समकित्ती गृही
त्यागी गुण वरता, भव पाथोधि तरतारे. जग० ॥७॥
दोषदृष्टि त्यागी गुरु रागी, शिष्य नक्त वरुजागीरे;
बुद्धिसागर सद्गुरु वंदन, करतां लगनी लागीरे.
जग० ॥ ८ ॥ ॐ० प० गुरु वन्दन आराधनार्थं ज०
य० स्वाहा ॥

चतुर्थी प्रतिक्रमणावश्यक पूजा.

दुहा.

प्रतिक्रमण करवाथकी, आतम शुद्धि थाय.
आत्माजिमुख भावथी, प्रतिक्रमण कहेवाय. ॥ १ ॥
अतिचारादिक दोषथी, पाछा फरवुं जेह; पापतणुं
करवुं नहीं, प्रतिक्रमण छे तेह. ॥ २ ॥ पंच प्रतिक्र-
मणां कथ्यां, आतम शुद्धि हेत; द्रव्यजाव करतां
थकां, मुक्ति.नो संकेत. ॥ ३ ॥ प्रतिक्रमणने जाणता,

(२००)

सातनयोथी जेह; चउनिक्षेपे आदरे, दोष रहे नहि
 रेह. ॥ ४ ॥ निंदो गहो दोषने, खमो खमावो जीव,
 कर्म भेद दूरे टळे, पामे आतम शिव. ॥ ५ ॥

ए व्रत जगमां दीवा मेरे प्यारे, ए व्रत जगमां दीवो.
 ए राग.

महावीर प्रभु जयकारीहो, जगपति ! महावीर
 प्रभु जयकारी, प्रतिक्रमण आवश्यक भाख्युं, सर्व
 जीव हितकारी, दुर्गुण दोषथी पाछा फरवुं, प्रति-
 क्रमण जयकारी हो. जगपति महावीर० ॥ १ ॥
 गृहो त्यागी व्रत समकितमांही, अतिचारादिक ला-
 ग्या; निंदे गहें फरी करे नहीं, प्रतिक्रमणे तेह जा-
 ग्याहो. जगपति० ॥ २ ॥ क्षयोपशमो समकित
 चारित्रे, वारंवार छे दोषो; तेमाटे प्रतिक्रमणावश्यक,
 करो आतम गुण पोषोहो. जगपति० ॥ ३ ॥ दोषने
 गुण निरीक्षा करतां, प्रायश्चित्तने धरतां, निंदो गहो
 निजगुण वरतां, भवि नरनारी तरतां हो. जगपति०

(२०१)

॥ ४ ॥ मोहीना मन मीठी कहेणी, पण कडवीछे
 रहेणी; कहेणी प्रभाणे थातां रहेणी, चढशो मुक्ति
 निसरणी हो. जगपति० ॥ ५ ॥ मनवचनकाया प्रतिक्र-
 मणथी, मनवचन काया शुद्धि; क्षण क्षण उपयोगे
 पडिक्रमणं, करतां चिदानंद ऋद्धिहो. जगपति०
 ॥ ६ ॥ आतमना उपयोगे ध्याने, नहि आवश्यक
 करणी; शुजाशुभपरीणाम निवृत्ति, जवपाथोधि-
 तरणीहो. जगपति० ॥ ७ ॥ चउनिक्षेपे सातनयोथी,
 प्रतिक्रमण अवधारो. निज निज अधिकारे प्रतिक्र-
 मतां, शुद्ध यता आचारोहो. जगपति० ॥ ८ ॥
 अप्रशस्य कषाय प्रवृत्ति, प्रतिक्रमता संसारी; प्रति-
 क्रमणथो क्षणमां मुक्ति, पाम्या घणा नरनारीहो.
 जगपति० ॥ ९ ॥ पंच पडिक्रमणां व्यवहारे, निश्चय
 निज उपयोगे; जाणीने वर्ते जे भावे, रहे न जवभय
 रोगेहो. जगपति० ॥ १० ॥ पश्चात्तापथी भूलो ख-
 मावो, खमो दुर्गुणने हठावो; बुद्धिसागर सद्गुरु
 संगे, आनंद मंगल पावोहो. जगपति० ॥ ११ ॥

ॐ० प० प्रतिक्रमणाराधनार्थं ज० य० स्वाहा ॥

(२०२)

पंचमी कायोत्सर्गावश्यक पूजा.

देह छतां जेने जरा, रहे न देहाध्यास; कायो-
त्सर्गज जाणवो, आतम ध्यानाच्यास. ॥ १ ॥ द्रव्य
भावथी जाणवुं, कायोत्सर्ग स्वरूप; आवश्यक विधि
योगथी, नासे भवभय धूप. ॥ २ ॥ शुद्धातम उप-
योग ठे, कायोत्सर्ग प्रमाण; निश्चयनयथी आदरे,
प्रगटे केवलज्ञान. ॥ ३ ॥ व्यवहारे विधिथी करो,
टाळो मनना दोष; दर्शन ज्ञानने चरणनी, शुद्धि
प्रगटे पोष. ॥ ४ ॥

हम मगन जये प्रभु ज्ञानमां. ए राग.

प्रभु महावीर जिनवर ध्याइए, ध्याइए ध्या-
इए ध्याइए, प्रभु० कायोत्सर्ग करो गुण हेते, आव-
श्यकदिल धारिये; देहादिक जरु वस्तुथी न्यारो,
आतम शुद्ध विचारिये. प्रभु० ॥ १ ॥ देह छतां
नहि देहनी ममता, धर्मे तनु व्यापारीए; शुद्धातम
उपयोगे रहीने, परमानंदमां म्हालीए. प्रभु० ॥ २ ॥
दर्शन ज्ञान चरणनी शुद्धि, काउसगयोगे कीजीए;

(२०३)

देहादिक मोहसागर उपर, ज्ञाने तरंतां रीझीए-
 प्रभु० ॥ ३ ॥ काउसग्ग योगे क्षणमां केवल, मुक्ति
 अनंता पामिया; शुभ अशुच परिणाम त्यजीने,
 शुद्ध स्वरूपे जामिया: प्रभु० ॥ ४ ॥ शुद्धातम उप-
 योगे रहेतां, सर्व प्रभुने ध्याइया; निश्चयनयथी एका-
 तममां, सर्व जिनेश्वर आविया. प्रभु० ॥५॥ व्यव-
 हारथी विधि काउसग्ग करवो, एम सापेक्ष विचा-
 रीये; आतम शुद्धि हेते साधन, हठकदाग्रह वारिये.
 प्रभु० ॥ ६ ॥ द्रव्यभाव व्यवहारने निश्चय, नयसा-
 पेक्षे जाणीए; सांज सवारे आवश्यकने, रहेणीमांही
 आणीए. प्रभु० ॥ ७ ॥ मोहादिक कर्मो झट विण
 से, मानव जव नहि हारिए; प्रभुनी साथे तन्मय
 थैने, मोही मनडुं मारीए. प्रभु० ॥ ८ ॥ गृही त्या-
 गीने आवश्यक छे, नित्यनी करणी कीजीए;
 बुद्धिसागर मंगलमाला, परमानंद पद लीजीए.
 प्रभु० ॥ ९ ॥ ॐ० प० कायोत्सर्गाराधनार्थ ज०
 य० स्वाहा ॥

(२०४)

छठी प्रत्याख्यानावश्यक पूजा.

छट्टुं आवश्यक करो, चावे प्रत्याख्यान; द्रव्य-
 चाव बे कर्मनो, नाश थतो भवी जाण. ॥ १ ॥ सर्व
 शुभाशुभ वांछना, त्याग ज प्रत्याख्यान; निश्चयथी
 ए आदरे, प्रगटे केवलज्ञान. ॥ २ ॥ आसक्तिनो
 त्याग ते, निश्चय प्रत्याख्यान; रागद्वेषने परिहरे,
 प्रत्याख्यान प्रमाण. ॥ ३ ॥ द्रव्यथी प्रत्याख्यानना-
 अनेक भेदो जोय; साध्यतणा उपयोगथी, साधन
 सफळां होय. ॥ ४ ॥ आत्म तावे मन थतां, वर्ते
 प्रत्याख्यान; ग्रहणत्याग बुद्धि विना, सहजयोगथी
 मान. ॥ ५ ॥

श्रीपालना रासनी देशनो.

जिमतरु फूले जमरो बेसे. ए राग.

प्रभु महावीरने वंदो पूजो, गावो प्रणमो ध्यावो,
 प्रत्याख्यान जिणे उपदेश्युं, भावथी मनमां लावोरे,
 नविका, प्रत्याख्यानने धारो, थाय सफळ अवता-

(२०५)

रोरे. ऋविका० ॥ १ ॥ व्यवहारथी पञ्चखाणने क-
रिये, मनपर काबू धरिये; गुरु पासे पञ्चखाण उच्च-
रिये, कर्म निकाचित हरियेरे. भविका० ॥ २ ॥
अशनादिक इहा संवरीये, सुख दुःख समता वरिये,
कर्म अनंतां क्षण निर्जरीए, आतमने उद्धरियेरे.
भविका० ॥ ३ ॥ पापकर्म इच्छाओ त्यागो, आतम
जावे जागो; परपरिणामथो दूरे जागो, पर पुद्गल
नहीं मागोरे. भविका० ॥ ४ ॥ भोगादिक इच्छाओ
ढंडो, निज आतम रढ मंडो; काढो मोहतणो पग
दंडो, छंडो मिथ्या घमंडोरे. भविका० ॥ ५ ॥ दुष्टे-
च्छाओ दूर निवारो, कामेच्छाओ वारो; हिंसादिक
वृत्ति संहारो, आतममां प्रेम धारोरे. भविका० ॥ ६ ॥
कायिक सुख माटे जे जोगो, निश्चय तेह छे रोगो;
तेना जे प्रगटे संयोगो, वेदो निर्वेद योगोरे. ऋविका०
॥ ७ ॥ आतमवण अन्य इच्छा सर्वे, ते त्यागे पच्च-
खाणो, निकाचित भोगो भोगवतां, विषमभाव न
आणोरे. ऋविका० ॥ ८ ॥ जीवो अनंता मुक्ति पाभ्या,

(२०६)

प्रत्याख्यानना योगे; बुद्धिसागर आनंद मंगल, वर्तो
निजगुण भोगे हो. ऋविका० ॥ ९ ॥

कलश.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो.

त्रिशलानंदन आनंदवर्धन, वर्धमान जिन-
रायो, चोवोशमा तीर्थकर ईश्वर, परमब्रह्म सुहा-
योरे. महावीर० ॥ १ ॥ षडावश्यक पूजा रचीने,
पूज्याप्रभु हरखायो; आनंदमंगल घटमां पायो,
शुद्धोपयोगे रमायोरे. महावीर० ॥ २ ॥ ओग-
णिश अठोत्तर कार्तिक सुदि, नवमी बुध सुहायो;
सानंद शहेरमां आनंद लहेरे, पूजा रची गुण पायोरे.
महावीर० ॥ ३ ॥ वीरजिनेश्वर पट्ट परंपर, तपगच्छी
गुरुराजा; हीरविजयसूरि शासन धोरी, भारतमुनि
शिरताजारे. महावीर० ॥ ४ ॥ वाचक सहज सागर
गुरु मोटा, पट्ट परंपर राजे; श्री नेमिसागर रविस्ता-
गरगुरु, मेघपरे जग गाजेरे. महावीर० ॥ ५ ॥ श्रीर-
विसागर शिष्यसनूरा, पटधर गच्छना राजा; श्री

(२०७)

सुखसागर सद्गुरु प्रणमं, सागर पेटे माझारे. महा-
वीर० ॥ ६ ॥ गुरु कृपायी पूजा रची शुच, सर्व जीव
सुखकारी; बुद्धिसागर आनंद मंगल, शांति तुष्टि
करनारीरे. महावीर० ॥ ७ ॥ षडावश्यक पूजा सुणे
जे, जणे भणावे जावे; सकल संघसां आनंद मंगल,
घर घर शांति थावेरे. महावीर० ॥ ८ ॥ ॐ० प०
प्रत्याख्यानाराधनार्थं ज० य० स्वाहा ॥



(२०८)

अष्टप्रकारी पूजा.



दुहा.

श्री संखेश्वर पार्श्वजी, पुरीसादाणी जेह; पद
 पंकज नमी तेहना, रचना रचुं गुणगेह. ॥ १ ॥
 पूजा अष्टप्रकार छे, आद्य न्हवण जयकार; चंदन
 कुसुमने धूपनी, पंचम दीप मनोहार. ॥ २ ॥ अक्षत
 नैवेद्य फुल इम, पूजा अष्टप्रकार; करतां शिवसुख
 संपजे, पामीजे भवपार. ॥ ३ ॥ द्रव्य भाव भेदे करी,
 पूजे जे जिनराय; पूजा करतां प्राणिया, पूजक प-
 दवी पाय. ॥ ४ ॥ शुभ सिंहासनमां प्रभु, पद्मिमा
 स्थापी सार; समय विधि अनुसारथी, पूजीजे सुख-
 कार. ॥ ५ ॥

१ जलपूजा.

अनिहारे जिनमंदिर रलियामणुरे—ए देशी.

बहुभावे सुरवरकोडाकोडी मिलीरे, प्रभुने सुर-
 गिरि लइ जाय; आठजाति कलशा भरीरे, प्रभुन्ह-

(२०९)

वण करे सुरराय. सुरवरकोणा० ॥ १ ॥ बहु भावे
 नाचे राचे जिन प्रेमथीरे, अभिषेक करी हरखाय;
 तिम प्रभुपूजा करतां थकारे, ज्ञव्यातम निर्मल थाय.
 सुरवरकोणा० ॥ २ ॥ बहुभावे विप्रवधू जल रेमतीरे;
 जिनपदिमापर सुखकार; स्वर्गादिक सुख पामतीरे;
 तिम भवियण वतों सार. सुरवरकोणा० ॥ ३ ॥ .

धन धन संप्रति साचो राजा-ए देशो.

शमजलथी निज चेतन निर्मल, थाय कहे जिन-
 वाणीरे; शमजलथी शुद्ध चेतन अर्चन, करतां भव-
 जय हाणीरे. शमजलपूजा चेतन करीए. ॥ १ ॥
 मिथ्यात्वाविरत कषायने योग, तेथो कर्म बंधायरे;
 चारगतिमां भटके चेतन, विविध दुःखने पायरे.
 शम० ॥ २ ॥ गज सुकुमालजी शमजल पूजा, करतां
 बहु सुख पाम्यारे; स्कंधक सूरिना शिष्यो तेमज,
 कर्मपंक झट वाम्यारे. शम० ॥ ३ ॥ मुनिमेतार्ये श-
 मजल पूजा, चेतननो जिम कीधीरे; भाव न्हवण-
 शन चेतन अर्चन, करतां शिवफल सिद्धिरे. शम०

(२१०)

॥ ४ ॥ भावपूजा साधु अधिकारी, द्रव्य भाव दोय
श्राद्धरे; बुद्धि शिवसुख पामे शाश्वत, होवे निरावा-
धरे. शम० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मरा-
मृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय जलं यजामहे
स्वाहा.

२ चंदनपूजा.

पुहा.

बीजी चंदन पूजना, करतां पाप पलाय; मि-
थ्यादोष अनादिनो, टळतां शिव सुख थाय. ॥१॥
पुद्गल संगे आतमा, दुर्गंधियुत जाण; सुगंधे जिन
पूजतां, सुवासित मन आण. ॥ २ ॥

सुण बहेनी पियुको परदेशी-ए देशी.

चंदन पूजा करो शुच भावे, जिनवरनी सुख
काजेरे; चंदनसम श्वेतन शीतलता, थातां शिवसुख
ठाजेरे. चंदन० ॥ १ ॥ केसर-चंदन घसी जयणाये,

(२११)

मांहे घनसार मिलावोरे; रजत कचोलीमांहे ठवीनें
 प्रभु पूजा विरचावोरे. चंदन० ॥ २ ॥ चंदनपूजा
 योगे जयसुर, शुभ्रमति शिवसुख पामेरे; तिम भवि-
 जण चंदन पूजाथी, ठरता अविचल ठामेरे. चंदन० ३

वीर जिनेश्वर उपादिशे.—ए देशी.

चंदनसमकित भावथी, पूजन चेतन कीजेरे;
 मिथ्यामल दूरे करी, अविचल पदवी लीजेरे. चंदन०
 दोष अढार रहित प्रभु, देव तत्त्व मन आणोरे;
 सुसाधु गुरुतत्त्व छे, द्रव्य क्षेत्र काल जाणोरे. चंदन०
 ॥ २ ॥ जिनवर जाषित सत्य छे, धर्मतत्त्व चित्त
 लावोरे; द्रव्यसमकित अवलंबतां, भावसमकित गुण
 पावोरे. चंदन० ॥ ३ ॥ क्षायिक समकित चंदने, जे
 जवि चेतन वासेरे; मिथ्यामत दूर वासना, तेहथकी
 दूर नासेरे. चंदन० ॥ ४ ॥ द्रव्य समकित छंम्हीने,
 जावसम्यकृत्व जे थापेरे; ते तस खप करतां थकां,
 किम करी जवभय कापेरे. चंदन० ॥ ५ ॥ समकित
 गुणे पूजना. चेतननी जे करशेरे, बुद्धिसागर सुख

(२१२)

लही, मुक्तिवधू झट वरशेरे. चंदन० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय० चंदनं यजामहे स्वाहा.

३ कुसुमपूजा.

दुहा.

पूजा त्रोजी पुष्पनी, करीए आणी भाव; पूजा
थी पूजकपणुं, लहीए आप स्वत्ताव. ॥ १ ॥ सुवासित
सुक्षेत्रथी, उपन्यां पुष्प रसाल; लावी अर्चा जिन
करो, होवे मंगलमाल. ॥ २ ॥

साहेलडियांनी देशी.

कुसुम पूजा जिननी करो, सुखकारिका. जिम
जवभय दूर थाय; दुःखवारिका. चंपक-मालती-
केतकी, सुख,-सुगंधी फुल लाय. दुःख॥०कुसुम०॥१॥
कीटक खाधुं न लीजोए, सुख० भूमि पडयुं निर-
धार; दुःख. विविध जाति फुलथी, सुख. पूजा पुण्य
प्रकार. दुःख. कुसुम० ॥ २ ॥ मोगरो-जासुलपुष्पथी,
सुख. षड्रुतुनां फुल; दुःख. प्रशस्य आगमे जे

(२१३)

कह्यां, सुख. ते लहिये अनुकुल. दुःख. कुसुम०
 ॥ ३ ॥ वणिक सुता लीलावती, सुख. पामी जिम
 शिवस्थान, दुःख. तिम भवि भावे कोजीए, सुख.
 पूजा श्रीजगवान्. दुःख. कुसुम० ॥ ४ ॥

वोरजिणेसर उपदिशे—ए देशी.

सत्य शौच कुसुमे करी, जे निज चेतन पूजेरे;
 कर्म कलंक अनादिनुं, तेहथकी झट धूजेरे. सत्य०
 ॥१॥ सत्य जे आत्मस्वरूपनी, श्रद्धा मनमां कोजेरे;
 उपनीतादिक भेदने, जाणी सत्य वदीजेरे. सत्य०
 ॥ २ ॥ कूडकपट त्यागी करी, आप स्वभावे रहीएरे;
 त्याग करो परभावनो, शिवसुख सहेजे लहीएरे.
 सत्य० ॥ ३ ॥ मन व्यापार निवृत्तिथी, शान्ति चे-
 तन पामेरे; आत्म अनुभव जागतां, कर्मरोग झट
 वामेरे. सत्य० ॥ ४ ॥ परपुद्गल संयोगथी, चेतन
 चउगति जटकेरे; तेहतणा त्यागे करी, जमतो चेतन
 अटकेरे. सत्य० ॥ ५ ॥ स्वगुणे करी सत्यछे, आत्म-

(२१४)

राय भवि जाणोरे; बुद्धिसागर सुख लही, होवे शि-
वपुर राणोरे. सत्य० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम पु० कुसुमं यजामहे स्वाहा.

४ धूपपूजा.

दुहा.

चोथी पूजा धूपनी, दशांगादिक जाण; कर्मे
न्धनने बाळवा, करता ऋविक सुजाण. ॥ १ ॥ धूप
करो प्रभु आगळे, शास्त्र वचन अनुसार; करतां
सुख बहु लीजीए, तरीए भवजलपार. ॥ २ ॥

अनिहारे जिनमंदिर रळियामणुरे-ए राग.

भवि भावे धूपपूजा जिननी करोरे, जिम जावे
ऋव ऋयरोग; चूरण शुद्ध दशांगथीरे, धूप करतां
नासे शोग. धूपपूजा. ॥ १ ॥ ऋवि भावे धूपधाणुं
वामांगे ठवोरे, अग्ररतुरुक्कघनसार; कुंदरुचंदन उखे.
वतांरे, पामीजे भवजलपार. धूपपूजा० ॥ २ ॥ भवि
ऋवे शास्त्र विधि अनुसारथीरे, करिये धूपपूजा शुद्ध,
स्वर्गतणां सुख पामियेरे, वळी लहीए शिवपद बुद्ध.

(२१५)

धूपपूजा० ॥ ३ ॥ भवि भावे विनयंधर सुख पाम-
तोरे, धूपपूजाथी विस्तार; तिम जवि भावे करतां
थकारे, बुद्धि शिवसुख निरधार. धूपपूजा० ॥ ४ ॥

गिरुआरे गुण तुमतणा—ए देशी.

ध्यानधूपनी पूजना, करीए भविजन भावेरे,
परपुद्गलदुर्गधता, तेहथकी दूर जावेरे. ध्यानधूप प्रग
टावोए ॥ १ ॥ आर्त्त—रौद्र दुर्भ्यान छे, धरतां दुःख
बहु लहीएरे, तेनो त्याग करी भवि, आप स्वभावे
रहोएरे. ध्यान० ॥ २ ॥ धर्मध्यान शुजगति दीए,
शुक्लध्यान शिव आपेरे; गुणठाणे गुण उपजे, जवो
भवनां दुःख कापेरे. ध्यान० ॥ ३ ॥ आत्मध्यान
धरतां थका, दुर्गधी दूर नासेरे; योग समाधि लगा-
वतां, चढीए मोक्ष आवासेरे. ध्यान० ॥ ४ ॥ अ-
स्थिर आ संसारमां, जीवे बहु दुःख सहियांरे; नर-
कतणां दुःख जोगव्यां, ते नवि जाए कहियांरे. ध्यान०
॥ ५ ॥ चेतन नरक—निगोदमां, वार अनंतो जमि-
योरे; चारगति संसारमां, अज्ञाने जीव रमियोरे.

(२१६)

ध्यान० ॥ ६ ॥ पुद्गलजामा पहेरीने, चेतन नाटक
 करतोरे; राजा कबहु रंक थइ, पुद्गल संगे फरतोरे.
 ध्यान० ॥ ७ ॥ रुवे नाचे खेलतो, हसतो खातो
 रोगीरे; कबहु चेतन जोगी ने, कबहु वियोगी शो-
 गीरे. ध्यान० ॥ ८ ॥ कर्म करो ए सब हुवे, कर्म
 दूर जब थावेरे, बुद्धिसागर सुख लही, चिदानंद
 कहावेरे. ध्यान० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम० धूपं यजामहे स्वाहा.

५ दीपपूजा.

दुहा.

दीपक पूजा जिननी, करीए आणी भाव; आ-
 त्मगुण हितकारिका, जवजलमां जिम नाव. ॥ १ ॥
 प्रभु आगळ दीपक धरो, दक्षिण पास रसाळ; द्रव्य
 दीपकनी पूजना, करतां मंगळमाळ. ॥ २ ॥

(२१७)

सुतारीना बेटा तुने विनंठुरे लोल-ए देशी.

जवि भावे दीपकनी पूजनारे लोल, जिन
 आगळ करीए नित्यजो; मिथ्यात्व अनादि निवा-
 रीएरे लोल, प्रभु पूजीए चोखे चित्तजो. प्रभु दीप
 पूजा रळियामणीरे लोल, ज्युं पूजा करे सुर-इंद्रजो
 तिम पूजो जवि जिनचंदजो, लहो शाश्वत शिव
 सुख कंदजो. प्रभु० ॥ १ ॥ धूम अज्ञान नासे वेग-
 लुरे लोल, शुद्ध आत्मरूप प्रगटायजो; रजत-कनक
 -ताम्रनां कोडियारे लोल, तेमां घृत धरो हित ला-
 यजो. प्रभु० ॥ २ ॥ जिनमंदिर वासण मांजियेरे
 लोल, घृत कोडिया मांजिये खासजो; दीवा उघाडा
 नवि मूकीएरे लोल, चित्त होय जो शिवसुखआ-
 शजो. प्रभु० ॥ ३ ॥ दीपपूजाथी जिनमति धनसि-
 ररे लोल, जिम पामी शाश्वत सुखठायजो; तिम
 भक्तिजावे जिन पूजीएरे लोल, इम बुद्धिसागर
 गुण गायजो. प्रभु० ॥ ४ ॥

(२१८)

कोइलो पर्वत धुंधलोरे लोल-ए देशी.

भाव दीपक ते ज्ञान ठेरे लाल, भविजन अति
 सुखकारेरे; हुं वारीलाल. मति अट्टावीश जेदछेरे
 लाल, त्रणसे चालीश तिम धाररे. हुं. जाव० ॥ १ ॥
 चौद वीश जेद श्रुतनारे लाल, पामंतां सुख थायरे;
 हुं. श्रुतज्ञानी केवली समोरे लाल, प्रेमे प्रणमो पाय
 रे. हुं. जाव० ॥ २ ॥ अवधि असंख्य प्रकारेरे
 लाल, मुख्य भेद षट् धाररे; हुं. मनःपर्यव भेद दो
 कह्यारे लोल, केवल एक उदाररे. हुं. भाव० ॥ ३ ॥
 केवलज्ञान प्रत्यक्ष छेरे लाल, तेहंथी सर्व जणायरे;
 हुं. तीर्थकर ते गुण वरीरे लाल, उपदेश दे सुखदा-
 यरे. हुं. भाव० ॥ ४ ॥ ज्ञानसहीत किरिया कहीरे
 लाल, साचो मोक्ष उपायरे हुं. वस्तु एकांते जे ग्रहे
 रेलाल, भवमां ते भटकायरे. हुं. जाव० ॥ ५ ॥ वि-
 नय करो ज्ञानीतणोरे लाल, ज्ञानीतणुं बहुमानरे;
 हुं. भणो भणवो ज्ञाननेरे लाल, लखो लखावो
 ज्ञानरे. हुं. जाव० ॥ ६ ॥ शासन चाले ज्ञानथीरे
 लाल, उपदेश ज्ञानथी थायरे; हुं. समकित प्रगटे ज्ञा-

(२१९)

नथीरे लाल, मिथ्यात्व दूरे जायरे. हुं. जाव० ॥७॥
 पंचमकाले आधार छेरे लाल, ज्ञान श्रुत निरधाररे
 हुं. वरजो आशातना श्रुततणीरे लाल, पामो ज्युं
 जव पाररे. हुं. भाव० ॥ ८ ॥ ज्ञान क्रिया अंतर सु-
 णोरे लाल, खजुआ जानु समानरे; हुं. जाव० ॥९॥
 महिमा ज्ञाननो अति घणोरे लाल, जाख्यो ते नवि
 जायरे; हुं. आत्मस्वरूप समजो भवीरे लाल, पामो
 शिवपुरठायेरे. हुं भाव० ॥ १० ॥ किरियारहित
 ज्ञान पांगळुरे लाल, आंधळी किरिया तेमरे; हुं.
 थातां संगम दोउनोरे लाल, थावे शिवसुखक्षेमरे.
 हुं. जव० ॥ ११ ॥ आलंबन प्रभुनुं ग्रहीरे लाल,
 पूजो चेतन द्रव्येरे; हुं. बुद्धिसागर सुख लहीरे लाल,
 पामे शिवपुर भव्येरे. हुं. भाव० ॥ १२ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं--परम० दीपं यजामहे स्वाहा.

६ अक्षतपूजा.

दुहा.

समकित निर्मल कारिका, अक्षतपूजा एह; भवि
 जन भावे कीजोए, लहीए शिवपुरगेह. ॥ १ ॥ उ-

(२२०)

त्तमक्षेत्रे नीपन्या, अखंड नयनानंद; उज्ज्वल तंडुल
पूजना, करीए श्रीजिनचंद. ॥ २ ॥

मेरु शिखर न्हवरावो हो सुरवर, मेरु०--ए देशी.

अक्षत पूजा कीजेहो भविका, अक्षतपूजा कीजे,
शुभतंडुल उज्ज्वल शुभक्षेत्रे, नीपन्या तेहीज ल-
हीए; गोधूम पण तिम पूजा कीजे, शुभभावे गहग-
हीए हो. भविका० अ० ॥ १ ॥ चारगतिचूरकस्व-
स्तिक प्रभु--आगे कीजे भावे; त्रणपुंज रत्नत्रयी वरवा,
करतां भव दुःख जावे हो भविका. अ० ॥ २ ॥ सि-
द्धशिला उपर एक योजन, चौबीसमा तस जागे;
मोक्षशिव सिद्ध पदने हेते, सिद्धशिला करो आगे
हो भविका. अ० ॥ ३ ॥ भवभवनां पुनरावर्त्त हरवा,
वरवा शिवपटराणी; नंदावर्त्त करो भवि भावे, होवे
नवत्रयहाणीहो भविका. अ० ॥ ४ ॥ कीरयुगले
जिम अक्षत पूजा, करतां सुख बहु लोभुं; बुद्धिसा-
गर शिवसुख संपदा, पामवा मनरुं कीधुं हो भ-
विका. अ० ॥ ५ ॥

(२२१)

कयुं जाण्युं कयुं बनी आबही.-ए देशो.

शुभ परिणाम ते जावथी, अक्षत पूजा सारहो
 जविक; भावरोग दूर टाळवा, औषधसम चित्त
 धारहो भविक. जावपूजा अतिसुख दीए० ॥ १ ॥
 हिंसा जूठ चोरी तजो, परनारो निरधारहो भविक;
 तनु धनममता परिहरो, रयणीजोयण अंधकारहो
 भविक. भाव० ॥ २ ॥ दिसिगमननो नियम करो,
 चौद नियम नित्य धारहो भविक; बत्रीश अनंतकाय
 तिम, अजक्षय बावीस निवारहो जविक. जाव० ॥३॥
 कषाय मद विकथा वळी, विषय निद्रा त्यागहो
 जविक; चित्त संतापना हेतु जे, तेथी न धरीए रा-
 गहो भविक. भाव० ॥ ४ ॥ अहं मम मोह मंत्रनो,
 त्याग करो गुणवंतहो भविक; विपरीत मंत्र मनन
 थकी, थाओ शाश्वत सुखवंतहो जविक. भाव०॥५॥
 अनंतरत्नत्रयी गुणे, चेतनद्रव्य विचारहो भविक;
 कर्मविनाशथी संपजे, स्थिति सादि अपारहो भविक.
 भाव. ॥ ६ ॥ अक्षतअक्षयसुखजणी, भावपूजा सुर-

(२२२)

सालहो भविक; बुद्धि शिवसुखसंपदा, पामे मंगल-
मालहो भविक. ज्ञाव. ॥ ७ ॥

ॐ हौं श्रीं—परमश्रक्षतं यजामहे स्वाहा.

७ नैवेद्यपूजा.

दुहा.

नैवेद्यपूजा सातमी, दुःखदोहग हरनार; सुरनर
शिवसुख पामवा, कल्पवृक्षसम सार. ॥ १ ॥ विविध
दुःखमृग—सिंहसम, शान्ति तुष्टि करनार; प्रभुपूजाथी
रोग शोग, ए सहु दूर थानार. ॥ २ ॥

(तेजे तरुणीथी वडोरे—ए देशी.)

नैवेद्यपूजा सातमीरे, करीए आणी प्रेम; भव-
जल तरवा नाविकारे, आपे शिवसुखक्षेमहो भविका.
नैवेद्यपूजा कीजीएरे. जिनआणा शिर दीजीयेरे,
जन्ममरण दूर जाय. ॥ १ ॥ मोदक लापसो दैथरारे,
बरफी पेंडा कुलेर; घेबर घारी सांकलीरे, विधिये
करी निज घेरहो. ज. नै. ॥ २ ॥ पापड पूरी रेवडीरे,

(२२३)

खुरमां खाजां सार; फेणी जलेबी खीरथोरे, पूजा
 करो मनोहारहो ज. नै. ॥ ३ ॥ गुंदवडां ने रेवडीरे,
 शाल दाल घृत गोळ; प्रभु भक्तिथी पूजीएरे, होवे
 ज्युं रंग चोलहो भ. नै. ॥ ४ ॥ हलीयपुरुषपेरे पूज-
 नारे, जे करशे नरनार; बुद्धि शिवसुखसंपदारे, पामी
 लहे भवपारहो भ. नै. ॥ ५ ॥

(बोर जिणेसर उपदिशे—ए देशो.)

जावनापूजा जावथी, नैवेद्यनी जे करशेरे; प्रव-
 हणसम छे भावना, भावे ते शिव वरशेरे. भा. ॥१॥
 आ संसार अनित्य छे, संभ्यारंगसम देखेरे; तेमां
 जन्ममरण कर्यां, आवे नहि तस लेखेरे. भा. ॥२॥
 शरण नहि संसारमां, मरता जीवने कांडेरे; मृत्युवश
 थया जीवने, नहि कोइ जगमां सखाडेरे. जा. ॥३॥
 त्रण भुवनमां प्राणियो, भटक्यो अनंतिवाररे; माता
 ललनापणे हुवे, पिता पुत्र विचाररे. जा. ॥ ४ ॥
 पुरुष स्त्रीपणे थावतो, ए संसारस्वरूपेरे; संसारमांजे
 राचशे, ते परुशे भवकूपरे जा. ॥ ५ ॥ पुत्र छो

(२२४)

परिवारने, माहं माहं मानेरे; सत्यवचन जिनवरतणां,
 सांभळतो नहि कानेरे. जा. ॥ ६ ॥ शरीरपंजरमां
 रह्यो, चेतन एक मन आणरे; एकलो आठवो एकलो,
 जाइश परभव जाणरे. भा. ॥ ७ ॥ तन धन मंदिर
 माखीच्यां, पुत्र कलत्रने भाइरे; ताराथी ए भिन्न छे,
 जूठी तास सगाइरे. जा. ॥ ८ ॥ सातधातुथी नो-
 पनी, अशुचिमय छे कायारे; विष्टा मूत्र शरीरमां,
 करवी शी ? तस मायारे. जा. ॥ ९ ॥ जीव माताना
 पेटमां, मलमूतरमां रहियोरे; दुःख अनंतु त्यां सह्यं,
 पवित्र शुं ? हवे थडयोरे. जा. ॥ १० ॥ समये समये
 कर्मने, रागादिकथी बाधेरे; शिवसुखकारण धर्मने,
 केम मनथी नवि साधेरे. भा. ॥ ११ ॥ जेथी कर्म
 रोकाय छे, तेहीज संवर जाणोरे; करवो आदर
 तेहनो, एहीज धर्म वखाणोरे. जा. ॥ १२ ॥ तप
 द्वादश चित्त धारीए, लोकस्वभावने समजोरे;
 आपस्वभावे स्थिर थइ, परपुद्गल मत रमजोरे.
 भा. ॥ १३ ॥ बोधिदुर्लभ जाणीने, जिनआणा शिर

(२२५)

वहीएरे; अरिहंतजाषित धर्म छे, सत्यधर्म जिन
कहीएरे. भा. ॥ १४ ॥ जड पुद्गलथी भिन्न छे,
अरूपी आत्मस्वरूपरे; बुद्धिसागर ध्यावतां, थावे
शिवपुरञ्चूपरे. भा. ॥ १५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं-परम० नैवेद्यं यजामहे स्वाहा.

८ फलपूजा.

डुहा.

आठमी फलनी पूजना, करिए जवि हित
लाय; फलपूजाथी पामीए, शिवफल अतिसुखदाय.
॥ १ ॥ उत्तम वृक्षतणां ग्रही, फळ रमणिक
मनोहार; प्रेमे पूजो भविजना, होवे जयजय-
कार. ॥ २ ॥



(ऋषज्जिणंदशुं प्रोतलडी-ए देशी.)

फळपूजा जिनराजनी, जवि कीजे हो भावे
सुखकार; शास्त्रविधि अनुसारथी, लहो शुभ फळ

(२२६)

हो पामो भवपार. फळ. ॥ १ ॥ श्रीफळ आम्र
 बदामने, सीताफळ हो दाडीम हितकार; केळां पिसतां
 नीमजां, रायणफळ हो मेवो जघकार. फळ. ॥२॥
 काळ अनादि जीवने, नहीं तृप्ति हो मनमांही
 लगार; विविधफळ भक्षण करी, जीव रझळ्यो हो
 चउगति मोझार. फळ. ॥ ३ ॥ जीव लालचियो
 लंपटी, फळभक्षणथी हो नहि विरम्यो लगार;
 पापत्रय नहीं चित्त गण्यो, भक्ष्याभक्ष्यनो हो नवि
 करियो विचार. फळ. ॥ ४ ॥ जिनशासन अंगी-
 करी, प्रभु आगे हो करुं विनति एम; फळमूर्ता
 उतारतो, प्रभु आगे हो ठवुं आणी प्रेम. फळ.
 ॥ ५ ॥ आपो शिवफळ जिनवरा, जे पामी हो
 भवनां दुःख जाय; बुद्धिसागर सुख लहो, पामे
 शिवफळ हो जे अतिसुखदाय. फळ. ॥ ६ ॥

(सांभळजो मुनि संयम रागे—ए देशी.)

शाश्वत शिवपद स्वाद लहो भवि, जैनधर्म

(२२७)

चित्तधारीरे; द्रव्यभावथी धर्म जे जाणे, जाउं तेहनी बलीहारोरे. शा. ॥१॥ सातनयो उत्तर तस भेदो, आगमथी जे जाणेरे; ससत्तंगी जे शुद्धि जाणे, ते मुक्तिसुख माणेरे. शा. ॥ २ ॥ षड्द्रव्यगुणपर्याय जाणे, जाणे आत्मस्वरूपरे; उपादेय आत्मने जाणे, ते न पडे भवकूपरे. शा. ॥ ३ ॥ नवतत्त्व जिनेश्वर ज्ञाखे, बोध तास जे करशेरे; हेय ज्ञेय उपादेय समजी, समकित-श्रद्धा वरशेरे. शा. ॥ ४ ॥ श्रद्धाथी समकित शुद्ध प्रगटे, तेथी विरंति लहियेरे; विरतिथी क्षय कर्मनो करतां, शिवपुरमारग वहियेरे. शा. ॥ ५ ॥ बाहिर अंतर परम ए तीन, आत्म परिणति संमजोरे; परमात्म पद लक्ष्य विचारी, अंतर आत्म रमजोरे. शा. ॥ ६ ॥ शरीर वाणी मनथी जूदो, आत्मद्रव्य चित्त धरतोरे; अरूपी निःसंग आत्म निर्मल, तास ध्यान मन करतोरे. शा. ॥ ७ ॥ राग द्वेष मोहरायना योद्धा, तेहनी साथे वढतोरे; आत्मा आप स्वरूपे खेली, क्ष-

(२२८)

एक श्रेणीए चढतोरे. शा. ॥ ८ ॥ वीर्योल्लास वधे
 गुण प्रगटे, कर्मकलंक खपावेरे; शुक्लध्यानपायाए
 चढतो, केवलज्ञान गुण पावेरे. शा. ॥ ९ ॥
 आयुष्यस्थिति पूर्ण करीने, शरीरसंग दूर कर-
 तोरे; जन्ममरणना फेरा टाळी, सादिअनंत स्थिति
 वरतोरे. शा. ॥१०॥ दुःखाभावरूपमुक्ति माने, नैया-
 यिकमतवादीरे; सर्वव्यापकमुक्ति माने, ते पण छे
 उन्मादीरे. शा. ॥११॥ स्वामीसेवकजाव स्वीकारे,
 मुक्तिमां ते खोटोरे; कर्म खप्याथी सर्वे सरखा-माने
 ते जीव मोटोरे. शा. ॥ १२ ॥ गमनागमन मुक्तिमां
 माने, मतवादी अज्ञानीरे; गमनागमनरहित छे
 मुक्ति, जाणे स्याद्वादज्ञानीरे. शा. ॥१३॥ अनंतसु-
 खमयमुक्तिफलने, पामे भवि नरनारीरे; बुद्धिसागर
 शिवसुख पामे, चिदानंदपद धारीरे. शा. ॥ १४ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम-फलं यजामहे स्वाहा.

(२२९)

सर्वोपरी गीतं.

(नमो नमोभवियण भावशुं ए-ए देशी.)

अष्टप्रकारी पूजना ए, द्रव्य भाव मनोहार;
 भविजन पूजोए ए. जिनप्रतिमा जिनसारिखी ए,
 ज्ञाखी शास्त्रमजार. ऋवि.॥१॥ दर्शन दीठे देवनुं ए,
 पापपंक दूर थाय; भवि. जगवतीमांही मुनिवराए,
 प्रतिभावंदन जाय. भावि. ॥२॥ नामनिक्षेपो उच्च-
 रेए, स्थापना किम न मनाय; भवि. शुद्धभावथी
 पूजतांए, जन्ममरण दूर जाय. ऋवि. ॥३॥ सांकळ-
 चंदसुत जाणीएए, चुनीलाल उदार; ऋवि. नथुजा-
 इसुत जाणीएए, जेठाजाइ हितकार. भवि. ॥ ४ ॥
 जेठालाल नरोत्तम कारणेए, मूळचंदभाइना काज;
 भवि. डाह्याभाइनी विनतिए, करतां शिवसुख राज.
 ऋवि. ॥ ५ ॥ शासन वीर जिनेश्वराए, होरविजय
 सूरि राय; ऋवि. सहेजसागर उपाध्यायजीए, तास
 शिष्य वखणाय. भवि. ॥६॥ तास शिष्य उपाध्याय-

(२३०)

जी ए, जयसागर जयकार; भवि. पाटपरंपर शोज-
 ताए, नेमिसागर सुखकार भवि. ॥ ७ ॥ तस शिष्य
 रविसागर गुरु ए, संवेगो अनगार; ऋवि. तस शिष्य
 सुखसागर गुरु ए, गामोगाम विहार. ऋवि. ॥ ८ ॥
 वसोनगर पधारियाए, संघ सकल हरखाय; भवि.
 ऋषभदेवतीर्थकराए, निरखी आनंद थाय. भवि.
 ॥९॥ तास पसाये ए रचीए, पूजा अष्टप्रकार; ऋवि.
 ऋणो ऋणावो सांभळो ए, भावथकी नरनार. भवि.
 ॥१०॥ मेरुपरे ए स्थिर थइए, करजो ऋविमन वास; भवि.
 चंद्र सूर्य जब लग रहेए, जगमां करता प्रकाश.
 ऋवि. ॥११॥ तब लग पूजा विस्तरो ए, शांति तुष्टि
 करनार; भवि. ऋद्धि वृद्धि सुख संपदा ए, पूजाथी
 शिद्वनार. भवि. ॥१२॥ संवत ओगणीस उपरे ए, ओग-
 ठनी साल; भवि. फागण वदि एकादशी ए,
 अर्ण विशाल. भवि. ॥१३॥

(२३१)

कलश.

एम सकलसुखकर द्रव्य चावे, पूजा अष्टप्रका-
 रो ए; भणे जणावे सुणे जे चावी, ते शिवसुख लहे
 चारी ए. तपगच्छशाखा गगनमंडळ—दिवाकरपेरे
 छाजता; वैराग्यरंगे व्याप्युं जस मन, महिमा जग
 जस गाजता. ॥१॥ रविसागर गुरु प्रेमे प्रणमुं, संवेगो
 सिरदार ए; जस नाम देतां सकलमंगल, पामे भवी-
 नरनार ए. तस पदपंकजभृंगसम श्री—सुखसागरगुरु-
 बाळ ए; एम बुद्धिसागर शिव सनातन, पामे
 मंगलमालए. ॥ २ ॥

इति अष्टप्रकारीपूजा संपूर्णा.



(१३२)

वास्तुकपूजा.

दुहा.

श्री संखेश्वरपार्श्वनाथ, त्रेवीसमा जिनराय; घर-
 गेंद्र पद्मावती, पूजे जेहना पाय. ॥ १ ॥ पार्श्वयक्ष
 जस शोचतो, सेवा करे चित्त लाय, पुरिसादाणी
 पार्श्वनाथ, ध्याता शिवसुख थाय. ॥२॥ वास्तुकपूजा
 घरतणी, करतां सुख विशाल; ऋद्धि वृद्धि जय संपजे,
 कीर्ति मंगलमाल. ॥३॥ पंच पंच वस्तुथको, संखेश्वर-
 प्रभुपास, पूजो भवो जावे करी, सफल होवे मन
 आश. ॥ ४ ॥ चिंतामणिसम पार्श्वनाथ, पार्श्वमणि
 समनाम; ध्यातां गातां प्राणीनां, सिद्धे सघळां
 काम. ॥ ५ ॥

प्रथमपूजा.

(महिजिन वंदीए जवी भावोरे—ए राग.)

संखेश्वरपासप्रभु नित्य गावोरे, शाश्वत शिव-
 कमळा पावो, सं० काशीदेश वणारसीगामरे, विश्वसेन-

(२३३)

राजा अचिरामरे; वामामाता सुखविश्राम. संखेश्वर.
 ॥१॥ प्रभु मातकुखे जब आयारे, इंद्र चोसठ सुरगिरि
 लायारे; सुरासुर मनमा हरखाया. संखेश्वर. ॥ २ ॥
 एक लाखने साठ हजाररे, आठजाति कळश मनो-
 हाररे; प्रभु न्हवण करे जयकार. संखेश्वर. ॥ ३ ॥
 इंद्राणोयो हस्तो गातीरे, जिनदर्शन करो हरखातीरे;
 नाटक करी मनमां माती. संखेश्वर. ॥ ४ ॥ एवा
 पार्श्वप्रभु घर लावोरे, शुभ सिंहासन पधरावोरे; प्रभु
 न्हवण करी सुख पावो. संखेश्वर. ॥५॥ रोगशोग सहु
 दूर नासेरे, प्रभुश्रद्धा मनमां वासेरे; शाश्वतपद बुद्धि
 जासे. संखेश्वर. ॥६॥

मंत्रम्-ॐ नमो भगवते श्री संखेश्वरपार्श्वना-
 थाय ह्रीं धरणेंद्रपद्मावतीसहिताय जन्मजरामृत्युनि-
 वारणाय ह्रुद्रोपद्रपशमनाय जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं,
 दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजमाहे स्वाहा.

(२३४)

द्वितीयपूजा.

उहा.

स्नात्र भणावी पार्श्वनुं, पूजा कीजे सार; पूजक
 पूज्यनी पूजना, समजीजे सुखकार. ॥ १ ॥ बेउ
 पासे वींजीए, चामर चारु उमंग; दर्पण प्रभु आगळ
 धरो, होवे जयजय रंग. ॥ २ ॥

(सुतारीना बेटा तुने विनवुंरे लोल-ए देशी.)

प्रभु पार्श्वजिनेश्वर गावीएरे लोल, श्री संखे-
 श्वर प्रभु नामजो, तुज नामथी नवनिधि संपजेरे
 लोल, मनवांछित सिद्धे कामजो; नाम रुडुं संखेश्वर
 पासनुंरे लोल, मिथ्यात्वदशा दूर थायजो; शुद्ध
 श्रद्धा हृदय प्रगटावजो. नाम रुडुं. ॥ १ ॥ पूजा
 वास्तुक दोय प्रकारनीरे लोल, शुभ अशुभ जेद
 कहायजो; द्रव्य वास्तुकपूजाना ए कह्यारे लोल, तेह
 हरखे कहुं चित्त लायजो. नाम रुडुं. ॥ २ ॥ घर
 महेल करावी तेडियेरे लोल, ब्राह्मण होमादिक वा-
 सजो; वेद गायत्री मंत्र भणावीएरे लोल, ब्राह्मण

(२३५)

जमाडीए खासजो. नाम रुहुं. ॥ ३ ॥ देवदेवी ब्रह्मा-
दिक पूजियेरे लोल, पाडाबुद्धिए कोलुं कपायजो;
मरी नरकतणां दुःख भोगवेरे लोल, मिथ्या वास्तु-
कपूजा कथायजो. नाम रुहुं. ॥ ४ ॥ फल श्रीफल
प्रमुखने होमतारे लोल, पंचेन्द्रिय हिंसा थायजो;
अपमंगल एह खरुं कहुंरे लोल, अशुभ वास्तुक-
पूजा कहायजो. नाम रुहुं. ॥ ५ ॥ शुभ वास्तुक-
पूजा वर्णवुरे लोल, जेनुं रुहुं विशाल स्वरूपजो, बुद्धि
शाश्वत संपदा पामीएरे लोल, पास नाम ते मंगल
रूपजो. नाम रुहुं. ॥ ६ ॥

मंत्रम्—ॐ नमो भगवते—जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं,
दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजामहे स्वाहा.

तृतीयपूजा.

दुहा.

शुभ वास्तुकपूजा कहुं, आणी अतिशय भाव;
स्वर्गादिक सुख पामीए, होवे शिवसुख दाव. ॥१॥

(२३६)

देव अरिहंत जाणीए, दोषरहीत अढार; गुरु सु-
साधु महाव्रती, पाळे पंचाचार. ॥ २ ॥ जिनवरभा-
षित सत्य छे, जैनधर्म जगजोय; सुख दुःख होवे
कर्मथी, अवर न कर्ता कोय. ॥ ३ ॥

(अनिहारे न्हवण करो जिनराजनेरे—ए देशी.)

अनिहारे वास्तुकपूजा शुभ कीजीएरे, तजी
अवर देवनी आश; सत्पात्रे दानने दीजीएरे, सूत्रश्र-
वणरुचि अजिलाष, श्री संखेश्वर प्रभु पासजीरे.
॥ १ ॥ भवी जावे द्रव्यार्थिकमये करीरे, शाश्वत ठे
लोकालोक; कर्ता तेहनो को नहिरे, केम कर्ता मा-
नीए फोक. श्री संखे. ॥२॥ उंचो नीचो एवा तीरठा
लोकनीरे, स्थिति ठे अनादिअनंत; कर्ता तेहनो
को नहीरे, एम जाखे श्री भगवंत. श्री संखे. ॥३॥
नवतत्त्व षड्द्रव्य छे नित्य शाश्वतारे, द्रव्य गुणप-
र्यायस्वरूप; बे जेदे जीव दाखियारे, तस लक्षण छे
चिद्रूप. श्री संखे. ॥ ४ ॥ परिणामी पुद्गल जीव
दो जाणीएरे, अनादि संबंध विचार; कर्ता कर्मनो

(२३७)

आतमारे, तेम भोक्ता हृदये धार. श्री संखे. ॥ ५ ॥
 शुजाशुभकर्म ग्रही भोगी आतमारे, वेदे शाता
 अशाता दोय; देव मनुज नारक तिरिरे, चउगतिमां
 भटके जोय, श्री संखे. ॥६॥ जीवे कीधां पुण्य पाप
 ते भोगवेरे, परपुद्गलसंगे खास; राच्यो माच्यो
 पुद्गलमां वस्योरे, बन्यो पुद्गलनो जीव दास; श्री
 संखे. ॥ ७ ॥ प्रभुपूजा करतां प्राणिया सुख लहेरे,
 नासे कर्माष्टकपाश; स्वामीवच्छल नवकारशीरे, हेतु
 सुखनां दीसे खास: श्री संखे. ॥८॥ शुभभावे नैवेद्य
 थाळमां मूकीनेरे, प्रभु आगळ धरीए चंग; रत्नत्रयो
 कमळा वरेरे, बुद्धिशाश्वतपदरंग. श्री संखे. ॥ ९ ॥
 मंत्रम्—ॐ नमो जगवते—जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं,
 अक्षतं, नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा.

चतुर्थपूजा.

दुहा.

शरीरपुद्गलमां वस्यो, पुद्गल मानो गेह; पर-
 जव साथ न आवतुं, क्षणमां नाशी तेह. ॥ १ ॥ देह

(२३८)

अनंतां छंडियां, जटकी आ संसार; लाख घोराशी
हुं भम्यो, तार तार प्रभु ! तार. ॥२॥

(सांभळजो मुनि संयम रागे, उपशम श्रेणि
चढीआरे-ए राग.)

श्री संखेश्वरपार्श्वप्रभु नित्य, मनमंदिरमां धरी-
एरे; ध्यावी गावी पाप गमावी; श्रद्धा समकित वरीएरे.
श्री संखे. ॥१॥ यादवलोकनी जरा निवारी, षड्दर्शन
विख्यातरे; वामानंदन, जगजन रंजक नमतां पावन
गात्रे. श्री संखे. ॥२॥ परपरिणतिथी अष्टकर्म ग्रही,
परभोगीपरकर्तारे; अतुलबलीपण कर्मपिंजरमां, वसियो
निजगुण धरतारे. श्री संखे. ॥३॥ औदारिक वैक्रिय
आहारक, तैजस कार्मण पंचरे; पंचशरोर घर मानी
वसियो, करतो कर्मनो संचरे. श्री संखे. ॥४॥ सुरा-
पानी बकतो फरे वळी, धत्तुरजक्षक जेमरे, अवली
परिणतिथी अहो आतम, स्वरूप भूदयो तेमरे. श्री
संखे. ॥ ५ ॥ भवमां जमतां पुण्योदयथी, सद्गुरु
सहजे मळियारे; बुद्धि शिवसुख पामे अविचल,
सकळ मनोरथ फळियारे. श्री संखे. ॥६॥

(२३९)

मंत्रम्—ॐ नमो जगवते—जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं,
अक्षतं, नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा.

—
पंचमपूजा.

दुहा.

सद्गुरु पंचमहाव्रतो, पंचमहाव्रत धार; चावथी
वास्तुकपूजना, कहेवे अतिसुखकार. ॥१॥ पुद्गलद्र-
व्यथी जिन्न ठे. अचल अमल गुणवान्; शुद्ध बुद्ध
परमात्मा, चिदानंद भगवान्. ॥२॥ घर आत्मनुं
ओळख्युं, जेनो रुडो महेल; वास खरो मुज एहमां,
वसतां शिवसुख सहेल. ॥३॥

(नमोरे नमो श्री शत्रुंजय गिरिवर—ए राग.)

वास्तुकभावपूजा निजजावे, चेतननो शुद्ध
दाखीरे; वास वासे चेतन जे मध्ये, तेहनी पूजा
भाखीरे. श्री. संखेश्वरपासजी गावो. ॥१॥ असंख्य-
प्रदेश आत्मना जाणो, शुद्धवास जीव होयरे; गुण-
पर्याय स्वजाव अनंता, एकेक प्रदेशे जोयरे. श्री
संखे. ॥ २ ॥ ज्ञाता ज्ञेय ने ज्ञान त्रिभंगी, आत्म-

(२४०)

मांही समायरे; अस्ति नास्ति समकाले लाधे, एवो
 आतमरायरे. श्री संखे. ॥ ३ ॥ धर्माधर्मने पुद्गला-
 काश, तेहतणा प्रदेशरे; गुणपर्यायधर्म तसकेरा, नहि
 एक जीव लेशरे. श्री संखे. ॥ ४ ॥ शुद्ध बुद्ध परमा-
 त्मस्वरूपी, अव्याबाध अभंगरे; अविनाशी अकलंक
 अज्ञोगी, भोगो अयोगो असंगरे. श्री संखे. ॥ ५ ॥
 नित्यानित्यने अकानेक, सदसत् भाव विचाररे;
 वक्तव्यावक्तव्य ए आठ-पक्षतणो आधाररे. श्री
 संखे. ॥ ६ ॥ शुद्धस्वरूपी ज्ञानानंदी, चेतनवास कहा-
 यरे; सुख अनंतु चेतनघरमां, वचनअगोचर थायरे.
 श्री संखे. ॥ ७ ॥ आत्मथको छूटे जब कर्म, तव पामे
 शिवस्थानरे; शाश्वतअमलअचलपद जावे, वास्तुक-
 पूजा मानरे. श्री संखे. ॥ ८ ॥ एणोपेरे वास्तुकपूजा
 करशे, ते तरशे संसाररे; बुद्धिसागर क्षायिकसमकित,
 पामी लहे भवपाररे. श्री संखे. ॥ ९ ॥

कलश.

गाइ गाइरे ए वास्तुकपूजा गाइ, अचल अमल
 अजंग महोदय, शुद्धसत्ता निज ध्यायी; समकितदा-

(२४१)

कहेते पूजा, करतां हर्ष वधाइरे. ए वास्तुकपूजा गाइ. ॥ १ ॥ मिथ्यापरिणति नाशक तारक-आत्मस्वजावे सुहाइ; परमात्म पद प्राप्तिकारक, सुखकर समकितदाइरे. ए वास्तुक. ॥ २ ॥ धरणेंद्र पद्मावती देवी, जेहनो सारे सेव; सुरपति यतितति भूपति पूजित, श्री संखेश्वर देवरे. ए वास्तुक. ॥३॥ तास पसाये पूजा रची ए, हर्ष अति दिल लायो; जयजय मंगळ माळा कमळा, आत्ममां प्रगटाइरे. ए वास्तुक. ॥ ४ ॥ जन्मभूमि विजापुरगामे, मासकल्प करी सार; ओगणिश साठ माघ सुदि बारस; रचतां जयजयकाररे. ए वास्तुक. ॥५॥ विद्यादायक धर्मसहायक, गंभीर श्रद्धावत; दोशी नथुजाइ मंगाराम-हेते एह रचंतरे. ए वास्तुक. ॥ ६ ॥ शेठ उगनलाल बेचरकाजे, कीर्धी रचना जावे; संघ सकलमां आनंद मंगल, ऋद्धि वृद्धि सुख थावेरे. ए वास्तुक. ॥ ७ ॥ तपगच्छमंडन हीरविजयसूरि, जस गुण सुरनर गाया; तास शिष्य श्री सहेजसागरजो,

(२४२)

उपाध्याय कहायारे. ए वास्तुक. ॥ ८ ॥ पाटपरंपर
 नेमसागरजी, क्रियावंत महंत; तास शिष्यश्री रवि-
 सागरजी, वैरागी गुणवंतरे. ए वास्तुक. ॥९॥ संवेगी
 आतमगुणरंगी, सुखसागर गुरुराया; गामोगाम
 विहार करंता, विद्यापुरमां आयारे. ए वास्तुक. ॥१०॥
 चढते जावे हर्ष उद्धासे, कीधी रचना एह; जव्य
 जीवने अमृतसम ए, चातकने जेम मेहरे. ए वा-
 स्तुक. ॥ ११ ॥ शांति तुष्टि सुखसंपदा थावे, रोग
 शोग दूर जाय; बुद्धिसागर शाश्वतपद लहो, मुक्ति-
 वधू सुख पायरे. ए वास्तुक. ॥ १२ ॥ श्री संखेश्वर-
 पास प्रभुजो, गातां सुख विशाल; श्री विद्यापुर स-
 कल संघमां, होवे मंगल मालरे. ए वास्तुक. ॥१३॥
 मंत्रम्—ॐ नमो जगवते—जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं,
 दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा.

—•—
 वास्तुकपूजा विधि.

दरेक वस्तु पांच पांच लेवो, अष्टप्रकारी पू-
 जानो सामान लेवो, आठ स्नात्रीया करवा.

(२४३)

एक कळश ग्रहण करे, बीजो केशरनी वाटकी ग्रहण करे, त्रीजो फुलनो हार वा बुटां फुल ग्रहण करे, चोथो धूप, पांचमो दीपक, षठो रकेबीमां अक्षतनो स्वस्तिक लइने उभो रहे, सातमो नैवेद्य लइ उभो रहे, आठमो फळ लइ उभो रहे. दरेक पूजाए अभिषेक करी पूजा करवो.

५ कळश, ५ केशरनी वाटकी, ५ फुलना हार, धूपधाणुं, ५ दीपक, ५ चोखाना साथीआ, ५ नैवेद्य, ५ फळ.

वास्तुकपूजा जेनुं घर करे, अने तेमां प्रवेश करे ते भणावे. तेने घेर आ पूजा भणावतां आनंद मंगळ थाय. रोग, शोक, वहेम सर्वे नाश पामे. नव-स्मरण, कुंजनी स्थापना करी अने दीवो करी जणवां. शक्ति होय तो स्नात्रीयाने जमारुवा. इंद्राणीओ छोकरीओने करे तो करवी.

इति वास्तुकपूजा संपूर्ण

(२४४)

अष्टप्रकारीपूजा.

परमेश्वर महावीर जिन, तीर्थंकर गुणधाम;
 चोवीशमा श्रीजिनपति, सर्वजीवविश्राम. ॥ १ ॥
 अनंतगुण उपकारीजे, शासन नायक देव; द्रव्यभा-
 वथी पूजतां, प्रगटे आनंद मेव. ॥ २ ॥ द्रव्यभावथी
 पूजना, अष्टप्रकारी बेश; करतां नरने नारीओ, दूर
 करे सहु क्लेश. ॥ ३ ॥ महावीरदेवे पूजना, भाखी
 भवीहितकार; ते कारण पूजा रचुं, मनशुद्धि कर-
 नार. ॥ ४ ॥ कारण कार्यनी सिद्धि छे, द्रव्यथी
 भाव सधाय; ऋक्तिमंता धर्मीजन, पूजाथी शिव
 पाय. ॥ ५ ॥

प्रथम जल पूजा.

सांभळरे सहियां हमारी. ए देशोनो चोपाया चाल.
 प्रभु महावीर जग जयकारी, परमेश्वर जिन
 उपकारी; द्रव्य भावथी स्नात्र करीजे, प्रभु उपर
 प्रेम धरीजे. तेथी निजनी पूजावरोजेरे, द्रव्यभा-
 वथी पूजा सारी; मोहवृत्तिने हरनारी. प्रभु. ॥ १ ॥

(२४५)

मेरु उपर प्रभुने लाव्या, जलथी इन्द्रे न्हवराव्या;
 पंचरूप धरी गुणगायारे, तेम स्नात्र करी नरनारी,
 करे समकित शुद्धि अपारी. प्रभु. ॥ २ ॥ जाव
 समकित जल अजिषेके; मिथ्यामेल रहे न विवेके;
 पूजो महावीरजिनने टेकेरे, त्यजी जूठी दुनिया-
 दारी; प्रभु शरण ग्रही हितकारी. प्रभु. ॥ ३ ॥ मों-
 घाकाले नयने दीठा, लाग्या आतमरूपे मीठा; थया
 कुदेव मोही अनीठारे, लागी तुजथकी एक तारी;
 लागी ताह्यरी मूर्ति प्यारी. प्रभु. ॥ ४ ॥ तुज उपर
 जठ सहु वारी, प्रभु ताह्यरो साची यारी; मरुं मर्या
 पहेलां मोह मारीरे, एवी पूजा बनो हितकारी; करो
 करुणा एहवी सारी. प्रभु. ॥ ५ ॥ प्रभु पूजा करुं
 प्रभुरंगे, निज आतम शुद्ध उमंगे; कदि पडुं न
 मिथ्या ढंगेरे, बुद्धिसागर प्रभु अवधारी; लही आ-
 तम सुखनी खुमारो. प्रभु. ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० जलं यजामहे स्वाहा ॥

(२४६)

द्वितीया चंदनपूजा.

चंदनथी प्रभु पूजतां-आतम शीतल थाय.
भावथी समताचंदने, पूजे ते शिवपाय ॥१॥ हर्षभाव
केशर भळे, लाली प्रगटे अंग. श्रद्धा प्रेम सुवासथी,
प्रगटे आनंद रंग ॥ २ ॥

रहो गुरुजी फागण चोमासुरे, ए राग.

प्रभु महावीर जिनवर मळियारे, म्हारा मनना
मनोरथ फळियारे. प्रभु ॥ समताचंदन घसी रंगेरे,
अर्चु महावीर प्रभु अंगेरे; दिख चढता जाव ऊमंगेरे.
प्रभु ॥ २ ॥ शुद्ध अमृतरसनी क्यारीरे, रह्या मोही
जगत नरनारीरे; सत्य सद्भूतमूर्ति प्यारीरे. प्रभु
॥ ३ ॥ प्रभु दोठे ब्रमणा जागीरे, सम्यक्त्वदशा
घट जागीरे, रोमेरोम थयो तुजरागीरे. प्रभुः ॥ ४ ॥
प्रभु मळिया आविर्जावेरे-निजसद्भूत आत्मस्वभा-
वेरे. शमचंदने पूज्या सुहावेरे. प्रभु. ॥ ५ ॥ प्रभु
दिलमांधरी प्रभु थावुंरे, प्रभु चंदन पूजाभावुंरे;
बुद्धिसागर जिनवर गावुंरे. प्रभु ॥ ६ ॥

(२४७)

ॐ ह्रीं श्री. परम० चंदनं, य० स्वाहा ॥

तृतीया पुष्प पूजा.

द्रव्यज्ञावथी पुष्पनी, पूजा प्रभुनी बेश; करतां
दुर्गुण दुःखडां, नासे सघळा क्लेश. ॥ १ ॥ ज्ञावथी
पंचाचार छे, गुणकरपुष्प प्रधान; तेथो जिनवर
पूजतां, बनो स्वयंभगवान् ॥ २ ॥ काल अनादि न
ओळख्यो, ओळख्यो ज्ञाने आज, पंचाचारना पुष्पथी,
पूजुं जिनराज ॥ ३ ॥

सांभळजो मुनि संयम, रागे-उपशम
श्रेणि चढियारे ए. राग.

पूजुं महावीर जिन जयकारो, चिदानंदरूप-
धारीरे; तुज उपयोगे क्षणक्षण जीवुं, भक्तिभाव व-
धारीरे. पूजुं ॥ १ ॥ ज्ञानने दर्शन चरणाचारे, तपने
वीर्याचारेरे; रहेतां द्रव्यने भावथी आतम, धर्मसुगंधी
प्रसाररे. पूजुं. ॥ २ ॥ क्षयोपशमने उपशम क्षायिक,
भावनी शुद्धि वधारेरे; पंचाचार सुपुष्पे पूजा, करतां

(२४८)

शिवपद धारेरे. पूजुं ॥ ३ ॥ मैत्रीप्रमोद मध्यस्थ
 करुणा, सात्विक पुष्पनी माळारे; प्रभुना कंठे प्रेमे
 चढावी, पीवुं प्रभुरस प्याळारे. पूजुं. ॥ ४ ॥ प्रभु
 गुण गावे समरे ध्यावे, आत्म प्रभुरूप थावेरे;
 जेवी जावना तेवी सिद्धि, अंतरमां सुख पावेरे. पूजुं.
 ॥ ५ ॥ हाथे चढियो आंखे देखायो, हवे न छोरुं
 व्थारेरे; बुद्धिसागर आत्मउजागर, उपयोगे निज-
 तारेरे. पूजुं ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० पुष्पं य० स्वाहा.

चतुर्थ धूप पूजा.

द्रव्य भाव वे भेदथी, धूपनी पूजा श्रेष्ठ; क-
 रतां आत्म बळ वधे, पडतुं पशु बल हेठ. ॥ १ ॥
 चारे ध्यानना धूपथी, पूजतां जिनराज; मोहनी
 दुर्गंधी टळे, सिद्धे शिवपद काज. ॥ २ ॥ भावथी
 प्रभुनी पूजना, आत्म पूजा जाण; सम्यग्दृष्टि जी-
 वनी, करणी सर्व प्रमाण. ॥ ३ ॥

(२४९)

झुंमखमानी देशी.

धन्य प्रभु महावीरनेरे, सत्य जणाव्यो धर्म; महावीर पूजीए; बार वर्षना ध्यानथीरे, टाळ्यां घातोर्कर्म. महावीर. ॥१॥ पिरुस्थने पदस्थथीरे, रूपस्थरूपातीत; महावीर. चारध्यानरूप धूपथीरे, आतम शुद्ध प्रतीत. महावीर. ॥ २ ॥ आर्त रौद्रदुर्गधनेरे, टाळो वेगे दूर, महावीर. एकता लीनतायोगथीरे, प्रभुजी हजराहजूर. महावीर. ॥ ३ ॥ धर्म शुक्ल वे ध्यानथीरे, आपोआप प्रकाश; महावीर. ध्यानधूपे प्रभु पूजतारे, व्यक्तानंद विलास. महावीर. ॥ ४ ॥ इयल प्रमरी संगथीरे, प्रमरीरूप सुहाय. महावीर. बुद्धिसागर आतमारे, प्रमुध्याने प्रभु थाय. महावीर, ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० धूपं० यजामहे स्वाहा

पंचमी दीपक पूजा.

पंचमी दीपक पूजना, करतां आत्मप्रकाश; मतिश्रुत ज्ञानना दीपके, मिथ्यातमनो नाश ॥१॥

(२५०)

सम्यग् ज्ञानी जीवने, सवल्लं सह्यु प्रणमाय; आस्र-
व ते परिश्रवणणे, थावे आतममांह्य. ॥ १ ॥ दीपक-
मीसे ज्ञाननो, दीपक जो प्रगटाय; आतम जाणे वि-
श्वनो, ज्ञानी निश्चय थाय. ॥ ३ ॥

जिनपद जगमां याचुं जाणो स्वरूप रमण
सुविलासी. ए राग.

धन्य प्रभु महावीर जिनेश्वर, अनंतगुणा उप-
कारीजी; जेनुं संप्रति शासन वतें, जावदया भंकारी,
जिनवर भजीएजी; पामी सम्यग्ज्ञान, दीपके यजी-
एजी. ॥ १ ॥ दर्शनमोह टळयाथी सम्यग्,—भावे
ज्ञान प्रकाशेजी; मतिश्रुत अविधिने मनपर्यव, केवल-
ज्ञान विकासे. जिन० ॥ २ ॥ मति अट्टावीश त्रणसो
चालीश, भेदे वीरे प्रकाशुंजी; चउद वीश श्रुत जेद
प्रकाश्या, समकितीने विकास्युं. जिन० ॥ ३ ॥ अं-
वधि असंख्यप्रकारे प्रगटे, मनपर्यव बे भेदेजी;
क्षयोपशमजावे ए चारे, ज्ञान ज तमने छेदे. जिन०

(२५१)

॥ ४ ॥ लोकालोक प्रकाशक केवल, ज्ञान ते व्यापक
 एकजी; मतिश्रुत दीपकथी प्रभु पूजे, प्रगटे धर्म
 विवेक. जिन० ॥ ५ ॥ द्रव्य भावथी दीपक पूजा,
 गृही यतिने अधिकारेजी; बुद्धिसागर आतमशुद्धि,
 निश्चयने व्यवहारे. जिन० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परमं दीपं यजामहे स्वाहा.

षष्ठी स्वस्तिकपूजा ॥

स्वस्तिक प्रभुनी आगळे, करतां स्वस्ति थाय;
 द्रव्यभाव स्वस्तिक करे, जव्यो शिवपद पाय ॥१॥
 चतुर्गतिरूप साथीयो, करीने मागो एम; सिद्ध शिला-
 नी उपरे, शिवस्थानक सुखक्षेम ॥ २ ॥ चारकषायथी
 चउगति, कोधां भ्रमण अनंत; स्वस्तिक करी प्रभु
 आगळे, पामो शिवपद संत ॥ ३ ॥

विमलाचलवासो मारा वहाला सेवकने

विसारो नहीं विसारो नहीं. ए राग.

महावीर जिनेश्वर पाये पणुं, तुजरूप बनूं रूप-
 बनूं; समभावे रही एकरूप बनी उपयोगे भणुं योगे

(२५२)

जणुं; चतुर्मतिरूप स्वस्तिक आगळ, दर्शन ज्ञानचा-
 रित्र; त्रण्य पुंजने सिद्ध शिलापर, मुक्तिनुं चिह
 पवित्र; प्रभुतुजरूप. म० ॥ १ ॥ चारे सामायिक
 स्वस्तिकथी, रत्नत्रयीज पमाय; तेथी सिद्धशिला-
 पर मुक्ति, भक्तयोगी झट पाय. प्रभु तुज. म० ॥२॥
 चारे प्रकारे संघनो स्वस्तिक, मंगलरूप सदाय. पा-
 मी त्रिपदो ज्ञान करीने, नक्तयोगी शिवपाय. प्रभु.
 म० ॥ ३ ॥ चार महायम स्वस्तिकरूपी, त्रण गुप्ति
 जे पाय; पूरण आत्मसमाधि पामी, पूर्ण सुखी झट
 थाय. प्रभु. म० ॥ ४ ॥ आध्यात्मिक संकेते ज्ञानी,
 प्रभुने पूजो एम; बुद्धिसागर क्षायिक जावे, पामे
 योगने क्षेम. प्रभुतुज. म० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम० स्वस्तिकं यजामहे स्वाहा॥

सप्तमी नैवेद्यपूजा.

दुहा.

द्रव्यभाव नैवेद्यथी, प्रभुने पूजे जेह; प्रभु स्व-
 रूपे थै रहे, देह उतां वैदेह. ॥ १ ॥ अनुभवनैवेद्ये

(२५३)

भली, आतम पुष्टि थाय; आत्मरसी आतम बनी,
बाह्यरति नहि थाय. ॥ २ ॥ जडरस नैवेद्य मूकीने,
आतमरस नैवेद्य; पामवुं ते प्रभु पूजना, तेथी रहे
नहि वेद. ॥ ३ ॥

व्हाला वीर जिनेश्वर जन्म जरा निवारजोरे. ए राग.

व्हाला आतम वीर जिनेश्वर पूजुं भावथीरे,
सहेजे आनंदनैवेद्ये पूजु गुणदावथीरे; आतम
रस प्रगटातो ज्यारे, बाह्यमां रसनी त्रांति न त्यारे;
जडमां बंध न मुक्ति सहजत्ताव उपयोगथीरे. व्हाला.
सहेजे० ॥ १ ॥ तुजरसमां रंगाया जेश्यो, पछोथी
नहि जडरसिया तेओ; एवी नैवेद्य पूजाए पूजुं
उमंगथीरे. व्हाला. स०॥२॥ तुज मुज अंतरूचेद ज
भागे, आतम आपस्वरूपे जागे; पढीथी शांति
तुष्टि पुष्टि सहज स्वभावथीरे. व्हाला० ॥ ३ ॥ एवी
पूजा यातां सारो, प्रगटे आनंद पूर्ण खुमारी; पढीथी
दुःख रहे नहि जडवस्तुना अत्तावथीरे. व्हाला०
॥ ४ ॥ जीवन्ती प्रभु पूजा एवी, उपयोगे अंतरूमां

(२५४)

लेवी; पामे बुद्धिसागर आनंद आत्मस्वभावथीरे.
व्हाला० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्री० य० नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥

अष्टमी फलपूजा.

मुक्ति फलने पामवा, फलथी पूजुं देव; फलथा
फल निश्चय मळे, नासे मोहनी टेव. ॥ १ ॥ द्रव्य-
भाव बे भेदथी, निश्चयने व्यवहार, सापेक्षे फल
पूजना, उपयोगे सुखकार. ॥ २ ॥ विनयने बहुमा-
नथी, श्रद्धा प्रीतियोग; फलपूजा जिनराजनी, क-
रतां शिवसंयोग. ॥ ३ ॥

उत्तम फलपूजा कीजे, ए राग.

धन्य महावीर उपकारी, त्रिशलानंद जयकारी;
सिद्धारथकुलमनोहारीरे, लगनी तुज साथे लागी.
भाग्य दशा पूरण जागीरे ॥ लगनी ॥ तुजरूपे
थइयो रागीरे. लगनी ॥ १ ॥ पूरणरागे घट धार्यो,
नाठो मोह घणुं हार्यो; मरुं न हवे कोथी मार्योरे.

(२५५)

लगनी. ॥ २ ॥ फलपूजा करतां भावे, उपयोगे
 शिवफल पावे; भक्ति नकामी नहि जावेरे. लगनी.
 ॥ ३ ॥ समकितोनी सहु करणी, मोक्षमहेलनी
 निःसरणी; पूजादिक निर्जर वरणीरे. लगनी. ॥ ४ ॥
 तुज श्रद्धा प्रीति साची, जडनी माया सहु काची;
 माची रह्यो तुजमां राचोरें लगनी. ॥ ४ ॥ निष्कामे
 सेवाजक्ति, करतां प्रभु प्रगटे शक्ति; बुद्धिसागर
 प्रभुव्यक्तिरे. लगनी. ॥ ६ ॥

 कलश.

गायो गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो, त्रिश-
 लानंदन शासन नायक; परमेश्वर जगरायो; अष्टप्र-
 कारो पूजा रचीने, जावथी गायो ध्यायोरे. महा-
 वीर. ॥ १ ॥ चउनिक्षेपे सातनयोथो, पूजा पूज्यने
 जाणी; द्रव्यने भावथी पूजा करतां, पामे मुक्ति
 निशानीरे ॥ महावीर. ॥ २ ॥ सम्यग् दृष्टिने द्रव्य-
 ने भावथी, पूजा शिवसुखकारी; चढतेभावे निर्जरा-

(२५६)

कारी, मुक्ति अनुजवधारीरे. महावीर. ॥ ३ ॥ ऋक्त-
 जनां भक्तिरस पावे, भावे ते चित्तलावे; ऋक्तिथी
 चित्त शुद्धिने ज्ञाने, क्षणमां मुक्ति सुहावेरे. महावीर.
 ॥ ४ ॥ श्रद्धा प्रीति सेवाऋक्ति, करनारां नरनारी;
 निश्चयमुक्ति पदने पामे, उपयोगे गुणधारीरे. महा-
 वीर. ॥ ५ ॥ वीरजिनेश्वरऋट्ट परंपर, तपगच्छी
 सूरिराया; जगगुरु हीर विजय सूरि मोटा, नरपति-
 सुरपति गायारे. म. ॥ ६ ॥ षट्परंपर सागर शाखे,
 रविसरखा गुरुराया. रविसागर गुरु पूर्णप्रतापो, चार-
 तसंत सुहायारे. म. ॥ ७ ॥ तस शिष्य संवेगी
 मुनिशेखर, सुखसागर गुरुराया; तास कृपाए पूजा
 रचीने, आनंद अतिशय पायारे. म. ॥ ८ ॥ ओग-
 णिश अठ्योत्तर चैत्रीसुदि, नवमीने गुरुवारे; विजा-
 पुरमां चढता पहोरे, पूजा रची प्रजुप्यारेरे. महा-
 वीर. ॥ ९ ॥ प्रभुमय मनवच काया थाशो, भक्तिगुण
 प्रगटाशो; शुद्धातम महावीरोपयोगे, आयु एम व-
 हाशोरे. म. ॥ १० ॥ अनुजव आनंद प्रगटयो न

(२५७)

दूषे, दूषे न जानु दूषायो; बुद्धिसागर आनंद मंगल,
आतम तेजे सुहायोरे. म. ॥ ११ ॥

ॐ प. महावीर जिनेन्द्राय फलं य. स्वा.

महागुरु श्री रविसागर गुरुपूजा.

प्रथम सद्गुरु संगति जलपूजा.

परमेश्वर महावीर जिन, चोवीशमा जिनदेव;
परमब्रह्म परमातमा, तीर्थकर करुं सेव. ॥१॥ गण-
धर गुणवंता गुरु, श्री सुधर्म प्रधान; गणधर पद परं-
परा, श्वेतांबर गुणवान्. ॥२॥ वडगह्वथो तपगह्वनी,
परंपरा वर्ताय; जगगुरु हीरविजयसूरि, थया महा-
गुरु राय. ॥ ३ ॥ विद्यासागर मुनिवरा, सहज सा-
गर मुनिराज; पट्ट परंपर शोभता, संवेगो शिरताज.
॥ ४ ॥ नेमिसागर मुनिवरा, व्रताचारि गुणवंत; तास
शिष्य गुण गणधरा, रविसागरजी संत. ॥ ५ ॥ गुरु
पूजा रचु जावथी, मुनि परमेष्ठी जेह; गुणी गुण
गातां जावतां, पवित्र मनवच देह. ॥ ६ ॥

(२५८)

॥ मेतारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार. ॥

मरुदेशे शुभ पाली नगरे, श्रावक कुलमांही
 चंद; श्रेष्ठी राघवजी गुणवंता, पत्नी माणिक गुण-
 वंत; तस कुखे जन्म्या रवचंद पुत्र उदार. ॥ १ ॥
 अनंत पुण्ये श्रावक कुलमां, जन्म जवनो थाय;
 अनंत पुण्ये संत समागम, धर्मरुचि प्रगटाय; श्री
 जैन धर्मनो जगमां छे आधार. ॥२॥ मात पितानी
 साथे आव्या, आजीविका हेत; नेमिसागर गुरुजी
 मळिया, पूर्व पुण्य संकेत; शुभ साधु संगति भवी
 जीवने हितकार. ॥ ३ ॥ साधु संगे देवगुरुने, धर्मनी
 श्रद्धा थाय; मिथ्या बुद्धि झट टळेने, सत्यबुद्धि प्रग-
 टाय. शुभ. ॥ ४ ॥ गुरु सेवा भक्ति करेजी, विनय
 धरी बहुमान; बुद्धिसागर सद्गुरु संगे, प्रगटे कोटि
 कट्याण. शुभ० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं गुरुपद पूजाय जलं. य. स्वाहा ॥

(२५९)

द्वितीया चंदन पूजा गुरुमुख आगमश्रवण.

दुहा.

गुरुपासे नित्य सांभळे, आगम शास्त्र प्रमाण;
जिनवर वाणी सांभळे, प्रगटे मतिश्रुतज्ञान. ॥ १ ॥

मुखलवइ विजय जयोरे ए राग.

विनय अने बहुमानधीरे, करी गुरुनी सेव;
जे गुरुवाणी सांभळेरें, ते पामे शिवमेवरे भविका;
सुणजो गुरुगमशास्त्र. ॥ १ ॥ गुरुमुखे आगम सां-
भळेरें, ते धन्य धन्य नरनार; धर्मशास्त्रना बोधधीरे,
सफल मनु अवताररे. ज० ॥ २ ॥ गुरुसेवा चक्ति
बळेरें, सम्यग् प्रकटे ज्ञान; नगुरा नास्तिक प्राणि-
यारे, धारे दिख अज्ञानरे. ज० ॥ ३ ॥ गोतार्थ गुरु-
गमवडेरें, विघटे मिथ्याबुद्धि; वैयावच्ची प्रेमथोरे,
करतो हृदयनी शुद्धिरे. ज० ॥ ४ ॥ गुरुमुखे तत्त्वने
सांभळेरें, ज्ञाननी वृद्धि थाय; गुरुश्रद्धा प्रीतिबळेरें,
सवळुं सहु प्रणमायरे. ज० ॥ ५ ॥ गुरुमुखथी शास्त्रो
सुणीरे, पाम्या रवचंद ज्ञान; देवगुरुने धर्मनीरे, श्रद्धा

(२६०)

प्रगटी प्रमाणरे. भ० ॥ ६ ॥ नयगम भंग प्रमाण-
थीरे, आतम ज्ञान सुहाय; बुद्धिसागर गुरुमुखेरे,
धर्म सुणे शिव थायरे. भ० ॥ ७ ॥

ॐ ह्री श्री आगम श्रवणार्थं गुरुपद भक्तये चंदनं.

य० स्वाहा ॥

सम्यक्त्वग्रहणरूपा तृतीया पुष्पपूजा.

गुरु आगम आलंबने, समकित श्रद्धा थाय;
उपशम क्षयोपशम तथा, क्षायिक घट प्रगटाय.
॥ १ ॥ व्यवहारे समकिततणां, कारण जेह गणाय;
ते अवलंब्या भविजना, समकित भाव सुहाय. ॥२॥
समकित पाम्यो आतमा, कर्मोदये जटकाय; उच्च
नीच जव पामतो, अंते मुक्ति पाय. ॥ ३ ॥

कानुको न जाणे मारी प्रीत. ए राग.

समकित पामो नरने नार, गुरुमुख बोध ग्रही-
नेरे. समकित० देवगुरुपर रुचि, समकित प्रगट्यां
थावे; प्रगटे पूरण श्रद्धा प्रेम, ब्रह्मनो बोध वहीनेरे.

(२६१)

समकित० ॥ १ ॥ द्रव्यधी भाव जे आवे, व्यवहारे निश्चय आवे; कारणयोगे कार्य सधाय, आतमधर्म स्वजावेरे. समकित० ॥ २ ॥ सम्यग्जावे जाणे, समकित्ती आतमज्ञाने; आस्रव हेतु जेने थाय, संवरभावे सुतानेरे. समकित० ॥ ३ ॥ मिथ्याशास्त्रो पण सवळां, कोइ न थातां अचळ्यां; सम्यग्दृष्टियोगे हेतु, -सर्वे थाता सवळारे. समकित० ॥ ४ ॥ समकितमां छे शक्ति, प्रगटावे केवल व्यक्ति; जडमां प्रगटयो मोह विजावं, टाळे झट आसक्तिरे. समकित० ॥ ५ ॥ सहुरु संगे प्रगटे, मिथ्याबुद्धि झट विघटे; नगुरा नास्तिक मूढाळोक, मिथ्याज्ञाने भटकेरे. समकित० ॥ ६ ॥ नेमिसागरजी बोधे, रवचंद तच्चो शोधे; पाम्या द्रव्यजाव समकित, मोहनी वृत्ति रोधेरे. समकित० ॥ ७ ॥ व्यवहारे समकित ग्रहियुं, आंतर जावे वहियुं; सम्यग् दृष्टि अघ्यात्मरूपज अंतर लहियुंरे. समकित० ॥ ८ ॥ देवगुरुपर भक्ति, धर्मनी साचो प्रीति; बुद्धिसागर गुण सम्यक्त्व, प्रगटे धर्मनी रीतिरे. समकित. ॥ ९ ॥

(२६२)

देशविरति व्रतग्रहणरूपा चतुर्थी धूपपूजा.

समकित परिणति बल्लवडे, विरति प्रगटे खास;
 विरतिथी होय निर्जरा, कर्मक्षये शिववास. ॥ १ ॥
 समकितवण व्रततपवडे, मळे न साचीमुक्ति; सम्य
 ग्दृष्टिजीवनी, सफळी सर्व प्रवृत्ति. ॥ २ ॥ समकित
 योगे उपजे, मनमां विरतभाव; भावविरति, सम-
 कित्तीने, प्रगटे निमित्तदाव ॥ ३ ॥

सांभळशो मुनि संयमरागे ए राग.

श्रावकव्रतनी छे बलिहारी, धर्मीने हितकारीरे;
 गुरुपासे उच्चरी नरनारी, पामे भवोदधि पारीरे.
 श्रावक. ॥ १ ॥ पंचमगुण स्थानक देशविरति, देश
 उपाधि हठावेरे; जे जे अंशे निरुपाधिकता, ते अंशे
 सुख थावेरे. श्रावक. ॥ २ ॥ सम्यग्दृष्टिने व्रताकि-
 रिया, मुक्तिहेते थावेरे; समकितदायक गुरुक्तिए,
 मुक्ति अनुभव थावेरे. श्रावक. ॥ ३ ॥ नेमिसागर
 गुरुनी पासे, रवचंद भावे रहियारे; श्रावकनां व्रत

(२६३)

बारे ग्रहियां, शुद्धभावे गहगहियारे. श्रावक. ॥ ४ ॥
 षडावश्यक भावे साधे, गुरुने मुनि आराधेरे; चढता
 जावे निशदिन बाधे, प्रगट्या गुण न विराधेरे.
 श्रावक. ॥ ५ ॥ देवगुरुने धर्मनी सेवा, करता मुनि
 व्रत इच्छारे; गुरुने विनवे आपो मुझने, सर्व विर-
 तिनी दोहारे. श्रावक. ॥ ६ ॥ सर्व विरति लेवानो
 इच्छा, श्रावकने होय नकोरे; बुद्धिसागर आत्मब-
 ल्छी, पामे दीक्षा पक्रीरे.

ॐ ह्रीं श्रीं अर्हसद्गुरुभक्तये, धूपं. य. स्वाहा ॥

पंचमहाव्रत सर्वविरतिग्रहणरूपा पंचमोदोपपूजा.

देशथी सर्वविरतिविषे, अनंती आत्मशुद्धि,
 प्रगटे आत्मानंदता, क्षयोपशमगुणरुद्धि. ॥ १ ॥
 छटागुणस्थानकतणो, क्रिया द्रव्य चारित्र; भावथी
 विरतिपरिणति, प्रगटे आत्मपवित्र. ॥ २ ॥ गृहस्थ-
 थको त्यागी मुनि, अनंतगुण छे महान्; क्या
 सर्षपने सुरगिरि, चारित्रगुण बलवान् ॥ ३ ॥ व्यव-

(२६४)

हारे मुनिसद्गुरु, जैनागमथी प्रमाण; सर्वविरति
 चारित्रथी, प्रगटे केवलज्ञान. ॥ ४ ॥ द्रव्यज्ञाव चा-
 रित्रनी, इच्छा जेने होय; समकित्ती देशविरति,
 भावथकी ते जोय. ॥५॥ गृहस्थभावे भावना, मुनि
 पद लेवा काज; अवसर बल प्रगटे तदा, दीक्षा ले
 शिवसाज. ॥ ६ ॥

सिद्धिएनमो सिद्ध अनंता, ए राग.

धन्य धन्य मुनि अनगारी, सर्वविरति चारित्र
 धारी; जेह सर्वजीव उपकारोरे, संयमी गुरुजी नमो
 गुणकारी. नमो आतम उपयोग धारोरे, संयमो.
 ॥ १ ॥ द्रव्यने ज्ञावथी हिंसाटाळे; जेह उत्सर्ग अप-
 वादे चाले, सत्य वदता अस्तेयने पाळोरे. संयमो.
 ॥ २ ॥ द्रव्यज्ञाव ब्रह्मचर्यनाधारी, नवविध परिग्रहना
 जे निवारी, रात्री भोजनना परिहारोरे. सं. ॥ ३ ॥
 चारित्र एवुं धरे व्यवहारे, निश्चयथी निज उपयोग
 म्हाळे, नेमिसागर गुरु कलिकालेरे. संयमी. ॥ ४ ॥
 संवत ओगाणिसे सातनी साले, मौन एकादशो

(२६१)

शुभवारे, गुरुपासे दीक्षा ग्रही म्हालेरे. सं. ॥ ५ ॥
 नाम थापियुं रविसागर मुनिराया, गुरुराजना निश-
 दिन सेवे पाया, बुद्धिसागर गुरु गुण गायारे.
 संयमी. ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्री अर्हगुरुपूजार्थ दीपं. य. स्वाहा.



गुरु कुलवास वैयावृत्य विनय करणरूपा.

॥ ठगी अक्षतपूजा ॥

गुरुकुल वासी गुरुवरा, पामे जगमां मान; ए-
 कल विहारोने नहिं, तप संयम जप ध्यान. ॥ १ ॥
 गुरुपासां जे सेवता, रही गुरुनी पास; शिष्य धर्म जे
 पालता, बनी गुरुना दास. ॥ २ ॥ गुरुकुलवास रखा
 मुनि, संयममां स्थिर थाय; बहुश्रुत अनुभव पा-
 मता, ऋष्टपणुं नहि पाय. ॥ ३ ॥

ऋवि तुम वंदोरे सातमुं पद भळुंरे. ए राग.

गुरुकुल वासोरे मुनि गुरुवंदतांरे, आतम शुद्धि
 थाय; गुरुने स्वार्पणभावे जे सेवतारे, स्वर्ग अने शिव

(२६६)

पाय. गुरु० ॥ १ ॥ आचारांगने दश वैकालिकेरे, गुरु
 कुल वास वखाण; उत्तराध्ययने वैयावच्चोनोरे, पडतो
 थाय न जाण. गुरु० ॥ २ ॥ गुरु वैयावच्च योगे गुण
 वधेरे, गुण प्रगदया नहि जाय; गुरुना विनय अने
 बहुमानथीरे, मति श्रुत वृद्धि थाय. गुरु० ॥ ३ ॥
 गुरुनी आपी शिक्षाओ ग्रहेरे, गुरु आशय सहू जा-
 ण; अचळामांथी पण सवलुं ग्रहेरे, समतादिक गुण
 खाण. गुरु० ॥ ४ ॥ आतम उपयोगे करणी करेरे,
 चढता भावे सदाय; गुरु आज्ञामां अर्पाइ जतोरे,
 गुरुपर श्रद्धा प्यार. गुरु० ॥ ५ ॥ द्रव्यने गुण पर्या-
 यथी आतमारे, नयथी जाणे तच्च; आतम शुद्ध
 स्वरूपे परिणमेरे, पामे उत्तम सच्च. गुरु० ॥ ६ ॥
 गुरुनी श्रद्धा प्रीतियोगथीरे, प्रगटे आतमज्ञान;
 स्वाभाविक ए जगमां कायदोरे, पाळे ते गुणवान्.
 गुरु. ॥ ७ ॥ नेमिसागर गुरुनो पासमारे, रविसागर
 मुनिराज; रहीने गुरुनी सेवाज्जक्तिथीरे, साध्यां आ-
 तम काज. गुरु० ॥ ८ ॥ गुरु आज्ञामां धर्मने जाणी

(२६७)

नेरे, साधे आताम धर्म; बुद्धिसागर गुरुनी महेरथीरे,
प्रगटे मुक्तिशर्म. गुरु० ॥ ९ ॥

ॐ गुरुपदपूजार्थं अक्षतं य० स्वाहा ॥

सप्तमी चारित्राराधनरूपां नैवेद्यपूजा



दोहरा.

गुरु आज्ञाए वर्ततां, संयमयोग सधाय; आस्र-
वना पण हेतुअ्यो, संवर हेतु थाय. ॥ १ ॥ आतमना
उपयोगथी, कर्मोदयमां धर्म; थातो निश्चयभावथी,
करतां बाहिर कर्म. ॥ २ ॥ आतमगुणमां रमणता,
ते चारित्र सुहाय; आत्मरमणता कारणो, ज्ञानोने
सहु थाय. ॥ ३ ॥

तेजे तरणिथो वमोरे. ए राग.

ग्राम नगर पुर विचरतारे, पाळे पंचाचार; चा-
रित्र लहीने पाळवुंरे, शूरानो व्यवहार हो. जगमां,
चारित्र पाळवुं दोहिलुंरे. ॥ १ ॥ गुर्जर सोरठ देश-
मांरे, विचरे दे उपदेश; तप तपता जणे आगमोरे,

(२६८)

सहे परिषह ने क्लेश हो. जगमां चा० ॥ २ ॥ नेमि
सागर गुरुवररे, निजपट्टे गुणी जाणु; थाप्या रवि-
सागर गुरुरे, सर्व समय सावधान हो. जगमां चा०
॥ ३ ॥ धर्मक्रिया योगी मुनिवरारे, सागरवर गंभोर;
सिंहनो पेठे पराकमीरे, मेरुपेठे धोर हो. जगमां
चा० ॥ ४ ॥ मूळ उत्तर चारित्रनोरे, धरता शुभ
व्यवहार; धर्म प्रभावना बहु करेरे, सुधरावे आचार
हो. जगमां चा० ॥ ५ ॥ कहेणी रहेणी जेहनीरे,
सरखो मुनि शिरदार; ते कालनामुनिवृन्दमांरे; उ-
त्कृष्टा अनगार हो. ज० चा० ॥ ६ ॥ भावसागरजी
नामनारे, शिष्य कर्या अनगार; बीजा सुखसागर
कर्यारे, समता गुणभंडार हो. ज० चा० ॥ ७ ॥
जाणे गुरुनुं सहु गुरुरे, गुरुथी जेह अजिन्न; बुद्धिसा-
गर सद्गुरुरे, समभावे लयलीन हो. ज० चा० ॥८॥

ॐ गुरुपदपूजार्थं नैवेद्यं य० स्वाहा० ॥

अष्टमी ध्यानसमाधिरूपा फलपूजा.

ध्यान समाधि योगथी, प्रगटे सहजानन्द; स-
हजानन्दने पामवा, धर्म प्रवृत्ति वृन्द. ॥ १ ॥ दर्शन

(२६९)

ज्ञानने चरणमां, वर्ते सहज समाधि; आतम आन-
न्दफलतणा, स्वादे रहे नहि आधि. ॥ २ ॥ आतम
आनन्द पामवा, ध्यान समाधि योग; उपादान
कारण कह्युं, निमित्त गुरु संयोग. ॥ ३ ॥

जिनपद जगमां जाचुं जाणो-ए राग.

सर्व विरतिधर गुरु जयकारी, नमुं पूजुं उप-
कारीजी, समकित चारित्रदायक गुरुनो, जगमां ठे
बलिहारी; गुरुजी जजीए जी, पामी गुरु उपदेश,
मोहने तजीए जो ॥१॥ आर्त रौद्रने प्रगटयां त्यागे,
धर्मध्यानमां जागेजी; वर्ते आतमगुणना रागे, रहेता
जे वैराग्ये. गुरु० ॥ २ ॥ वर्ते आतमगुण उपयोगे,
आतम आनंदभोगेजी; दिलमां रहे नहि हर्षे
शोके, क्षण न रहे जे ढोंगे. गुरु० ॥ ३ ॥ आतमना
उपयोगे म्हाले, आतम गुण अजुवाळेजी; मोहास-
क्तिनां बी बाळे, चारित्र एवुं पाळे. गुरु० ॥ ४ ॥
ध्यानसमाधि योगे रमता, मोहवने नहि भमताजी;

(२७०)

सर्व कार्य करंतां समता, ज्ञाने मोहने दमता. गुरु
 ॥ ५ ॥ क्षयोपशम आनंदने पामे, अंतरमां विश्रामे
 जी; निश्चय ठरता अनुभव ठामे, पडे न मिथ्या
 भामे; गुरु. ॥ ६ ॥ आतम सुख फल पूजाए जे, परम
 प्रभुने पूजेजी, गुरु रविसागर गुरु सुखसागर, पूजंतां
 मोह धूजे. गुरु. ॥७॥ मेसाणामां वृद्धपणामां, रहीने
 आतमध्यावेजी; सुढतालीश वर्षतक संयम; पाळी
 मोह हठावे. गुरु. ॥८॥ संवत् श्योगणिशचोपनसाखे,
 वदि एकादशी आवेजी; जेठ मासमां चढता प्रहरे,
 गुरुजी स्वर्ग सिधावे. गुरु. ॥ ९ ॥ आत्मोपयोगे जड
 चेतनमां, समजावे परिणामीजी; बुद्धिसागर सद्गुरु
 वंदु, अतिजावे शिरनामी. गुरु. ॥ १० ॥

कलश.

गाया गायारे एम गुरुगुण भावथी गाया. नेमि-
 सागरजी रविसागरजी, सुखसागरगुरु गाया; द्रव्य-
 जावथी गुरुपद पूजा, करतां जाव चढायारे. एम.
 ॥१॥ तपगच्छजगगुरुहीरविजयसूरि, पट्ट परंपरआया;

(२७१)

समकितचारित्र गुण प्रगटाया, आतम अनुभव
पायारे. एम. ॥२॥ गुरुने गातां गुरुगुण प्रगटे, निश्चय
एह जणाया; ओगणिश अठ्योतर चैतरनी, पूर्णिमा
पूजा रचायारे. एम. ॥ ३ ॥ गुर्जरदेश विजापुरमांही,
पूजारची सुखकारी; संघ चतुर्विध मंगलकारी, शांति
पुष्टि करनारीरे. एम. ॥ ४ ॥ गुरुने गातां प्रगटी-
खुमारी, उतरे ते न उतारी; बुद्धिसागरगुरु जयकारी,
पूजो नवी नरनारीरे. एम. ॥ ५ ॥

श्री सद्गुरु सुखसागर गुरुपूजा.

प्रथम सेवारूप जलपूजा.

दोहरा.

प्रणमं श्री परमात्मा, तीर्थकर महावीर; गौ-
तम आदि सूरिवरा, अनेकगुण गंभीर. ॥ १ ॥
श्वेतांबर तपगच्छमां, अनेक मुनि गुणवंत; संप्रति
जे जग विचरता, तेमां उत्तम संत. ॥२॥ श्री सुख-
सागर मुनि गुरु, थया जगत् विख्यात; सर्व गच्छ

(२७२)

मुनिवृन्दथी, वखणाया जगत्रात ॥ ३ ॥ गुरु गातां
स्तवतां थकां, पूजंतां सुख थाय; ते कारण गुरु पू-
जना, रचतां मुक्ति सुहाय. ॥४॥ गुरु चरण स्थापी
करी, पूजा अष्ट प्रकार; द्रव्य भावथी जे करे, ते
तरतां नरनार. ॥ ५ ॥

मेरु शिखर न्हवरावे हो सुरपति, ए राग.

सद्गुरुजग उपकारी हो, सद्गुणी; सद्गुरु जग
उपकारी; समकित चारित्र दाथक सद्गुरु, जगमां
तुज बलिहारी; सर्वजावे तुजमां अर्पावुं, सद्गुरु
सेवा ए सारी हो. सद्गुणी. स० ॥ १ ॥ नाम रूपनो
भोह निवारी, आतम जाव समारी; व्हाळुं सहु तुज
उपरे वारो, सेवा करुं सुखकारी हो. स० ॥ २ ॥ प-
वित्र सेवा जलथी पूजुं, तुज चरण उपकारी; पुष्ट
निमित्त गुरुजी कलिकाले, आतम शुद्धिकारी हो.
स० ॥ ३ ॥ कुंजे बांध्युं वारि रहे पण, घटवण होय
न पाणी; ज्ञाने मनवश पण गुरु मळतां, ज्ञान प्रगट

(२७३)

गुणखाणी हो. स० ॥ ४ ॥ गुरुजी मळिया फेरा ट-
ळिया, गुरुसेवामां हाळिया; सुखसागर गुरु पूजा
करतां, बुद्धि वंछित फळियां हो. स० ॥ ५ ॥
ॐ अर्हे श्री सद्गुरु चरण पूजार्थ जलं. य. स्वाहा.॥

द्वितीया गुरु समतारूपा चंदनपूजा.

आतमने शीतल करे, समता चंदन मान; स-
मता चंदन पामोने, पूजुं गुरु गुणखाण. ॥ १ ॥ भव-
दव ताप शमाववा, समता चंदन बेश; गुरु हृदयमां
जो वसे, तो प्रगटे नहि क्लेश. ॥ २ ॥

ध्रुवपद गोडी राग.

लगनी श्री सद्गुरुथी लागी, ब्राति ब्रमणा भ-
गीरे; रंगायो रागी थै रंगे, जोयुं हवे घट जागीरे.
लगनी० ॥ १ ॥ मुखथी महावीर जाप जपंता, आ-
तमना उपयोगीरे. सरल हृदयने समता गुणमथ,
भासक निजगुणचोगीरे. लगनी० ॥ २ ॥ प्रेमो
थेने परख्या पूरा, निश्चय निर्मलनूरारे; सत्ताए पर-

(२७४)

मातम सद्गुरु, संयमपावन शूरारे. लगनी० ॥३॥
 आतमअसंख्यप्रदेशे समता, चंदनपूजा करतारे,
 बुद्धिसागर आतम सद्गुरु, पामी जवी शिव वर-
 तारे. लगनी. ॥ ४ ॥

ॐ ह्री श्री अर्ह सद्गुरु चरणपूजार्थं चंदनं,
 यजामहे स्वाहा ॥

तृतीया गुरुगुणराग ग्रहणरूपा पुष्पपूजा.

सद्गुरु गुणरागी बनी, गुरुगुणनो फेलाव; करी
 ए विनयने मानथी, एछे पूजनल्हाव. ॥ १ ॥ गुरु-
 रागे गुण संपजे, गुरु निंदे गुण जाय; गुरुनी श्रद्धा
 प्रीतिथी, गुरुना गुण ग्रहवाय. ॥ २ ॥ गुरुनी श्रद्धा
 प्रीतिथी, गुरुनो बोध ग्रहाय; सेवा जक्ति संपजे,
 सगुराने समजाय. ॥ ३ ॥

निशानी कहा बतावुंरे—राग.

गुरुनी करुणा सारो रे, जेथी थतो रंक राय.
 गुरुनी. गुरु करुणा गुरु रागथीरे, तनमन अप्ये प्राण;
 जेओ प्रभुपद पामियारे, गुरु कृपा त्यां जाण. गुरु.॥१॥

(२७५)

गुरुनी रीझमां विश्वनीरे, खोज न गणवी लगार;
 गुरुरागे रंगाङ्घारे, ते धन्य धन्य नरनार. गुरु. ॥१॥
 नगुरा नास्तिक लोकधीरे, जेह नहीं भरमाय; शिर-
 म्नाटे गुरु सेवनारे, पामे करुणा सहाय. गुरु. ॥ ३ ॥
 गुरु कृपा ते जन लहेरे, गुरुरूप थै जाय; निष्कामी थै
 गुरु जजेरे, गुरुथी अलगोन थाय. गुरु. ॥४॥ गुरुरागी
 गुरुगुण ग्रहीरे, सुखसागर महाराज; गुरुगुणप्रेमसु
 पुष्पधीरे, पूजे शिव साम्राज्य. गुरु. ॥ ५ ॥ द्रव्यभाव
 गुरु रागियारे, करता आतमशुद्धि; बुद्धिसागर आत-
 मारे, आविर्भावे ऋद्धि. गुरु. ॥ ६ ॥
 ॐ ह्रीं श्रीं सद्गुरुरूपद पूजार्थं पुष्पं यजामहे स्वाहा॥



चतुर्थी गुरुनाम मंत्रजापरूप धूपपूजा.

सद्गुरुनामने स्थापना, द्रव्यभाव निक्षेप; साचा
 ते अवलंबतां, रहे न कर्मनी रेख. ॥ १ ॥ सद्गुरु
 नामना जापथी, मोह न आवे पास; प्रभु महावीर
 नामना, जापे सद्गुण वास. ॥ २ ॥ सद्गुरु, नामना

(२७६)

जापथी, आतमशुद्धि थाय; द्रव्यभावथी धूपनी,
पूजा छे शिवदाय. ॥ ३ ॥

सारंगराग.

रीझीए रीझीए रीझीए, गुरुनाम जपो दिल
रीझीए; गुरुसंगी रसिया थै रागे, आतमरसने पीजीए.
गुरु. ॥ १ ॥ गुरुना द्वेषी नास्तिकजननी, संगति
क्यारे न कीजीए; गुरुना रागी भक्तनी संगे, आत-
मरसने खीजीए. गुरु. ॥२॥ समकित्ती चारित्री गुरु-
पर, शंकादि न धरीजीए; कडवी शिक्षा अमृतसरखी,
मानी क्यारे न खीजीए. गुरु. ॥ ३ ॥ आतम सर्वे
गुरुने निवेदी, गुरुभक्तिरस पीजीए; गुरुनिन्दक प्रति-
पक्षी वचनपर, विश्वास क्यारे न दीजीए. गुरु. ॥४॥
गुरुनाम जापनी धूपपूजाथो, दुर्गधमोह हरीजीए;
बुद्धिसागरसद्गुरुजापे, प्रभुपद सहेजे वरीजीए.
गुरु० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं अँर्हं गुरुपद पूजार्थं धूपं यजामहे स्वाहा.॥

(२७७)

पंचमी गुरुगम ज्ञानरूप दीपकपूजा.

गुरुथी ज्ञान प्रकाश छे, गुरुवण छे अज्ञान; गुरु-
गम वण शास्त्रो भणे, थाय न सम्यग्ज्ञान. ॥ १ ॥
जैनागम शास्त्रो सकल, गुरुगमथी समजाय; गुरुनी
सेवा नक्तिथी, सवलुं सहु प्रणमाय. ॥ २ ॥ नयगम
भंग निक्षेपथी, षड्द्रव्यादिक ज्ञान; गुरुमुखथी श्र-
वणे सुणी, करीए प्रगटे सान. ॥ ३ ॥

ध्यानक्रियां मनमां आणीजे ए राग.

गुरुनी सेवा भक्ति करंतां, सम्यग्ज्ञान लही-
जेरे; सम्यग् मति श्रुत ज्ञान प्रगटतां, आतमरूपे
वहीजेरे; गुरुगम ज्ञान करो नरनारी. ॥ १ ॥ गुरु वि-
नये ने गुरु बहुमाने, गुरु आणाने पाळरे; गुरुमाटे
स्वार्पण भाक्तिए, प्रगटे ज्ञान सुचालेरे. गुरु. ॥ २ ॥
गुरु कृपाथी सम्यग्दृष्टि, प्रगटे सर्व छे सवलुंरे; गुरु
कृपा वण आपमतिने, मिथ्यादृष्टिए अवळुंरे. गुरु.
॥ ३ ॥ गुरुकृपा प्रगटे एम वतें, विनयी जे नर-

(२७८)

नारीरे; परमात्मपद वेगे पामी, मुक्ति लहे अवि-
कारीरे. गुरु. ॥ ४ ॥ मतिश्रुतथी अवधि मनपर्यव,
केवलज्ञान प्रकाशेरे; गुरुसुखसागर पूर्णकृपाथी, बुद्धि
प्रभुपद पासेरे. गुरु. ॥ ५ ॥

ॐ अँहँ गुरुपद पूजार्थं दीपं यजामहे स्वाहा ॥

षष्ठी पंचाचारपालनरूपा अक्षतपूजा.

पंचाचारना अक्षते, अक्षत आत्मरूप; पूजा
जे बहुप्रेमथी, नासे भवत्रय धूप० ॥ १ ॥ गुरु चर-
णने अक्षते, पूजंतां शिव थाय; स्वस्तिक गुरुनी
आगळे, करतां पाप पलाय. ॥ २ ॥ पंचाचारने पाळवा,
अक्षतपूजा एह; भावथी पूजा पूज्यनी, प्रगटावे
शिवगेह. ॥ ३ ॥

कान्हरो.

अक्षतपूजा आनंदकारी, द्रव्यने भावथी ठे
जयकारी; दर्शन ज्ञानने चरणाचारी, तप वीर्ये गुरु
जग उपकारी. अक्षत. ॥ १ ॥ स्वस्तिक करतां स्व-

(२५९)

स्तिभारी, जयजयगुरु तुज जग बलिहारी; द्रव्यचा-
 वथी पंचाचारी, उपयोगी गुरुजी हितकारी. अक्षत.
 ॥ २ ॥ पंचमहाव्रत पालनकारी, प्रतिबोध्यां बहुलां
 नरनारी; एकांते गुरुजी सुखकारी, अंतर आत्मप्रदेश
 विहारी. अक्षत. ॥ ३ ॥ आतम सुखसागर गुरुयारी,
 रोमेरोमे लागी यारी; बुद्धिसागरगुरु अनगारी,
 आनंद मंगलप्रद आविकारी. अक्षत. ॥ ४ ॥

ॐ अहं महावीरजिनेश्वरपट्ट परंपर प्रवर्तित
 श्री गुरुपूजार्थं अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥

सप्तमी ध्यानरूपा नैवेद्यपूजा.

ध्यानरूप नैवेद्यथी, गुरुपूजा करनार; उपशम
 क्षयोपशम अने, क्षायिकगुण वरनार. ॥१॥ असंख्य
 प्रदेशी आतमा, प्रतिप्रदेशे अनंत; गुणपर्यायनाध्या-
 नथी, प्रगटे शिवपदकंत. ॥ २ ॥ बाह्य नैवेद्यना
 रसवडे, नित्य तृप्ति नहि थाय; आतमरस नैवेद्यथी,
 जडरस रुचि विणशाय. ॥ ३ ॥

(२८०)

जिनदर्शन मोहनगारा, ए रागनी चाल.

गुरुदर्शन छे सुखकारी, गुरुसंतनी ठे बलिहारीरे.

गुरु. द्रव्यगुणपर्याय विचारी, ध्यान समाधिधारी;

आतमरसियाने अविकारी, गुरुनी गति ठे न्यारीरे.

गुरु. ॥ १ ॥ आतम असंख्यप्रदेशविहारी, द्रव्य-

ज्ञाव्यवहारी; षडावश्यक धर्माचारी, उत्कृष्टा अन

गारीरे; गुरु. ॥ २ ॥ अंतरथी नहीं जडनीयारी, आतम

परिणति प्यारी; क्रियायोगी साक्षा उपकारी, संत

सदा जयकारीरे. गुरु. ॥ ३ ॥ गुरुमूर्ति द्रव्यज्ञावथी

प्यारी, शुद्धप्रदेशी सारी; कर्म करे पण निर्बंध भारी,

सर्वजीव आधारोरे. गुरु. ॥ ४ ॥ गुरुनी अकलकला

सहु न्यारी, समजे नहि अविचारी; बुद्धिसागर ध्याननुं

नैवेद्य-धरतां सुख निर्धारोरे. गुरु. ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं अँहं महावीर परमेश्वर पट्ट परंपर
शोभित गुरुपद ध्यानार्थ नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥

(२८१)

अष्टमी ज्ञानानन्दानुभवरूपा फलपूजा.

आतम आनंद पामीने, जडरस पेलीपार; आ-
त्मदशाना अनुभवी, जय जय गुरु सुखकार. ॥ १ ॥
आतम अनुभवफलतणो, आनंदरस छे अनंत;
आतमरसो ज्ञानी गुरु, पामे भवनो अंत. ॥ २ ॥
द्रव्यभाव फल पामवा, फलथी पूजे जेह; चक्तशिष्य
सुखरस लहे, पमे न पाठो तेह ॥ ३ ॥

निशदिन जोउ त्हारी वाटडी, घेर आवोने ढोला.

ए राग.

आतम अनुभव फलवडे, गुरु पूजीए भावे,
द्रव्य थकी भाव संपजे, निज गुण रस आवे. आतम.
॥ १ ॥ संत गुरुनो पूजना, नहीं निष्फल जाती;
कारणे कार्यनी सिद्धि छे, प्रभुता परखाती. आतम.
॥ २ ॥ गुरु हृदयमां छे प्रभु, तेम गुरु प्रभु जाणो;
गुरु पूजे प्रभु पूजिया, श्रद्धा प्रेमे प्रमाणो. आतम.

(२८२)

॥ ३ ॥ गुरुथी सिद्धता संपजे, गुरु प्रभुने जणावे;
 निमित्त गुरुथी आत्मनी, गुरुता जवी पावे. आतम.
 ॥ ४ ॥ गुरु सेवा भक्तिवने, थाती हृदयनी शुद्धि;
 आतम ज्ञान ज संपजे, नवक्षायिक ऋद्धि. आतम.
 ॥ ५ ॥ गुरुथी आतमरस मळे, जरुरस टळे त्रांति;
 गुरुथी आतमरस लहो, मळी आतम शांति.
 आतम. ॥ ६ ॥ अनुभव फलथी पूजिया, गुरुजी
 जयकारी; बुद्धिसागर सद्गुरु, प्रभु विश्वोपकारी.
 आतम. ॥ ७ ॥

ॐ अँर्ह परमप्रभु परब्रह्मपरमात्ममहावीर
 तीर्थकरदेवपट्टपरंपरवर्ति सद्गुरुचरणानुभव फल
 पूजार्थं फलं, य. स्वाहा ॥

 कलश.

गुरु पूजा गाइ गुणकारी, मंगलदायी शिवसुख
 कारी. गुरु. आधि व्याधि उपाधिहारो, गुरु पूजाथी
 तरे नरनारी. गुरु. ॥ १ ॥ अोगणिश अव्योतरनी

(२८३)

साले, चैत्र वदि बीजने गुरुवारें. गुरु. मधुपुरी (महुडी)
 मां भक्ति विचारे, पूजा रची शुभ भावविशाले. गुरु.
 ॥२॥ गुरु पूजा जे भणे नरनारी, पामो मंगल ऋद्धि
 अपारी; घर घर आनंद प्रगटो भारी, गुरु पूजाथी
 शांति थनारी. गुरु. ॥३॥ गुरु ऋक्तोनी चढती थाशो,
 धर्म कमाणी सत्य कमाशो; गुरुभक्ते दुःखो दूर
 जाशो, गुरु नामे ए आशी सुहाशो. गुरु. ॥ ४ ॥
 द्रव्यथी भावथी महा उपकारी, श्री सुखसागरजी हित
 कारी. बुद्धिसागर गुरु बलिहारी, व्हारे आवी बे-
 डली तारी. गुरु. ॥ ५ ॥

—●—
 कलश.

गाइ गाइरे गुरुपूजा जावथी गाइ. ए टेक.

द्रव्य जावथी मुनि गुरुपूजा, आनंद मंगल-
 दायी; श्रोता वक्ता घर घर मंगल, संघमां शांति
 वधाइरे. गुरु. ॥ १ ॥ अयोगिनिश अढ्योत्तर चैत्रनी,
 वदि बीजने गुरुवारें; मधुपुरी (महुडी) मांही गुरु

(२८४)

भक्तिथी, पूजा रची जवी तारेरे. गुरु. ॥२॥ गुरुभक्तिथी
 पातिक शापो, आधि व्याधि प्रणाशो; गुरुभक्तिथी
 संघमां घर घर, मंगल सुखडां प्रकाशोरे. गुरु. ॥३॥
 गुरुभक्तिथी जक्तजनोनी, वळशो सुखनी वेळा; गुरु
 भक्तिथी प्रभुपद पामो, मळशो वांछित मेळारे. गुरु.
 ॥ ४ ॥ गुरुभक्तिरसियां नरनारी, सुखसागर गुरु
 धारी; बुद्धिसागर ऋद्धि वृद्धि-कीर्ति जयपदकारीरे.
 गुरु. ॥ ५ ॥

गुरुपूजा भणाववानी विधि.

उपाश्रयमां अगरे बीजी जग्याए गुरुनां पगलां
 स्थापवां; केशरचंदननी बेपादुका करवी, अगरेचोखानी
 पण बे पादुका करवी. गुरुनी छबी होयतो ते स्था-
 पवी, स्नात्र जणाववानी जरूर नथी; जलपूजानो
 कलश, जलपूजा जणावीने आगल स्थापन करवो.
 पाषाणधातु आदिनी गुरुमूर्ति होयतो तेनापर जलनो
 अभिषेक करवो, तथा चंदननी पूजा वगेरे जिनप्र-

(३८५)

तिमानी माफक करवी, पगलां पाषाणनां होयतो ते पर जल अजिषेक तथा चंदन पुष्प वगेरे प्रतिमानी पेठे चढाववां, धूपदीप आगळ करवो. पगलां अगर् मूर्तिनी आगळ, स्वस्तिक नैवेद्यफलने ढोकवां; केशरचंदननी पादुका करी होयतो तेनी आगळ जळ कळशादिक मूकवा. जिनमन्दिरमां गोखलामां गुरु-मूर्ति अगर पादुका होयतो श्रीजिनप्रतिमानो मूळ गजारो बंध करीने गुरु पादुका अगर मूर्ति आगळ पूजाभणाववी, अरिहंत जेम परमेष्ठी ठे तेम आचार्य उपाध्याय अने मुनि ए त्रण पंचपरमेष्ठीमां छे तेथी तेमनी मूर्ति पादुका ठे ते जिनमूर्ति वा पादुकानी पेठे पूजवा योग्य छे जे दिवसे सूरिवाचक साधुए देहोत्सर्ग कर्यो होय ते दिवसे गुरुपूजा जणाववी. स्नात्रियाओने जमारुवा. तेमने लाडु आदिनी प्र-जावना करवी. पूजामां आवनार सर्वनी प्रभावनाथी भक्ति करवी. शक्ति होयतो जमण पण करवुं. पा-दुका अगर् मूर्ति आगळ उत्सव करवो. सांजरे

(२८६)

टोळी बेसाडी गुरुभक्तिनां गायनो स्तवनो गावां.
 गुरुनी भक्तिना निमित्ते वर्तमान साधु साध्वीनी
 सेवा भक्ति करवी. गुरुचरित्रनुं व्याख्यान सांजळवुं,
 ते निमित्ते धार्मिक पुस्तको छपाववां. गुरुनो महिमा
 वधारवो. गुरुना उपदेशोनुसारे वर्तवुं. गुरुपादुकानो
 वा मूर्तिनी सुगंधी पुष्पथी पूजा करवी.



(२८७)

अथ सत्तरचेदी पूजा.

प्रभु महावीर जिनपति, तीर्थकर जगदेव; श्री
जिनवाणी सद्गुरु, प्रणमी करु शुभ सेव. ॥ १ ॥
सत्तरचेदी पूजा जली, द्रव्य जाव सुखकार; श्राव-
कने बे चेदथी, यतिने जावथी सार. ॥२॥ आगम
शास्त्राधारथो, पूजा भवि हितकार; श्रद्धा प्रीतिभ-
क्तिथो, आत्मशुद्धि करनार. ॥ ३ ॥

—
प्रथम न्हवणपूजा.

॥ ध्रुवपदं, गोडीरागेण गीयते ॥

जिनपतिने न्हवरावेहो सुरपति, मेरुशिखर न्ह-
वरावेरे; उज्वल शुभ आतमपरिणामे, जिनगुण
भावना भावेरे. जिन० ॥ १ ॥ प्रभु तुज उपरे श्रद्धा
प्रीति, न्हवण पूजा में धारीरे; दुनियानी खीज दूर
निवारी, तुज पर जउ सहु वारीरे. जिन० ॥ २ ॥
तुज भक्तिमां मुज मन प्रणम्युं, तुज रागे रंगायोरे;
तुज रागे समकित गुण निश्चय, तन्मयभावे सुहा-

(२८८)

योरे. जिन० ॥ ३ ॥ गंगादिक निर्मल जल स्नाने,
भावथी भक्तिकामेरे; बुद्धिसागर पूजां करतां, आतम
निज गुण पामेरे. जिन० ॥ ४ ॥

द्वितीया चंदनविलेपनपूजा.

द्रव्यजावथी कीजीए, चंदनपूजा वेश; जावथी
समचंदनवमे, पूजे विघटे क्लेश. ॥ १ ॥

धन्याश्री रागेण गीयते.

द्रव्यने भावथी चंदनपूजा, जिनवरनी जय-
काररे; सत्य सुगंधी चूर्ण विलेपन, समता चंदन सा-
ररे. द्रव्य० ॥ १ ॥ प्रभु नवअंगे चंदन चर्चे, भाव
धरी नरनाररे; श्रद्धा प्रीति प्रभुपर वधतां, परपरि-
णति परिहाररे. द्रव्य० ॥ २ ॥ तुजमां राचुं तुजपर
माचुं, चूली दुनिया भानरे; बुद्धिसागर प्रभुमय जो-
वन; रंगे थयो गुल्तानरे. द्रव्य० ॥ ३ ॥

तृतीया चक्षुर्युगलपूजा.

द्रव्य भावथी चक्षुनी, युगलपूजा सुखकार;
चढता प्रीति भावथी, करतां शिवसुख सार. ॥१॥

(२८९)

दीपचंदी ताल सोरठ.

जिनदर्शन मोहनगारा, ए राग.

तुज मूरति प्रभु !!! मुज व्हाली, आंखे देखी
 देखी धारीरे. तुज० सम्यग् मति श्रुत चक्षु युगलथी,
 प्रभु पूजा जयकारी; केवल दर्शन ज्ञान प्रगटतां, पूजा
 पूर्ण प्रकारीरे. तुज० ॥ १ ॥ शब्दनये तुज मूरति
 प्यारी, देखे तस बलिहारी; नयव्यवहारे स्थापना
 सारी, जविजीवने हितकारीरे. तुज० ॥ २ ॥ तुज
 भक्ति शिवपुरनी बारी, मिथ्यामत संहारी, सम्यग्
 दृष्टिनी करनारी, अनंत कर्म संहारीरे. तुज० ॥३॥
 भावथी पूजंतां नरनारी, आनंदनी लहे क्यारी;
 बुद्धिसागर जिनगुण धारी, पूजा छे सुखकारीरे
 तुज० ॥ ४ ॥



चतुर्थी वासपूजा ॥

चंदन घसी घनसारने, मेळवी पुष्प सुवास;
 वासथकी प्रभु पूजीए, जावथकी विश्वास. ॥ १ ॥

(२९०)

गोत राग-माखवी गोडी.

वासथकी प्रभु पूजा सारी, भक्तजनोने प्यारीरे;
 गुणीनी सेवा प्रकट करे गुण, प्रभुगुणनो बलिहा-
 रीरे. वास० ॥ १ ॥ समकित वासे प्रभु पूजंतां,
 गुणगण प्रगटे भारीरे; प्रभुगुणवासे वासित आतम,
 शुद्धातम निर्धाररीरे. वास० ॥ २ ॥ सर्व विरति
 संयमगुण वासे, मोहनी दुर्गंध नासेरे; समकितवासे
 प्रभु निज पासे, आपोआप प्रकाशेरे. वास० ॥ ३ ॥
 निमित्त शुद्ध उपाख्यान वासे, चढतां भाव वधारीरे;
 बुद्धिसागर आत्मविकासो, प्रभु पूजी नरनारीरे.
 वास० ॥ ४ ॥

पंचमी पुष्पपूजा.

द्रव्यज्ञावसुपुष्पथी, पूजंतां जिनराज;
 अंतर आतम उल्लसे, प्रगटे प्रभु साम्राज्य. ॥ ॥

प्रभु निर्मल दर्शन कौजीए ए-राग.

सारंगरागेण गीयते.

पूजीए पूजीए पूजीए, जिनराजने प्रेमे पूजीए,

(२९१)

प्रभुगुण अमृत पीजीए, जिनराजने प्रेमे पूजीए;
 ड्रव्यथकी शुभ्रगंधी पुष्पे, प्रभुनी पूजा कीजीए,
 ज्ञावथकी व्रतपंचाचारना, पुष्पे पूजीने रोझीए.
 जिनराज० ॥ १ ॥ ऋयोपशम उपशमने क्षायिक,
 आत्मगुणे प्रकटीजीए; आत्मगुण अनुयायी
 चेतना, प्रगटावी सुख लीजीए. जिनराज० ॥ २ ॥
 प्रभु तुजथी मुज लगनी लागी, मुज पर करुणा
 कीजीए; बुद्धिसागर आत्म आनंद, रसज्जर प्याला
 पीजीए. जिनराज० ॥ ३ ॥

षष्ठी पुष्पमाला पूजा.

पुष्पमालथी पूजता, प्रभु गुण प्रकटे अंग;
 ईयल भमरी ध्यानथी, चमरी पद लहे रंग. ॥१॥
 चेतन अब मोहे दरिशन दीजे. ए राग.

प्रभुजी महावीर तुज रठ लागी, थये तुज
 गुण अंतर रागी. प्रभुजी० तुज गुण गणतां पार
 न आवे, कोटी वर्ष वही जावे; तुज अनुभव झांखी

(२९२)

घट प्रगटे, आनंद जगमां न मावे. प्रभु० ॥ १ ॥
 आतमगुण पंच पुष्पनी माला, जावथो पूजा प्यारी;
 जिनपूजा ते आतमपूजा, निश्चयथो सुखकारी.
 प्रभुजी० ॥ २ ॥ आतम द्रव्यना गुण पर्याये, आ-
 त्मोपयोग समारी; बुद्धिसागर आविर्भावे, प्रभु
 प्रकटे जयकारी. प्रभुजी० ॥ ३ ॥

सप्तमो कुसुम आंगी रचनारूपपूजा.

देव गुरुने धर्मनो, श्रद्धा भक्ति प्रकार;

कुसुम आंगी पूजाभली, करतां जवी नरनार. १

राग बिरुद्यो अथवा पीलु ॥

सोवे सोवे सारी रेंन गुमाइ. ए राग.

कुसुम आंगीनी पूजा सारो, द्रव्य भावथी
 जवि हितकारी. कु० समकित सड सठ बोल वि-
 चारी, कुसुमनी आंगी मलपरिहारी. कु० ॥१॥ देव
 गुरुने धर्मनो जक्ति, करतां प्रगटे आतम शक्ति. कु०
 समकित वण व्रत तप जप रोति, तेथो टळे नहि

(२९३)

भवनी जीति. कु० ॥ २ ॥ तुज आगमनी श्रद्धा
 धारी, तुजपर तन मन जाउ वारी; कु० ॥ तुज
 संतोनी साची यारी, बाकी जूठी दुनियादारी. कु०
 ॥ ३ ॥ श्रावक साधु गुणगण भारी, जावथी पूजा
 ए निर्धारि; कु० ॥ बुद्धिसागर भक्ति प्यारी, भाव-
 थकी शिवसुख देनारो. कु० ॥ ४ ॥

अष्टमो चूर्णपूजा.

घनसारादिक चूर्णथी, जिनपति पूजा एह;
 भावथी उपशम चूर्णथी, पूजे जिनवर तेह. ॥ १ ॥

ध्रुवपद काफी रागेण गोयते.

प्रभु तुज दर्शननी बलिहारी, दर्शननी बलि-
 हारी. प्रभु० द्रव्यने जावथो दर्शन पामे, धन्य ते
 नरने नारी; द्रव्यभाव चूरणथी पूजा, करता तस
 बलिहारी. प्रभु० ॥१॥ क्रोध मान मायाने लोचनो,
 उपशम जेटलो थावे; तेटलो प्रभु गुण अनुभव
 आवे, समकित्तीने ए सुहावे. प्रभु० ॥ २ ॥ आनंद

(२९४)

ज्ञाननी प्रकट प्रभुता, प्रभु भक्ति तेह भावे; क्षयो
 पक्षम उपशमना भावे, प्रमटे अनुभव आवे. प्रभु०
 ॥ ३ ॥ सातनयोथी दर्शन पूजा, सेवा साची जाणी;
 बुद्धिसागर प्रभुनी पूजा, आपोआप प्रमाणी.
 प्रभु० ॥ ४ ॥

नवमी ध्वजपूजा.

द्रव्यभाव वे भेदथी, ध्वजपूजा सुखकार; ध्व-
 जथी जिनवर पूजतां, भक्ति बंधे जयकार. ॥ १ ॥

नमुं रविसागर गुरु राया,

जिन शासन जय बर्ताया. ए राग.

घन घटा भुवन रंग छाया. ए राग.

ध्वजपूजा ठे जयकारी, जिन शासन शोभा
 कारी. ध्वज ॥ प्रभु धर्मने जग फेंलावे, ध्वज पूजा
 भावना दावे; जाणे लेनी बलिहारी. ध्वज० जिन०
 ॥ १ ॥ जे थया प्रजायक सारा, तेणे प्रभु पूज्या
 प्यारा; ध्वज पूजा एहवी धारी, ध्वज. जि० ॥ २ ॥

(२९५)

जिन शासन जे शोभावे, ते भावथी पूजा पावे; प्रभु
भक्तनी ठे बलिहारी. ध्वज० ॥ ३ ॥ प्रभु पूजाथी
प्रभु प्रगटे, चढता भावे मल विघटे; बुद्धिसागर
सुखकारी. ध्वज. ॥ ४ ॥

दशमी आचूषणपूजा.

द्रौपदीने सूर्याभनी, पेठे पूजे जेह; द्रव्यथी
भावना पूजना, निश्चय पामे तेह.

श्री श्रेयांसजिन अंतरजामी. ए राग.

श्री जिनवरनी पूजा प्यारी, सुख आपे निर्धा-
रीरे; द्रव्यभावथी पूजा सारी, करतां नरने नारीरे.
श्री० ॥ १ ॥ नयनिक्षेपे पूजा विचारी, सम्यग्-
दृष्टि धारीरे; द्रव्यजाव पूजा आचारी, हठ कदाग्रह
वारीरे. श्री० ॥ २ ॥ बारने चार ठे जावना भूषण,
निश्चयने व्यवहारीरे; बुद्धिसागर जावना पूजा, प्र-
गटी घट सुखकारीरे. श्री० ॥ ३ ॥

(२९६)

एकादशमी कुसुमगृहपूजा

कुसुम गृहे प्रभु थापीने, जे पूजे नरनार; ते
मुक्तिवेगे वरे, सम्यग्दृष्टि उदार ॥ १ ॥

आज सखी मोंये वाल्हमा, मुज मंदिर आये. ए राग.
मारु वा. ॥

अथवा उत्सव रंग वधामणां. ए राग. वेलावल. ॥

परम प्रभु परमात्मा, मुज दिल दर्शायो; बा-
ह्यांतर स्वरूपथी, पूरण परखायो. परम० ॥ १ ॥ स-
म्यग्दृष्टि जीवनी, सहु करणी लेखे; अल्पबंध बहु
निर्जरा, करे सम्यग् पेखे. परम० ॥ २ ॥ बाह्याभ्यं-
तर अतिशय,—पुष्प घरमां बिराजो; असंख्यप्रदेशी
पुष्पना, घरमांही छाजो. परम० ॥ ३ ॥ द्रव्यने
आवथी पुष्पनुं, घर करो जिन थापे; बुद्धिसागर
आत्मा, प्रभु छापे व्यापे. परम० ॥ ४ ॥

बारमी कुसुम मेघपूजा.

द्रव्यथी कुसुमना मेघथी, प्रभुपूजा सुखकार;
आवथी प्रभु उपदेशना, मेघथी पूजा सार. ॥ १ ॥

(२९७)

राग फाग—सिद्ध ऋजो भगवंत, प्राणी पूर्णानन्दो.

ए राग.

जिनवर छे जयकार, ऋवी; भावथी पूजो; द्रव्यने भावथको जिनपूजा, अमृतरस धरनार. भवी० आतम गुण पर्यायस्वज्ञावे, धर्म प्रगट करनार. भवी० ॥ १ ॥ जिनवर वाणीपुष्पनामेघे, आतम शांति थनार. भवी० अनुऋवपुष्पना मेहुला वरसे, सुगंधनी बहु व्हार. भवी० ॥ २ ॥ मोहनी दुर्गध दूरे नासे, समता शीतलता सार. भवी० मुजमन तुज उपदेश स्वरूपी—मेघे मोहुं अपार. भवी० ॥३॥ पुष्पना मेघो तुज शिर उपर, वर्षावुं धरी व्हाल. ऋवी० बुद्धिसागर मुजपर वर्षो, जिनवाणी मेघ अपार. भवी० ॥ ४ ॥

त्रयोदशमी अष्टमाङ्गलिक पूजा.

स्वस्तिक ने श्रीवस्त छे, घट ऋद्रासन चार; नंदार्वतने वर्धमान, मीनयुग दर्पण सार. ॥ १ ॥

(२१८)

अष्ट ए मंगलथी प्रभु, पूजे पाप पक्षाय, पद पद
मंगल संपजे, लब्धि सिद्धि प्रगटाय. ॥ २ ॥

॥ ध्रुवपद गोडी रागेण गीयते ॥

प्रभुनी आगळ आठे मंगल, पुण्यातिशये
चालेरे; द्रव्यथी मंगल आलेखे जे, जावमङ्गल ते
जाळेरे. प्रभु० ॥१॥ सहज गुण जे चार ते स्वस्तिक,
दर्पण ज्ञानने धारोरे; सम्यग्दृष्टि कुंभ विचारो,
विरति श्रोवच्छ प्यारोरे. प्रभु० ॥ २ ॥ संपन्न
भद्रासन नंदावर्त, अनुभव आनंद पामोरे; आत्म
समाधि वर्धमान छे, भाव मंगलथी जामोरे. प्रभु०
॥ ३ ॥ मीन युगलते ज्ञानने दर्शन-उपयोगे जय-
कारीरे; बुद्धिसागर प्रभुनी पूजा, द्रव्यज्ञाव हित-
कारीरे. प्रभु० ॥ ४ ॥

॥ चतुर्दश धूपदीपक पूजा ॥

द्रव्यभावथी धूपने, दीपक पूजा सार; जिन-
वरनी जे जन करे, पामे शर्म अपार.

(२९९)

पिथा निज महेले पधारोरे, करी करुणा महारसज पिथा.
ए राग मारु. ॥

प्रभु तुज प्रीतनी लागारे, प्रगट्युं रुचिर-
सपूर. प्रभु० ॥ १ ॥ ध्याता ध्येयने ध्याननीरे,
एकतामांहि न जेद; निर्विकल्प समाधिमांरे, ज्योति
द्वेष न खेद. प्रभु० ॥ १ ॥ आत्मना उपयोगमांरे,
प्रभु तुं छे मुज पास; ध्यान धूपने ज्ञाननारे, दीप-
कनो ठे प्रकाश. प्रभु० ॥ २ ॥ कोटि वर्ष सम
ताह्यरोरे, क्षणविरहो न खमाय; बुद्धिसागर प्रेम-
थीरे, पूजा करे ज जीवाय. प्रभु० ॥ ३ ॥

पन्नरमी गीत पूजा.

प्रभु गुण पर्याय गीतथी, प्रभुने पूजे जेह;
चढता भावोद्धासथी, प्रभुपद पामे तेह.

नाथ कैसे गजको बंध छुडायो—ए राग. सारंग. ॥

प्रभु तुज गान घणुं गुणकारी, आतम आनंद-
कारी. प्रभु० वीणादिक तालमानने ताने, प्रभु

(३००)

गुण गान उमाह्वो; नरघां मरदंग तान सुज्ञाने,
 आनंद रस रंगायो. प्रभु० ॥ १ ॥ प्रभु तुज सन्मुख
 चेतना करवा, उपयोगथो हर्षायो; प्रभु तुजगाने
 भान न जगनुं, आतम झांखी पायो. प्रभु० ॥ २ ॥
 प्रभुने गातां सुखनी खुमारी, प्रगटंती जयकारी;
 पूर्णानंदी प्रभुने पूजो, गीतवने नरनारो. प्रभु०
 ॥ ३ ॥ परापश्यंती मध्यमागाने, अनहृदगीत सु-
 ताने; बुद्धिसागर प्रभुरसपाने, नक्त प्रभु घट माने.
 प्रभु० ॥ ४ ॥

सोळमी नृत्यपूजा.

प्रभु आगळ जावे करे, नृत्यनी पूजा जेह;
 आतमशुद्धि ते करे, पामे शिवपुर गेह. ॥ १ ॥

अवसर बेरबेर नहि आवे. ए राग. आशावरो.

शुभंकर जिनपूजा जयकारी, द्रव्यभावथी
 नृत्यनी पूजा, आतम आनंदकारी. शुभंकर. ॥
 एक शत आठे देवकुमरने, सुर कुमरी शुभ नाचे;

(३०१)

सुरनर नृत्य करीने माचे, आत्मरसी थै राचे. शुभं-
 कर० ॥ १ ॥ चढते भावे धर्म रसीला, प्रभु प्रेमे
 उद्धसिया; सुर नरनारी हर्षे नाचे, श्रद्धाजकिमां
 वसिया. शुचंकर. ॥ २ ॥ भक्तिए रोम रोम जस
 विकसे, दिलमां हर्ष न मावे, भावथी नवरसना
 शृंगारे, अंतरनाचे सुहावे. शुभंकर. ॥ ३ ॥ भक्ति-
 रसे गुलतान बनीने, गुणपर्याये नाचुं; बुद्धिसागर
 आत्ममहावीर, सहज स्वभावे राचुं. शुचंकर. ॥ ४ ॥

—◆—
 सत्तरमी सर्ववाद्यपुजा.

सर्वजाति वाजिंत्रथी, चढता भावोल्लास; नर-
 नारी प्रभु पूजतां, पामे शिवसुख खास ॥ १ ॥

राग. प्रभात.

समवसरणमां वाजां वाजे, अंबरतलमां गा-
 जेरे; देवदुंदुभि वाजी ठाजे, जिनपति महिमाए रा-
 जेरे. सम० ॥ १ ॥ सारंगी शरणाइ चूंगळ, भेरी न
 फेरी वीणारे; जह्वरी ढोल ने वंशळी वाजे, सुरकुम-

(३०२)

रीना स्वर झीणारे. सम० ॥ २ ॥ मुरज कंसालाने
 मृदंगमे, पणवादिक वार्जिंत्रे; जिनवर पूजा भवि
 जन करता; मोह शत्रुने जीतेरे. सम० ॥ ३ ॥ सुर-
 नर वार्जिंत्रे जिनपूजा, भावथी करी नर नारीरे. ती-
 र्थकर आदि पद पावे, निजपरिणतिने समारीरे.
 सम० ॥ ४ ॥ योगाभ्यासे अंतरवाजां, वाजे अनहद
 तानेरे; शुक्ल शुक्ल उज्वल परिणामे, धर्म ध्यान निज
 मानेरे. सम० ॥ ५ ॥ आत्मोल्लास रस वार्जिंत्रे प्रभु,
 पूजामां थइ रसियोरे; बुद्धिसागर आत्म स्वजावे,
 आनंद ल्हरे उल्लसियोरे. सम० ॥ ६ ॥

—●—
 कलश-धनाश्री.

गाया गायारे प्रभु महावीर गुणगण ध्यायी,
 सत्तर जेदी पूजाथी प्रभु, गातां मुक्ति वधाइरे.
 प्रभु महावीर. ॥ १ ॥ द्रव्य जाव प्रभुपूजा रचीने,
 आत्म आनंद पायो; ओगणिश अव्योतर चैतर
 वदि, दशमी जय वर्तार्योरे. प्रभु० ॥ २ ॥ जिनवर

(३०३)

महावीर पट्ट परंपरा, तपगच्छ सागर शाखे, रवि-
सागर गुरु सुखसागर गुरु, जिन आणा दिल रा-
खेरे. प्रभु० ॥ ३ ॥ मधुपुरीमां पद्मप्रभु जिन, गुरुनी
पूर्ण कृपाए; आनंद मंगल ऋद्धि सिद्धि, पूजा करंतां
थाएरे. प्रभु० ॥ ४ ॥ घर घर संघमां आनंद मंगल,
पूजाथी सुख भारी. बुद्धिसागरसूरि ऋद्धि, वृद्धि
कीर्ति जयकारिरे. प्रभु० ॥ ५ ॥

अथ नवपद लघु पूजा.

प्रथम अरिहंत पद पूजा.

परम प्रभु परमात्मा, परब्रह्म महावीर; शास-
नपति अरिहंत जिन, सर्व धीर महाधीर. ॥ १ ॥
वंदी पूजा ध्याशने, नव पद पूजा सार; रचुं स्वपर-
हित कारणे, आत्म शुद्धि करनार. ॥ २ ॥ तीर्थकर
सर्वे प्रभु, अर्हत् पदमां समाय; चार निक्षेपे जाण-
तां, पूजे शिव सुख थाय. ॥ ३ ॥

(३०४)

राग. सौरठ.

अरिहंत द्रव्यभाव सुखकारो, साची लागी
 अरिहंत यारी. शुद्धातम उपकारो. अरिहंत. चोत्री-
 श अतिशय धारी जिनेश्वर-वारगुणे जयकारी; पां-
 त्रीश वाणीगुणना धारण-तीर्थकर हितकारी. अ-
 रिहंत. ॥ १ ॥ संघ चतुर्विध तीरथ स्थापक, -केवल
 ज्ञानी विहारो; विश्वोद्धारक कर्म संहारक, शुद्धानं-
 दना धारी. अरिहंत. ॥ २ ॥ तुजपर पूरण प्रीति
 प्रगटी, कोथी न उतरे उतारी; निश्चयथी अरिहंत
 निजातम, जाण्युं उपयोग धारी. अरिहंत. ॥ ३ ॥
 सत्ता व्यक्तिनावे अरिहंत, निश्चय नय व्यवहारी;
 बुद्धिसागर अरिहंत आतम-शुद्ध बुद्ध अविकारी.
 अरिहंत. ॥ ४ ॥

ॐ ह्री परम० अर्हन् पद पूजार्थं जलं०-य० स्वाहा.

द्वितीया सिद्धपद पूजा.

पूजुं प्रभु गुण भावथी, सिद्ध सदा जयकार; अष्ट-
 गुणी परमात्मा, एकत्रिंश गुणधार. ॥ १ ॥ अन्नंत;

(३०५)

ज्योते झलहले, अनंत आनंद धाम; निराकार
परब्रह्मने, हो उपयोगे प्रणाम. ॥ २ ॥

नाथ कैसे गजको बंध लुडायो. सारंग वा.
राग-आशावरी.

निरंजन सिद्धप्रभु सुखकारी, कर्म रहित. जय-
कारी. निरंजन० क्षायिक नवलब्धि गुणधारी,
निराकार निर्धारी; अनंत ज्योते झलहलता विभु,
पूर्णानंदी अपारी. निरंजन० ॥ १ ॥ अलख अरूपी
जन्म मरण नहीं, गुणपर्यायाधारी; शुद्धात्म पर-
ब्रह्म अखंभित, अविनाशी अविकारी. निरंजन०
॥ २ ॥ सकल सिद्धने वंदु पूजुं, शुद्धोपयोग समारी;
सत्ताए निज आत्म सिद्ध छे; समरंतां सुख भारी.
निरंजन० ॥ ३ ॥ सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्रना,
शुद्धोपयोगे विहारी, बुद्धिसागर सिद्ध स्वयं थै, पामे
शिव नरनारी. निरंजन० ॥ ४ ॥

ॐ०=॥ सिद्धपद पूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

(३०६)

तृतीया आचार्यपद पूजा.

द्रव्यभाव व्यवहास्यो, निश्चयथी सूरिराज;
वंदतां पूजतां ध्यावतां, प्रगटे शिवसाम्राज्य. ॥ १ ॥

सोवे सोवे मारी रेनगुमाइ. राग. बिरुओ.

अथवा पीलु.

वंदु पूजुं सूरिवर रागे, ज्ञानादिक गुण अंतर
जागे-वंदु. ॥ छत्रीशो ठत्रीशो गुणगण मंडित-स-
मजावे वर्ते वैराग्ये. वंदु. ॥ १ ॥ धर्मना रक्षक धर्म
प्रवर्तक-जेहथो मोहनो दूरे भागे. वंदु; । द्रव्य क्षेत्र
काल भावने जाणे-विषयोमां नहि वर्ते रागे. वंदु.
॥ २ ॥ जिनवाणीनो अर्थ जणावे. द्रव्यने भावथी
वर्ते त्यागे. वंदु. । ज्ञानी ध्यानी योगी सनूरा-म्हा-
ले आतम गुणना वागे. वंदु. ॥ ३ ॥ निश्चयथी सू-
रिवर निज आतम- शुद्ध परिणति भावमां लागे;
बुद्धिसागर ब्रह्मसूरि घट- प्रगटंतां जय उंको वागे.
वंदु. ॥ ४ ॥

ॐ-आचार्य पद पूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

(३०७)

चतुर्थी उपाध्याय पद पूजा.

द्रव्य भाव वाचक नमुं, पूजुं जग हितकार;
ज्ञानी पंच महाव्रती, सेवंतां सुखकार. ॥ १ ॥

आज सखी मुज व्हालमा, मन मंदिर आये.

ए राग. वेलावल. ॥

वाचक पदने वंदोए, पूजीए जयकारी; वाचक
सेवा भक्तिथी, निज शुद्धि थनारी. वाचक. ॥ १ ॥
द्रव्य क्षेत्र काल भावथी, वर्ते जयकारी; निश्चय
दृष्टि दिल धरी, वर्ते व्यवहारी. वाचक. ॥ २ ॥ धर्म
शास्त्र पाठक प्रभु, विश्वजीवोपकारी; आत्म उप-
योगे रहे, ब्रह्म वाचक धारी. वाचक. ॥ ३ ॥ निश्चय
वाचक आत्मा, पञ्चोश गुण धारी; बुद्धिसागर धर्म-
ना,—वाहक हितकारी. वाचक. ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं-प० वाचक पदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

(३०८)

पंचमी साधु पद पूजा.

चउनिक्षेपे साधुपद, क्षेत्रकाल अनुसार; वं-
दतां सेवतां पूजतां, ध्यातां शर्म अपार.

मेरुशिखर न्हवरावेहो सुरपति. ए राग.

साधु सदा उपकारी हो जगमां, साधु सदा उप-
कारी. ॥ व्यवहारथी जे पंचाचारी, पंच महाव्रत धारी;
साधुसंगतनी बलिहारी, जेथो तरे नरनारी हो.
जगमां. साधु. ॥ १ ॥ द्रव्यादिक प्रतिबंध निवारी,
रागने रोष संहारी; व्यवहारथी व्यवहारे वर्ते, नि-
श्चय उपयोग धारी हो. जगमां. ॥ २ ॥ साधु संत-
नी सेवा करीए, दोषनी दृष्टि निवारी; वेषाचारथी
अनंत उत्तम, गुण लेजो नर नारी हो. ॥ ३ ॥
आतम ते साधु परमातम, उपयोगे ल्यो धारी; बु-
द्धिसागर साधु सेवा, अनंतगुणी गुणकारी हो. ज-
गमां. ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं-पं-साधु पद पूजार्थं जलं० यं स्वाहा ॥

(३०९)

षष्ठी दर्शनपद पूजा.

सम्यग् दर्शन पद नमुं, पूजुं ध्यावुं सत्य, स-
म्यग् दर्शन पामतां, सफलां धर्मनां कृत्य.

राग. गोडी. निशानी कहा बतावुरे. ए लय. ॥

अनुभव दर्शन पामोरे, गुरुगमथी नरनार.

अनुभव० ॥

देवगुरुने धर्मनीरे, श्रद्धा प्रीति थाय; सडसठ
बोले अलंकर्युरे, प्रगटे दिलमां जणाय. अनुभव.
॥ १ ॥ द्रव्यजाव व्यवहारथीरे, निश्चय समकित
जाण; सातनयोथी जाणतारे, रहे नहीं अज्ञान. अ-
नुभव. ॥ २ ॥ दर्शन ज्ञान चरित्रनीरे, एकपरिणति
थाय; निश्चय दर्शन आतमारे, शुद्धोपयोगे सुहाय.
अनुभव. ॥ ३ ॥ सम्यग् दर्शन पामतारे, निश्चय
मुक्ति थाय; बुद्धिसागर आतमारे, परमात्म पद
पाय. अनुभव. ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं प० दर्शनार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

(३१०)

सप्तमी ज्ञान पूजा.

द्रव्य भावथी ज्ञानने, वंदु पूजुं बेश, सम्यग्
ज्ञानने पामतां, नासे सघळा क्लेश. ॥ १ ॥

राग मालवी. गोडी.

सम्यग् ज्ञान लहो नर नारी, नहि कोइ ज्ञान
समानरे; ज्ञानी श्वासेच्छ्वासमां कर्मने, टाळी लहे
निर्वाणरे. सम्यग्. ॥ १ ॥ मतिश्रुत अवधि ने मन
पर्यव, केवल पांचमुं ज्ञानरे; दर्शन पामे मतिश्रुत,
जावथी, सम्यग् ज्ञान प्रमाण रे. सम्यग्. ॥ २ ॥
आतम अनुभव ज्ञानोपयोगे, क्षणमां मुक्ति सुहाय
रे; ज्ञानविना कोइ ध्यान न पावे, ज्ञाने आनंद थाय
रे. सम्यग्. ॥ ३ ॥ स्वपर प्रकाशक ज्ञान ते आत-
म, गुण गुणीरूप प्रमाण रे; बुद्धिसागर आतम
ज्ञाने, प्रगटे केवल ज्ञान रे. सम्यग्. ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं० प०-ज्ञानार्थं जलं० य० स्वाहा.

(३११)

अष्टमी चारित्र पद पूजा.

द्रव्य ज्ञाव चारित्रथी, आतम शुद्धि थाय,
प्रगटे परमानन्दता, आतम सिद्ध सुहाय. ॥ १ ॥

कीजीए कीजीए कीजीए प्रभु निर्मल दर्शन
कीजीए. राग. सारंग.

पामीए पामीए पामीए, शुद्ध चारित्र पदने
पामीए, वामीए वामीए वामीए; मोहज्ञावने दूरे
वामीए. ॥ पामीए. ॥ व्रत वेष तप जप त्यागाचार-
थी, द्रव्य चारित्रमां ज्ञामीए; सम परिणामे आत्मो-
पयोगे, ज्ञावचरण विश्रामीए. शुद्ध. ॥ १ ॥ द्रव्य
ते ज्ञावनुं कारण जाणो, ज्ञाखुं महावीर स्वामीए;
जरु विषयोमां रागने द्वेषनो, परिणतिथको विरा-
मीए. शुद्ध. ॥ २ ॥ आत्मस्वभावे रमवुं चरण छे,
चारित्रिने शिर नामीए; चारित्रमां अर्पाइ जातां,
पूर्णानन्दे आरामीए. शुद्ध. ॥ ३ ॥ व्यवहार निश्चय
चारित्र वरवा, गुरुगम ज्ञानने पामीए; बुद्धिसागर

(३१२)

आतम आनंद, प्रगट चारित्र प्रणामीए. शुद्ध. ॥४॥

ॐ ह्रीं प० चारित्र पूजार्थं जलं०—य. स्वाहा ॥

नवमी तपपद पूजा.

द्रव्य भावथी तप तपे, आठे कर्म विनाश;
ज्ञान अने निष्कामथी, थावे शिवपुर वास. ॥ १ ॥

॥ ध्रुवपद काफ़ी रागेण गीयते ॥

महावीर तपगुणनी बलिहारी, तपगुणनी ब-
लिहारी. महावीर० ॥ तपथी लब्धियो प्रगटे चारी,
मनडुं बने अविकारी; सुख दुःखमां समभावता
धारी, अहंपणुं न लगारो. महावीर० ॥ १ ॥ बाह्य
अभ्यंतर तप जयकारी, पुद्गलनी नहि यारी; राग
द्वेषनी वृत्ति संहारी, पर परिणति परिहारी. महावीर०
॥ २ ॥ धन्य धन्य वीर जगजयकारी, सद्या परिषह
भारी; प्रगटाव्युं घटमांही केवल, वंदु वार हजारी.
महावीर० ॥ ३ ॥ तप ते आतम निश्चय धारी, त-

(३१३)

पशो नरने नारी; बुद्धिसागर शुद्धातम रस,—स्वाद
लह्यो तपधारी. महावीर० ॥ ४ ॥

—
कलश.

गाइ गाइरे नवपदनी पूजा गाइ० ॥ ओगणिश
अव्योत्तर आश्विन बीज, मेसाणामां रचाइरे, नव-
पदनी पूजा गाइ ॥ वीर प्रभुनी पट्ट परंपर, श्वेतां-
बर सुखदायी; तपगच्छ हीरविजय सूरि जगगुरु,
पट्ट परंपरा आइरे. नव० ॥ १ ॥ नेमिसागर रविसा-
गर गुरु, सुखसागर गुरु ध्यायी; नवपद पूजा रचतां
ऋद्धि, वृद्धि कीर्ति सुहाइरे. नव० ॥ २ ॥ घट घट
नवपद ऋद्धि सिद्धि, सत्ताए रही छे सुहाइ; बुद्धि-
सागर पुर्णानन्दनी, प्रगटो घटमां वधाइरे. नव०॥३॥

ॐ० प० तपः पदपूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

(३१४)

अथ पंचधा योग पूजा.

परम प्रभु परमात्मा, प्रभु महावीर जिनेश;
 परमब्रह्म परमेश्वरा, प्रणमुं विभु विश्वेश. ॥ १ ॥
 पंच योग पूजा रचुं, आतम शुद्धि काज; अष्टप्रकारे
 पूजना, करतां शिव साम्राज्य. ॥ २ ॥ अध्यात्मने
 जावना, ध्यानने समता चार; वृत्तिसंक्षययोगयो,
 पूर्ण शुद्धि सुखकार. ॥ ३ ॥ योगनी भूमिका प्रथम,
 अनुक्रमे पांचे योग, सुणतां ध्यावतां संपजे; आतम
 शिव सुख भोग. ॥ ४ ॥ आतम सुख निश्चय थतां, योग
 रुचि प्रगटाय, पंच योगनी साधना; कर्मविनाशक
 थाय. ॥ ५ ॥ महावीर देवे प्रकाशिया, असंख्य योग
 प्रकार; सर्व मुख्य दर्शन अने, ज्ञान चरण छे उदा-
 र. ॥ ६ ॥ तेमां सहु योगो शमे, तोपण जवि हि-
 तकार; पंचयोग दर्शाविया, तस पूजा सुखकार. ॥ ७ ॥

प्रथम योग भूमिका पूजा.

प्रभु महावीर जिनेश्वर भाखे, योग भूमिका
 सारजी; योग भूमिका शुद्धि करतां, मन शुद्धि नि-

(३१५)

धार. योगने धारोजी; प्रथम गुरु देव सेव, धरीए
 आचारोजी. ॥ १ ॥ ओघे देव गुरु वृद्ध सेवा, पूजन
 थाय सुरागजो, सदाचार प्रवृत्ति प्रगटे, तपनी वृत्ति
 त्याग. योगने. ॥ २ ॥ उपकारीनी सेवा थावे, प्रभु
 दर्शन गुणरागजी; चारिसंजीवन दृष्टांते, धर्म कर्म वै-
 राग्य. योगने. ॥ ३ ॥ देव गुरुनी निन्दा न थाती,
 थाय सुपात्रे दानजी; परोपकार प्रवृत्ति थावे, गुण
 ग्रहणता तान. योग. ॥ ४ ॥ प्रभुता पामे गर्व न
 थातो, सत्य पथ्य हित बोलजी; सत्य तत्त्वनी इहा
 प्रगटे, सत्यासत्यनो तोल. योग. ॥ ५ ॥ साधु सं-
 तनी सेवा भक्ति, रुचे धर्मोपदेशजी; मार्गानुसारी
 नीतिरीत, मुक्तिपर नही द्वेष. योग. ॥ ६ ॥ प्रमा-
 णिक व्यवहार प्रवृत्ति, सत्यप्रतिज्ञा पळायजी;
 चोरी व्यभिचार व्यसन निवृत्ति, कुलाचार वर्ताय.
 योग. ॥ ७ ॥ मांस मदिरा त्यागने सज्जन,—रीतिनो
 व्यवहारजी; मात पिता गुरु वर्गनी आज्ञा, ऐवो
 सदाचार धार. योगने. ॥ ८ ॥ नास्तिक दुष्टनी संग

(३१६)

न रुषे, रुडा प्रगटे विचारजो; योगनी दृढ चूमिका
 एवी, दंभतणो परिहार. योगने. ॥ ९ ॥ अनन्य
 विषगरलनी निवृत्ति, तद्धेतु शुभ थायजी; समकित
 पूर्वक ज्ञानथी अमृत, शुभ अनुष्ठान सुहाय. ॥ १० ॥
 योगनी पूर्व सेवा योगचूमि, चरमावर्ते पायजी;
 बुद्धिसागर योगना योग्य ज, नरनारी ते गणाय.
 योग. ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म ज-
 रा मृत्यु निवारणाय, योगभूमिका सेवार्थं जलं, चं-
 दनं, पुष्यं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, यजा
 महे स्वाहा ॥

॥ प्रथमा अध्यात्मयोग पूजा ॥

प्रभु वचनानुसारथी, तत्त्वनी चिंता थाय; गृही-
 त्यागी व्रत युक्तने, मैत्र्यादि भाव सुहाय. ॥ १ ॥
 आत्मज्ञानने आत्मनी, शुद्धिनुं अनुष्ठान, द्रव्यभाव
 अध्यात्मनो, योग जलो गुण खाण. ॥ २ ॥

(३१७)

द्रव्य क्षेत्रकाल भावथी जाणी, अध्यात्म योग धारोजी; आत्मज्ञानीने योगथी सिद्धि, राग रोष परिहारो. योगने धरीएजी. टाळी मोहनी टेव; शिव-सुख वरीएजी. ॥ १ ॥ देव मंत्रने जपीए विधिघे, अशुभ वृत्ति निवारीजी; आसन जय प्राणायामा-भ्यासथी, देहशुद्धि हितकारी. योग ॥ २ ॥ अध्या-त्मयोगनी आगळ हठनी, किंमत जाणो कोमीजी; आत्म ज्ञानीओए दिढमां, शुद्धात्म प्रीत जोमी. योग० ॥ ३ ॥ आत्मस्वरूप विचारणा करवी, मनवच तनु बश राखीजो; गृहस्थ त्यागी व्रत गुण पावन, प्रारब्धे थवुं साक्षी. योग० ॥ ४ ॥ मनवच काया अशुभ प्रवृत्ति, त्यागो शुचने भजीएजी, शुभ थकी शुद्धभावमां प्रणमो, प्रकटपणे गुण सजीए. योग० ॥ ५ ॥ सुख दुःख आवे हर्ष न शोक ज, देव गुरुने वंदोजी; प्रत्याख्यानथी इच्छाओ रोधो, प्रगटे ते दोषने निंदो. योग० ॥ ६ ॥ देह समत्व निवारी आत्म, उपयोगी थै रहेवुंजी, आवश्यक धर्म कर्मने

(३१८)

करवां, अंतरमां चित्त देवुं. योग० ॥ ७ ॥ मैत्री प्र-
मोद मध्यस्थ करुणा, भावना ज्ञावीए चारजी, सा-
धनथी साधंतां साध्यज, नासे मोहविकार. योग०
॥ ८ ॥ अध्यात्मयोगथी आतम शुद्धि, क्षणमां थावे
मुक्तिजो, बुद्धिसागर आतम आनंद, प्रगटे अनु-
भव युक्ति. योग० ॥ ९ ॥

ॐ ह्री० अध्यात्म योग पूजार्थं जलं० य० स्वाहा ॥

द्वितीया भावनायोगपूजा ॥

आतम स्वरूप विचारणा, वारंवार जे थाय; मन
समाधि सहित ते, भावना योग जणाय० ॥ १ ॥
आतमना उपयोगनो, पुनः पुनः अभ्यास; भावना
योगे संपजे, आतम शुद्ध प्रकाश० ॥ २ ॥

दशमे देशावगासीएरे. ए राग.

धन्य प्रभु महावीरनेरे, साध्यो पूरण योग; आ-
तम परमातम कर्योरे, पाम्या अनंत सुख भोग हो.

(३१९)

घटमां, महावीर प्रभुने लावीएरे, भावना योगने
 ज्ञावीएरे; कर्म रिपुने हरावीएरे, प्रगटे परमानन्द०
 ॥१॥ पहेली श्रुतनी भावनारे, सुणीए धर्म सिद्धांत;
 वांचीए श्रुत शास्त्रो भलारे, गुरुगमथी निर्व्रान्त हो.
 घटमां, भावना० ॥ २ ॥ आतम जड बे तत्त्वनारे,
 निश्चय करीए सत्य, आतम ज्ञानथी आत्मनारे, क-
 रीए धर्मनां कृत्य हो. घटमां, भावना० ॥ ३ ॥ श्रुत-
 ज्ञाने संशय टळेरे, आतम अनुभव थाय; आतम
 ते परमात्मारे, निश्चय दिल प्रगटाय हो. घटमां०
 ॥ ४ ॥ बीजी तपनी भावनारे, भावीए थै निष्काम;
 सर्वेच्छाओ रोधवीरे, तप ते आतमराम हो. घटमां०
 ॥ ५ ॥ सर्व विषयनी कामनारे, टाळे ते तप बेश;
 सर्वशुभाशुज वृत्तियोरे, तेना शमता क्लेश हो.
 घटमां० ॥ ६ ॥ त्रीजी सत्वनी भावनारे, आतम
 शक्ति अनंत; आतम सत्त्वे मोहनारे, आवे क्षणमां
 अंत हो. घटमां० ॥७॥ परिषद् संकट वेठतारे, रहेवुं
 आतममां स्थिर; सुख दुःखमां चलवुं नहींरे, मेरु पेठे

(३२०)

थबुं धीर हो. घटमां० ॥८॥ आतमना उपयोगथीरे,
 अप्रतिबद्ध विहार; निःसंग वनवास निर्भमेरे, ध्यान
 समाधिधार हो. घटमां० ॥ ९ ॥ इन्द्रादिक सुख
 त्रांति छेरे, आतम सुखनी पास; आत्म स्वतंत्रता
 धारवीरे, कर्म हणीने खास हो. घटमां० ॥१०॥ चोथी
 एकत्व छे जावनारे, जावीए धरी उल्लास; जड जगमां
 नहीं जीवनुरे, कोइ पोतानुं खास हो. घटमां० ॥११॥
 पांचमी तत्त्वनी जावनारे, जीवादिक नव तत्त्व; षड्
 द्रव्योने विचारतारे, प्रगटे निज एकत्व हो. घटमां०
 ॥ १२ ॥ आतम तत्त्वने जाणतारे, जाण्या सर्व प-
 दार्थ; बुद्धिसागर जावनारे, जावे शिव परमार्थ हो.
 घटमां० ॥ १३ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम० भावना योग पूजार्थं जलं०
 य० स्वाहा ॥

(३) तृतीया ध्यान पूजा ॥

ज्ञान प्रमाणे ध्यान छे, गुरुगमथी छे ध्यान,

(३२१)

संयम स्थिरता संपजे, ध्यानथी केवल ज्ञान. ॥ १ ॥
 व्यक्तनो भेद समाधि छे, मति श्रुतज्ञाने ध्यान;
 साकारी उपयोगथी, अंतर्मुहूर्त प्रमाण. ॥ २ ॥ आ-
 तम आदि तत्त्वमां, उपयोगे एकतान; अंतर्मुहूर्त
 ध्यान छे, ध्यान प्रवाह बहु मान. ॥ ३ ॥ आर्तरौद्र
 बे परिहरी, धर्म शुक्र बे ध्यान; ध्याइए उपयोगथी,
 जीव बने भगवान् ॥ ४ ॥

हे सुखकारी आ संसारथकी जो मुजने उद्धरे.

ए राग.

महावीर प्रभु तुज ध्याने लय लागी बीजुं न-
 हीं ममे; त्हें ध्यान धर्युं बार वर्ष लगी तेमां मुज
 आत्म रमे, त्हें ध्याने केवल प्रगटाव्युं; मुज मनमां
 ध्यान ते शुभ भाव्युं, ध्याने प्रगटे सुख समजायुं.
 महावीर. ॥ १ ॥ वायु वण दीप शिखापेरे, आत्म
 ध्याने आनंद लहेरे; रहेवुं शुद्धात्म निज चहेरे. म-

(३२२)

हावीर. ॥ २ ॥ मेरुपरे स्थिर ध्याने थावुं, अंतरमां
 साक्षो थै जावुं; ध्याने आतम पोते ध्यावुं. महावीर.
 ॥ ३ ॥ पिंडस्थ पदस्थ वे ध्याइजे, रूपस्थने दिक्षमां
 पाइजे; रूपातीतथी शिव पाइजे. महावीर. ॥ ४ ॥
 आतम ध्याने लगनी लागे, ऋद्धि सिद्धि लब्धि
 जागे, घातीकर्मों वेगे भागे. महावीर. ॥ ५ ॥ शु-
 द्धातम उपयोगे रहीए, आनन्दोद्धासे गहगहीए;
 जीवतां मुक्ति सुख लहीए. महावीर. ॥ ६ ॥ खेद
 उद्वेग ब्रमने परिहरीए, उत्थानने क्षेपने झट ह-
 रीए; आसंग त्यजी ध्यान ज धरोए. महावीर. ॥७॥
 अन्यत्र प्रेमने नहीं करीए, रोगोदयमां स्थिरता ध-
 रीए; संकल्प विकल्पने परिहरीए. महावीर. ॥ ८ ॥
 शुद्धध्याननी जावना भावीए, आतम लाली प्रगटा-
 वोए, आतम गुणपर्याय ध्यावीए. महावीर. ॥९॥ म-
 नवचतनुनी स्थिरता करीए, कदि मोहना मार्या
 नहीं मरोए; आतम महावीरदशा वरीए. महावीर.
 ॥ १० ॥ ध्याने ज्ञानादिक गुण सिद्धि, क्षायिक नव

(३२३)

प्रगटे घट लब्धि; बुद्धिसागर आनंद ऋद्धि. महा-
वीर. ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम० ध्यानयोग पूजार्थे. जलं०
य० स्वाहा.

चतुर्थी समता योगपूजा.

समताथो शिव संपजे, आठ कर्म दूर जाय;
समता प्रगट्या वण कदि, कोइ न मुक्ति पाय. ॥१॥
सर्व योगशिरोमणि, समतायोग महान्, राग रोष
ठे विषमता, त्यजे स्वयं भगवान् ॥ २ ॥ सर्वधर्म
दर्शनविषे, समभावे छे मुक्ति; समता दिलमां धा-
रीए, सर्वयोग वरु रीति ॥ ३ ॥

वगडानो वाशीरे मोरशिद मारियो. ए राग.

प्रभु महावीर समतागुणना दरियारे, रागने
रोष विषमता परिहरी; समता गुणथी भरिया जोत्रो
तरियारे, ममताने त्यागेरे समता छे खरी. समताने
धारेरे शिवसुख थाय छे, ममता ने अहंता दूरे जाय

(३२४)

ठे; आत्म ते परमात्मपद पाय छे, आत्म एक
 आपोआप सुहाय ठे. ॥ १ ॥ जडविषयोमां शुभ-
 अशुभ नहीं वृत्तिरे, सुख दुःखमां हर्ष न शोक जरा
 रहे, लाभालाजमां मरण जीवनमां समतारे, आत-
 मना उपयोगे साक्षीपणुं वहे. समताने० ॥२॥ शुजा-
 शुभपणुं जगमां नहीं कल्यातुरे, आत्म जड निज
 निज भावे जणाय छे, जडमां सुख दुःख विषमप-
 णानी त्रांतिरे, थाती नहीं आत्म निःसंग थाय छे.
 समताने० ॥३॥ कमठ अने धरणेंद्र उपर समभावीरे,
 धन्य धन्यरे पार्श्वप्रभो !! तहारी दशा; चंडकोशिया सं-
 गम इन्द्रनी उपरेरे, समताना योगीरे महावीर दिव
 वस्या. समता० ॥ ४ ॥ समताजावे स्कंधक सूरिना
 शिष्योरे, रहियारे क्षणमां मुक्तिपद वर्या; अचंकारी
 भट्टा अन्निकापुत्रेरे, सद्गतिने साधोरे जक्सामर
 तर्या. समताते० ॥ ५ ॥ दमदंतने नमि राजर्षि
 शिव पाम्यारे, मेतारज समताए मुक्ति लह्या; गज
 सुकुमाले समता घटमां धारोरे, एम अनेक समताए
 शिवपद वह्या. समताने० ॥ ६ ॥ नामरूप शास्त्रा

(३२५)

दिक वासना टाळीरे, लोकादिक संज्ञारे टाळेरे सम-
 पणुं; पंचेन्द्रिय विषयोनी कामना टळतारे, मनमारे
 प्रगटे नहीं विषयीपणुं. समताने० ॥ ७ ॥ समताए
 आतमनुं सुख अनंतुरे, तेनीरे आगळ जडसुख नहीं
 कश्युं; अहंपणुं ममता टाळतां ज्ञानेरे, ज्ञानीना दि-
 ल्मां अनुभव सुख वस्युं. समताने० ॥ ८ ॥ जन्मचै-
 तनमां समजावी उपयोगीरे, एवोरे आतम हुं साक्षी
 रह्यो; कर्मविषाकमां मुंजुं नहीं समजावेरे, उपयोगे
 एवो निश्चय में लह्यो. समताने० ॥ ९ ॥ प्रभु महा-
 वीर!!! हुं तुज समता अनुसरतोरे, शुद्धातम महावीर
 पदने पामशुं; आतमज्ञाने शिवपुर दोवुं मीवुंरे, पा-
 मीशुं योगथकी त्यां ज्ञामशुं. समताने० ॥ १० ॥
 समतायोगने उपयोगे दिव धरोएरे, वरीएरे मुक्ति
 दशा जीव्याठते. बुद्धिसागर समतासंगी रंगीरे,
 मुक्तिरे सर्व धर्म समताछते. समताने० ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं श्री परम० समतायोग पूजार्थ जलं०
 यं० स्वाहा ॥

(३२६)

पंचमी वृत्तिसंक्षययोग पूजा.

मोहादिनी चित्तमां, प्रगटी वृत्ति निरोध; चित्तनी वृद्धि निरोधथी, प्रगटे केवल बोध. ॥ १ ॥
 सर्व संकल्प विकल्प जे, मोहनी वृत्ति गणाय; तेना पूरण नाशथी, नवलब्धि प्रगटाय. ॥ २ ॥ तिरो-
 भाव निज ऋद्धिनो, आविर्जाव जे थाय; पूर्णयोग ते जाणवो, साध्य स्वरूप सुहाय. ॥३॥ ज्ञान ध्यान समतायकी, मोहनी वृत्ति विनाश; ज्ञानावरणादिक टळे, निज गुणे शोचे खास. ॥ ४ ॥

चउमासी पारणुं आवे. ॥

धन्य महावीर प्रभु जयकारी, पूजुं ध्यावुं शिव सुखकारी; चित्तवृत्ति हणी जयकारी, वृत्ति संक्षय योगना धारीरे; महावीर प्रभु जयकारी. मोहवृत्ति हणो नरनारीरे. महावीर. ॥१॥ सर्व अशुच वृत्तिना त्यागे, देवगुरु धर्म उपरे रागे; शुभवृत्ति व्यापार ना लागे, योग प्रथमदशामां ए जागेरे. महावीर,

(३२७)

॥२॥ धर्मार्थे शुभ परिणामे, काया वाणी धर्ममांशामे;
 प्रशस्यकषायना ठामे, शुभ दर्शन चारित्र ठामेरे.
 महावीर. ॥ ३ ॥ सेवाभक्ति शुभ प्रवृत्ति, शुभ योगे
 आतम व्यक्ति; सात्त्विक परिणामनी शक्ति, शुभयो-
 गमां शुभ आसक्तिरे. महावीर. ॥ ४ ॥ शुभ वृत्ति
 टळे शुद्धजावे, शुद्ध उपयोग ध्यान प्रजावे; सवि
 कल्पता दूरे जावे, मनोवृत्ति व्यापार न थावेरे. महा-
 वीर. ॥ ५ ॥ टळे सर्व कषायो ज्यारे, प्रगटे केवल
 ज्ञान त्यारे; मनोवृत्ति रहे न लगारे, घाती कर्मो रहे
 नहीं चारेरे. महावीर. ॥ ६ ॥ शुभाशुभ चित्तवृत्ति
 विनाशे, शुद्ध उपयोग वीर्योद्धासे; श्रुत उपयोगना
 अभ्यासे, शुद्ध आतम ज्ञान विकासेरे. महा. ॥ ७ ॥
 सयोगी गुण स्थान सुहावे, पळे अयोगी थै शिव जावे;
 साधन योग अभाव ज थावे, सिद्ध बुद्ध परम प्रभु
 थावेरे. महावीर. ॥ ८ ॥ एक एकज योगे अनंता,
 जीवो मुक्ति पदने वरंता; आतम शुद्धिमां सर्वे म-
 लंता, जाणे सापेक्षज्ञाने संतारे. महावीर. ॥ ९ ॥

(३२८)

क्षयोपशमे उपशम जावे, जाव क्षायिके चेतन आवे;
 शुद्ध परिणामे प्रणमे स्वभावे, निवृत्तिपणुं झट था-
 वेरे. महावीर. ॥ १० ॥ पंच समिति त्रिगुति पाळी,
 मन मोहनी वृत्तियो टाळी, देजो आतममां मन
 वाळी;; बुद्धिसागर आनंदलाळीरे. महावीर. ॥११॥

— . —
 कलश.

गायोरे गायोरे महावीर जिनेश्वर गायो. ॥ पंच
 प्रकारी योगनी पूजा, रचीने प्रभु गुण गायो; योग-
 नी पूजा ते प्रभु भक्ति, करतां आनंद पायोरे. महा-
 वीर० ॥१॥ दर्शन ज्ञानने चारित्र योगमां, सर्वे योग
 समाया; पांच योग पंच समिति त्रिगुति, असंख्य
 योग कथायारे. महावीर० ॥ २ ॥ चउदगुण स्थान
 अष्टांग योग ज, आतममांही समाया; शुद्धातम
 उपयोगमां सर्वे, अंतर्भावने पायारे. महावीर० ॥३॥
 आतममांही भेदाभेदे, सर्वे योग समाता; पातंजल
 आदि योग भेदो, पंचथी न्यारा न थातारे. महा-

(३२९)

वीर० ॥ ४ ॥ गुरुगमधी योग साधता ज्ञव्यो, अनंत
 शक्ति सुहाता; चिदानंद अनुभवने पाता, सिद्ध बुद्ध
 थे जातारे. महावीर० ॥ ५ ॥ प्रभु महावीर पट्ट परं-
 परा, श्वेतांबर साम्राज्ये; तपगच्छ जगगुरु हीरविजय
 सूरि, सूर्यनी पेठे ठाजेरे. महावीर० ॥ ६ ॥ तसपट्ट
 सागरपट्ट परंपरा, नेमिसागर गुरुराया; तस शिष्य
 रविसागर गुरु रविसंम, भारत सुजश ठवायारे. महा
 वीर० ॥ ७ ॥ तस शिष्य सुखसागर समतावंत, मुनि
 गणमांहि सवाया; तस शिष्य बुद्धिसागरसूरिए,
 योग्यकी प्रभु ध्यायारे. महावीर० ॥ ८ ॥ संवत्
 ओगणिश अव्योत्तरना—आश्विनमां जयकारी; वदि
 पंचम बुधवार सवारे, पूजा रची सुखकारीरे. महा-
 वीर० ॥ ९ ॥ जणशे गुणशेने सांजळशे, भावथकी
 आचरशे; नरनारी ते शिवपद वरशे, भवपाथोधि
 तरशेरे. महावीर० ॥ १० ॥ मेसाणा संघ भक्तिथी
 कीधुं, चोमासुं सुखकारी; बुद्धिसागर ऋद्धि वृद्धि,
 कीर्ति लहो नरनारीरे. महावीर० ॥ ११ ॥



(३३०)

पंचपरमेष्ठी पूजा.

प्रणमुं प्रभु महावीर जिन, चोवीसमा अरि-
हंत; वर्तमान शासनपति, परमेश्वर शिवकंत. ॥१॥
परमेष्ठी पूजा रचुं, द्रव्यने जावथो बेश; जणतां सु-
णतां आचरे, नासे सर्वे क्लेश. ॥ २ ॥ अर्हन् सिद्धने
सूरिजी, वाचक मुनि जयकार; परमेष्ठी मंगलकरा,
सुख शांति दातार. ॥ ३ ॥

प्रथम अरिहंत पद पूजा.

अउ निक्षेपे ध्यावतां, स्तवतां पूजतां सार;
अरिहंत प्रभु वंदतां, कर्म टळे निर्धार. ॥१॥ अरि-
हंत छे आतमा, गुण पर्याये शुद्ध; प्रभु भजतां निज
आतमा, थावे प्रभु जिन बुद्ध. ॥ २ ॥ दोष अढार
रहित विभु, अरिहंत जिनराज; पूजतां प्रगटे प्रभु
त्रण भुवन शिरताज. ॥ ३ ॥

(३३१)

राग वेलावल. मेरु शिखर न्हवरावे हो जिन-
पति. ए राग.

अरिहंत जिनपति भजीए हो भावे, अरिहंत
जिनपति भजीए ॥ द्रव्यने जावथी वोशस्थानक पद,
हर्षोद्धासे आराधे; अनंतपुण्यमयी जिननामने,
बांधी प्रभुपद साधे हो. अरिहंत जिनपति भजीए
जावे० ॥ १ ॥ समवसरणमां जाव अरिहंत, जवि-
जनने उपदेशे; त्रण्यकाल जिनवर पूजंतां; मनहुं न
रहे जवळेशे हो. अरिहंत० ॥ २ ॥ द्रव्य गुण पर्याय
अरिहंत, आतम आप स्वरूपी; बुद्धिसागर प्रेम
प्रतीते; चिदानंदफलरूपी हो. अरिहंत० ॥ ३ ॥

ॐ प० अर्हत्पद पूजार्थं ज० य० स्वाहा.

द्वितीया सिद्ध पूजा.

षड निक्षेपे सिद्ध पद, सेवंतां नर नार; अष्ट
कर्म क्षय झट करो, सिद्ध बने निर्धार. ॥ १ ॥ शु-
द्ध बुद्ध परमातमा, सिद्ध प्रभु जगवंत; परब्रह्म पर-

(३३२)

मेन्द्रस, पूजंता भविसंत. ॥ २ ॥ आत्म गुण पर्या-
यनी, पूर्ण शुद्धि जे आय; ते निज पर्यव सिद्धता,
आत्ममांहि समाय. ॥ ३ ॥

प्रभु दर्शन मोहनगारा. ए राग.

प्रभु परमात्म रढ लागी, प्रभु सिद्धनी श्रीत-
ही जागीरे. प्रभु ॥ आठे कर्म रहित शुद्ध आत्म,
आठगुणी वडभागी; गुण एकत्रिंश अनंत गुणीजे,
थयो प्रभुपद रागीरे. प्रभु. ॥ १ ॥ अउनिक्षेपे सात-
नये सिद्ध, जाणंतां लय लागी; आत्म ते सिद्ध
बुद्ध प्रभु छे, सत्ताए सौभागीरे. प्रभु. ॥ २ ॥ आत्म
पूरण शुद्धि सिद्ध ते, पूजंतां वैरामी; बुद्धिसागर नि-
र्भय देशी, निर्मोही महात्यागीरे. प्रभु. ॥ ३ ॥

ॐ व० सिद्धपद पूजार्थे ज० य. स्वाहा.

(३३३)

तृतीया आचार्य पद पूजा.

ठत्रीशी छत्रीशी गुणवने, गुणी जे ज्ञानी महंत;
 पंचाचारने पाळता, पूजु सूरि संत. ॥ १ ॥ द्रव्या-
 दिक अनुसारथी, श्री सूरि गुणवंत; चावथी आ-
 तम सूरि छे, पूजो प्रणमो संत. ॥ २ ॥ नय निक्षे-
 पथी सूरिपद, निजपरने हितकार; निश्चयने व्यव-
 हास्यी, पूजो नरने नार. ॥ ३ ॥

रस देशस्व.

जगत्मां सूरिश्वर जयकारो. जिन शासनद्वो
 शोभाकारो, प्रभु पेठे उपकारी. जगत्. ॥१॥ छत्रीशी
 ठत्रीशी गुणगण शोजित, पंचाचारी विहारी; कलि-
 काले प्रभुगटे प्रभुसम, संघ सकल आधारी. ज.
 ॥ २ ॥ जैनधर्म वर्तने जगमां, निश्चयी जे व्यव-
 हासी; शुद्धात्म गुणध्यान समाधि, राता आनंद-
 कारी. ज. ॥ ३ ॥ आत्मज्ञानी जे मस्तानी, अतस्त

(३३४)

आनंद धारी; बुद्धिभागर सद्गुरु सूरि, पूजतां
जवपारी. जगत्. ॥ ४ ॥

ॐ० सूरिपद पूजार्थं ज० य. स्वाहा,



चतुर्थी उपाध्याय पद पूजा.

पच्चीश गुणथी शोभता, वाचक धर्माधार; भणे
भणावे साधुने, सम्यक् श्रुत दातार. ॥ १ ॥ अनेक
गुणथी शोचता, साधे धर्माचार; संयममां वर्ते सदा,
साधु धर्म धरे सार. ॥ २ ॥ श्रुतने चारित्र धर्मथी,
आतम धर्म प्रकाश;—करता वाचक पूजतां, थावे
कर्म विनाश. ॥ ३ ॥



सोवे सोवे सारी रेंन गुमाइ. ए राग. पीळु. ॥

वाचकपद आतम गुण धारी, ज्ञानने दर्शन च-
रण विहारी. वा० ॥ आतम शुभ परिणति जयकारी,

(३३५)

वाचक पूजानी बलिहारी. वाचक० ॥ १ ॥ ज्ञानानु-
 जवसुखनी क्यारी, पंच महाव्रत पंचाचारी. वा०
 मुनिगण पाठक जगहितकारी, श्रुतरसिया संयम
 गुणधारी. वाचक० ॥ २ ॥ पूजी वंदी वाचक पदने,
 आनंद पामो नरनेनारी; बुद्धिसागर गुरु-अवतारी,
 वाचक जगमां ठे सुखकारी. वा० ॥ ३ ॥

ॐ वाचक पद पूजार्थं ज० य० स्वा०

॥ पंचमी साधुपद पूजा ॥

इन्द्र चन्द्र नागेन्द्रनी पदवी न इच्छुं लेश;
 क्षण पण साधु संगति, इच्छुं रहे न क्लेश० ॥ १ ॥
 पूजुं मुनिपद प्रेमथी, इच्छुं मुनिवर संग; क्षण पण
 साधु संगतें, प्रगटे ज्ञान तरंग ॥ २ ॥ संतथी प्रभु
 परखाय छे, विणसे मोहविखास; प्रभुदर्शन प्रभु
 प्राप्तिमां, साधु दखाल ज खास ॥ ३ ॥

(३३६)

राग वसंत.

तुंतो पाठक पद मन धर हो. रंगीले जिउरा ए राग.

जीव मुनिवर संगत कररे, प्रभु रसिया प्यारा;
 जरु चेतनसां जे समभावी, गुणोना गुण दिलमां
 धररे. प्रभु० ॥१॥ श्रुतज्ञानी निजपर उपकारी, खेद
 द्वेष नहि जरी कररे. प्रभु० संतनां दर्शन ते प्रभु
 दर्शन, जेने नहीं धन नारी घररे. प्रभु० संतहृदय
 मांहे प्रभुजी ठे परगट, संत वचनामृत पान कररे.
 प्रभु० ॥ २ ॥ आधि व्याधि सर्व उपाधि, नासे मन
 न रहे चंचळरे. प्रभु० श्रद्धाप्रीतिथो स्वार्पण करी
 सहु, तुंतो साधुनी सेवा कररे. प्रभु० ॥ ३ ॥ शांति
 पमाने संत ते साधु, बहु विनय करी मन धररे.
 प्रभु० साधु कृपाथकी प्रभु परगट दिल, मोहजात्रे
 न फळो फररे. प्रभु० ॥ ४ ॥ आत्म गुण पर्यायनी
 शुद्धि, पंचपरमेष्ठी पद स्मररे. प्रभु० बुद्धिसागर पू-
 णानन्दी, उपयोगे घटमां विचररे. प्रभु० ॥ ५ ॥

(३३७)

कलश.

गाइ गाइरे पंच परमेष्ठी पूजा गाइ, ओगणिश
 अठ्योत्तर अक्षयत्रीज, चढते प्रहरे रचाइ; शांति
 तुष्टि पुष्टि सिद्धि,—देनारी सुखदाइरे. पंच. ॥ १ ॥
 प्रभु महावीर पट्ट परंपरा, तप गच्छ जग सुखदायी;
 जगगुरु हीरविजय सूरिराजा, सहुगच्छमांही सवा-
 इरे. पंच० ॥ २ ॥ सागर शाखा पट्ट परंपरा, रविसा-
 गर गुरुराजा; सर्व मुनि गणना शिरताजा, मुनि
 गुणगणनी माझारे. पंच. ॥ ३ ॥ रविसागर शिष्य-
 गुरु सुखसागर, शांत दांत सुखदायी; गुरुकृपाने आ-
 शीर्वादे, आतम स्थिरता पाइरे. पंच. ॥ ४ ॥ पंच
 परमेष्ठी पूजा रची शुभ, आनंद मंगलदायी; बुद्धि-
 सागर ऋद्धि वृद्धि, कीर्ति जयगुण छायोरे. पंच ॥ ५ ॥
 ॐ मुनिपद पूजार्थ० ज० य. स्वाहा.

(३३८)

अथ श्री महावीर जन्म कल्याणक जयंती
महोत्सव पूजा.

॥ दुहा ॥

परमेश्वर परमातमा, महावीर जिनराज; वी-
तराग अरिहंतजी, सर्वदेव शिरताज ॥ १ ॥ चोवी-
शमा तीर्थकरा, सर्वविश्व आधार; केवलज्ञाने
बोधीने, तार्या नरने नार. ॥ २ ॥ भारत आदि दे-
शनो, कीधो धर्मोद्धार; वर्तमान शासन प्रभु, तीर्थ-
कर अवतार. ॥ ३ ॥ जेना कल्याणक दिने, नरक
विषे उद्योत; शातापामे विश्वजीव, अनंत निर्मल
ज्योत. ॥ ४ ॥ कल्याणक पांचे भलां, च्यवन जन्म
कल्याण; प्रभु महावीर देवनां, गातां आनंद ल्हाण.
॥ ५ ॥ जन्मोत्सवने उजवे, जन्मादिक नहि थाय;
प्रभुभक्तिथी भक्तनां,—दुःखो दूरे जाय. ॥ ६ ॥ द्रव्य
ज्ञाव भक्तिथकी, आतम शुद्धि थाय; च्यवन ज-
न्मने गावतां, पुण्योदय प्रगटाय. ॥ ७ ॥ प्रभु ज-
न्म कल्याणनो, पूजा विविध प्रकार; गातां स्तवतां

(३३९)

भक्त जन, सुख शांति लहे सार. ॥ ८ ॥ ते कारण
 पूजा रचुं, आनंद मंगल काज; घर घर पूजा गा-
 वतां, स्तवतां सुख साम्राज्य. ॥ ९ ॥ शुभ कार्यो
 करतां थकां, समकृती नरनार; वर्धमानपूजाबले,
 शांति लहे नरनार. ॥ १० ॥ प्रभु महावीर देव-
 ना, जन्म गुणो गानार; शांति तुष्टि पुष्टिने, जय
 लक्ष्मी वरनार. ॥ ११ ॥ महावीर जन्मजयंती दिन,
 उत्सव जे करनार; पूजा जेह भणावशे, सुख लहेशे
 जयकार. ॥ १२ ॥ अनंत गुण उपकारोजे, विश्वोद्धार-
 रक देव; जन्म जयंती महोत्सवे, रसिया पामे सेव.
 ॥ १३ ॥

॥ प्रथमभवे समकृतप्राप्ति पूजा ॥

पुखलवइ विजये जयोरे. ए राग.

पश्चिम महाविदेहमारं, ग्रामपति नयसार;
 गुणरागी विनयो भलोरे, ग्रावतणो आधाररे. चे-

(३४०)

तन ! समकित छे जयकार, जेथी लहो जव पाररे.
चेतन. स० ॥ १ ॥ एक दिवस वनमां गयोरे, काष्ठा-
दिकने काज; जूल्या पड्या एक साधुनेरे, दीधी
प्रेमे साजरे. चेतन० ॥ २ ॥ साधुनी सेवा करीरे,
वहोराव्यो आहार; राच्यो माच्यो हर्षियोरे, धन्य
गण्यो अच्यो अवताररे. चेतन. स० ॥ ३ ॥ योग्य जाणीने
साधुएरे, दीधो धर्मोपदेश; देवगुरुने धर्मनीरे, श्रद्धा
प्रगटी बेशरे. चेतन. ॥ ४ ॥ त्रण्य करण करी फर-
शियुंरे, समकित मोक्षनुं द्वार; समकित पामे भव
तणीरे, गणतरी छे निर्धाररे. चेतन. ॥ ५ ॥ नय-
सारे बहुजावथीरे, मुनिना वंद्या पाय; संतनी सेवा
चाकरीरे, निष्कल क्यारे न जायरे. चेतन० ॥ ६ ॥
मिथ्यादृष्टि टळ्या पळीरे, देवगुरुपर प्रेम; धर्म
प्रेम वाधे घणोरे, प्रगटे योगने क्षमरे. चेतन. ॥७॥
समकितवंता जीवमारे, कर्मोदये करे काज; अंत-
रथी न्यारा रहेरे, इच्छे शिवपुर राजरे. चेतन. ॥८॥
अंतर्मुहूर्त लगी रहेरे, उपशम समकित बेश; पण

(३४१)

ते नियमा जव करेरे, टाळे कर्मना क्लेशरे. चेतन.
 ॥ ९ ॥ क्षयोपशम समकित भल्लुरे, प्रगटे वार अ-
 संख्य; क्षायिक एकज वारथीरे, आतम करे निःशं-
 करे. चेतन. ॥ १० ॥ यदा समकित प्रगटे तदारे,
 देव गुरुपर राग; धर्मराग श्रद्धा घणोरे, मिथ्याचा-
 रनो त्यागरे. चेतन. ॥ ११ ॥ साधु संतना योगथीरे,
 जद्रक गुणी नयसार; समकित पाम्यो अंशथीरे,
 बन्यो प्रभु अवताररे. चेतन. ॥१२॥ तीर्थकर महा-
 वीरनोरे, आतम चढ्यो गुण थान; ऋषभदेव पौत्रज
 थयोरे, पाम्यो बहुश्रुत ज्ञानरे. चेतन. ॥ १३ ॥ म-
 रिषि नामे मुनि थयोरे, बीजा लह्या अवतार; एक-
 वार समकित लहेरे, पडे त्हाँये चढे साररे. चेतन.
 ॥ १४ ॥ समकित चारित्र करणीएरे, भवनो निश्चय
 अंत; बुद्धिसागर वीरनारे, गुणग्रहो मतिमंतरे.
 चेतन. ॥ १५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म
 जरा मृत्यु निवारणाय, श्रीमते महावीर जिनेन्द्राय,

(३४२)

जलं, चंदनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं,
यजामहे स्वाहा ॥

द्वितीया तीर्थंकर नाम कर्मबंधक पूजा.

धन्य धन्य महावीरनो, पञ्चीशमो अवतार; भ-
रत ठत्रिका नगरीमां, जन्म्या जग हितकार. ॥ १ ॥
जितशत्रु राजातणो, जद्रा राणी कूख; नन्दन न-
न्दन नामथी, जन्म्या जस बहु सुख. ॥ २ ॥ पो-
ट्टिलसूरि उपदेशथी, ग्रह्यं चारित्र उदार; समकितने
चारित्रथी, निश्चय मुक्ति थनार. ॥ ३ ॥ समकितने
पाम्या पढी, समकित जो टळी जाय; तोपण पाळुं
ते लही, चारित्री शिव पाय. ॥ ४ ॥ सर्वनयोनुं
सार ठे, द्रव्य जाव चारित्र; चारित्री निश्चय करे,
सर्वकर्मने रिक्त. ॥ ५ ॥

(३४३)

सांभळजो सखियां हमारी ए चाल.

नमुं नंदन मुनि जयकारो, धन्य मुनिवरनी
 बलिहारी ॥ करे मास खमण तप भारी, बीस स्था-
 नक सेवना सारी; थया उत्कृष्टा अनगारीरे, भावे
 भावना शुद्ध विचारी; दउ विश्वजीवो उच्चारी. नमुं.
 ॥ १ ॥ करुं शासन रसो नरनारी, दुःख दृष्टि टळे
 दुःखकारी; सर्वजीवविषे उजियारी, करुं जावना
 एवी सारीरे; प्रगटी शुभ परिणति क्यारी, बांध्युं
 तीर्थकर पद भारो. नमुं. ॥ २ ॥ प्रत्यारव्यानी क-
 षाय विरामे, दुष्ट संज्वल परिणति वामे; धर्म ध्या-
 नावलंबन ठामे, वधंता उज्ज्वलपरिणामेरे; छट्टा
 गुणस्थानकना धारी, धन्य धन्य मुनि अनगारी.
 नमुं. ॥ ३ ॥ रागद्वेषनी परिणति टाळे, समता
 सुखमांहि म्हाले; शुभ अशुभ बुद्धिने खाळे, निज
 आतममां मन वाळेरे; जेणे कंचन कामिनी टाळी,
 जडथी मूच्छा उतारी, नमुं. ॥ ४ ॥ क्षयोपशमी

(३४४)

चारित्र पाळे, प्रगटया दोषो झट टाळे; षडावश्यके
 गुण अजवाळे, करे मोहथी युद्धज आरोरे; नहीं दि-
 ल्पमां अरिनी यारी; उपयोगे रहे हितकारी. नमुं.
 ॥ ५ ॥ चार भावना दिव्पमां जावे, शुद्ध आतम
 रूपनेध्यावे; सहे उपसर्गो समभावे, एवा संत
 मळे शिव थावेरे; एवा सराग संयमधारी, धन्य नं-
 दन मुनि सुखकारी. नमुं. ॥ ६ ॥ धन्य चारित्री
 गुणधारी, द्रव्य गुणपर्याय विचारी; बन्या द्रव्य
 क्रिया व्यवहारी, जे निश्चय उपयोग धारोरे; बुद्धि-
 सागर मुनि महाराजा, सुरपति नरपति शिरताजा.
 नमुं. ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं प० श्रीमते महावीर जिनेन्द्राय,
 जलं, चंदनं पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं च सं-
 यतगुणलाभाय य० स्वाहा ॥

(३४५)

तृतीया प्राणांत स्वर्गगमनदशावर्णन पूजा.

आयु क्षये नंदन मुनि, दशमा स्वर्ग मझार,
 उपज्या वीश सागर उपम, आयुथी जयकार. ॥१॥
 मति श्रुत अवधिज्ञानना,—धारक सुर सुखकार; पूर्व
 भवोने जाणता, शुभ परिणामो उदार. ॥२॥ जोगवे
 मनथी जोगने, पण नहि जोगो जेह; सम्यग्दृष्टि
 देवने, वतें नहि संदेह. ॥ ३ ॥

सांभळशो मुनि संयम रागे—ए राग.

सांभळशो महावीर प्रभुनो, ष्ठीशमो भव सा-
 रोरे; मतिश्रुत अवधिना उपयोगे, जातो सुर जन्मा-
 रोरे. सांभळशो० ॥ १ ॥ सराग संयम तप जप कर्मे,
 स्वर्ग गतिने पामेरे; सम्यग्दृष्टि, मुक्ति माटे, विचरे
 रहे विश्रामेरे. सांभळशो० ॥ २ ॥ वैक्रिय देही पुद्-
 गल शक्ति,—धारक जक्तिधारीरे; धर्मीजीवोने स-
 हाय करंता, कर्मयोगी उपकारीरे. सां० ॥३॥ शुक्ल

(३४६)

शुक्ल परिणामना धारी, कामी ठतां जे अकामोरे;
 सम्यग्दृष्टियोगे सबळुं, जाणे न धारे खामीरे.
 सां० ॥४॥ पुण्य भोग जोगवता विचरे, मुक्ति सुख
 अभिलाषीरे; सबळुं आयुष्य पूरण करता, शुद्धातम
 विश्वासीरे. सां० ॥ ५ ॥ अनंत निर्जरे अल्पकर्मबंध,
 सम्यग्दृष्टि योगेरे; बाह्यथकी देवजवना सुखने,
 भोगवे उदयप्रयोगेरे. सां० ॥६॥ तोर्थकर पद बांध्यु
 जाणे, भावी जन्मने जाणेरे; एक समये चवतां नहि
 जाणे, उपयोग मुहूर्त प्रमाणेरे. सां० ॥ ७ ॥ शिव
 मारग विसामो सुरभव, वीरप्रभुनो जाणेरे; बुद्धि-
 सागर प्रभुगुणभक्ते, जन्म सफल थयो मानोरे.
 सां० ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म
 जरा मृत्यु निवारणाय, श्रीमते महावीर जिनेन्द्राय,
 भक्तिलाभार्थं ज० य० स्वाहा ॥

(३४७)

चतुर्थी च्यवन कल्याण पूजा.

भारत माहन कुंरुमां, ब्राह्मण ऋषभदास; देवा-
नंदा ब्राह्मणी, पतिव्रता जे खास. ॥ १ ॥ प्राणत
स्वर्गथकी प्रभु, जोगवी सुरनुं आय; देवानंदा कुख
विषे, प्रगट्या पुण्यपसाय. ॥ २ ॥ चौद स्वप्नने
देखती, देवानंदा मात; ऋषभदासना बोधथी, जाणी
थै रळियात. ॥ ३ ॥

मेतारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार. ए राग.

कर्मोदयथी-देवानंदा, कुखमां चवी प्रभु आय;
ब्यासी रात्री दिवस त्यां रहिया, कर्मथकी न छू-
टाय; त्रिज्ञानी प्रभुजी भोगवे कर्मना भोग. ॥ १ ॥
क्षत्रिय कुंड नगरोमांही, सिद्धारथ गुणी राय; त्रि-
शला राणी तेनी कुखमां, श्याव्या प्रभु सुखदाय.
त्रिण ॥ २ ॥ त्रिशला माता चौद स्वप्नने, देखी ह-
र्षित थाय; जोषीओ बोले तीर्थकर,—प्रगट्या छे

(३४८)

जगराय. त्रि० ॥ ३ ॥ राजा जोषीगण संतोषे, दाने
अने सन्माने; त्रिशला माता प्रचुगुणजक्ते, आयु
वहे ते न जाणे. त्रि० ॥ ४ ॥ गर्भे रहिया त्रिज्ञानो
प्रभु, उपयोगे जिनराय; शाता वेदनो वेदे गर्भमां,
गर्भकाल वीती जाय. त्रि० ॥ ५ ॥ नव मासने उपर
साडा-, सात दिवस वही जाय; बुद्धिसागर प्रभु म-
हावीर, गर्भ गुफामां सुहाय. त्रि० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं० प० महावीर च्यवन कल्याणक
पूजार्थं ज० य० स्वाहा ॥

॥ पंचमी श्री महावीर जन्म कल्याणक पूजा ॥

त्रिशला माता विधिथी, गर्भवहे सुखकार;
शांति तुष्टि पुष्टिथी, आरोग्य ज धरनार. ॥ १ ॥
चैत्री सुदि त्रयोदशी, मध्य रात्रीना योग; सर्व दिशा
निर्मल छते, जन्म्या प्रभु गुण जोग. ॥ २ ॥ अज-
वालुं नरके थयुं, चौद भुवन उद्योत; सर्व जीव शा-

(३४९)

ता थइ, जेनी निर्मल ज्योत. ॥ ३ ॥ छप्पन दिशि
कुमरी तुरत, आवी प्रभुने पास; सूति कर्म जावे
कर्यु, माता हर्ष उल्लास. ॥ ४ ॥

॥ मेरु शिखर न्हवरावे हो सुरपति० ॥ ए राग ॥

प्रभु जन्म्या ते काले हो सुरपति, सघळा म-
ळी झट आवे; प्रभुनी माता पासे आवी, प्रभु प्र-
णमीने वधावे हो; सुरपति सघळा मळी तिहां आ-
वे. ॥ १ ॥ प्रभु बिंब मूकी प्रभुपासे, प्रभुने मेरु
खेइ जावे; आठ जातिना कलश भरीने, स्नात्र करी
गुण जावे हो; सुरपति प्रेमे प्रभु न्हवरावे. ॥ २ ॥
चोसठ इन्द्रो प्रभु गुण गावे, हैडे हर्ष न मावे; त्र-
ण्य जगतूना नाथने ध्यावे, भक्ते उल्लसित थावे हो;
सुरपति प्रेमे प्रभु न्हवरावे. ॥ ३ ॥ चार निकायना
देव देवीओ, इन्द्रो असंख्य त्यां आवे; विधिण पूजी
प्रभुने मातनी,—पासे मूकी जावे हो. सुरपति. ॥४॥
प्रातःकाले जन्मने जाणी, सिद्धारथ नृप जावे; प्रभु

(३५०)

जन्मोत्सव देश नगरने, घर घरमां विरचावे हो;
 प्रभुजी जन्म्या जग जयकारो. ॥ ५ ॥ शांति तुष्टि
 पुष्टि मंगल,—वायु चारत वायो; भारतमांही सोना
 सूरज, उग्यो प्रगट सुहायो हो. प्रभुजी. ॥ ६ ॥
 भारतमां सुख शांति वतों, रोग उपद्रव शामो; प्रभु
 कल्याणक योगे जगत्मां, सर्व जीवो सुख पामो हो.
 प्रभुजी. ॥ ७ ॥ ओगणीश अठ्योत्तर चैत्र सुदि,
 त्रयोदशो रविवारे; प्रभु महावीर जन्म महोत्सव,
 गायो हर्ष विचारे हो. प्रभुजी. ॥ ८ ॥ प्रभु महावीर
 गावो भावो, रत्नादिकथी वधावो, सकल संघमां
 आनंदमंगल, शांति पुष्टि थावो हो. प्रभुजी महावीर
 देव वधावो ॥ ९ ॥ जन्म कल्याणक पूजा गाइ,
 विजापूरमां सारो, बुद्धिसागर आनंद मंगल, पामो
 नरने नारी हो. प्रभुजी महावीर देव वधावो. ॥१०॥

ॐ० प० श्री महावीर जिनेश्वर जन्म कल्या-
 णक पूजार्थं ज० य० स्वाहा. ॥

(३५१)

॥ प्रभु महावीर तीर्थंकर देवनी अष्ट प्रकारी पूजा ॥

परब्रह्म परमात्मा, चोवीशमा जिनराज; वि-
श्वपति जिनपति विभु, सारो वंढित काज. ॥ १ ॥
प्रणमुं महावीर जगपति, जिन शासन सुल्तान;
अष्ट प्रकारे द्रव्यथी, पूजुं तुज जगवान् ॥ २ ॥ म-
नवच कायाथी कर्युं, प्रभु तुज शरणुं बेश; अर्पायो
तुजमां प्रभु, जाग्यो असंख्य प्रदेश. ॥ ३ ॥ जडथी
प्रीति टाळोने, धारी तुजपर प्रीत; तुजपर श्रद्धा
धारतां, रही न जोति अनीति. ॥ ४ ॥ परोक्ष मति
श्रुत ज्ञानथी, परोक्ष तुं परखाय; केवलज्ञाने तुं
प्रभु, प्रत्यक्ष घट पेखाय. ॥ ५ ॥ तुज आगमना
अनुजवे, अनुभव्यो जिनदेव; द्रव्यभाव पूजा
रथी, करुं तुजरूपनो सेव. ॥ ६ ॥ अनंत गुण प-
र्यायनो, शुद्धि करवा काज; निज आतम तुज सा-
थमां, योज्यो करो सनाथ. ॥ ७ ॥ तुज गुण

(३५२)

गातां ध्यावतां, स्तवतां सर्व प्रकार; निज आत्मनी
शुद्धता, पूज्यपणुं निर्धार. ॥ ८ ॥

प्रथमा जलपूजा.

श्रद्धा प्रीति जलवडे, पूजो महावीर देव; स-
म्यग् दृष्टि योगथी, नासे मिथ्या टेव. ॥ १ ॥ श्रद्धा
प्रेमने सत्यनी-, जल पूजा सुखकार; सम्यग् दृष्टि
भक्तने, ऋक्ति शिव देनार. ॥ २ ॥ द्रव्यभाव सम्य-
कत्वथी, तुज सेवक नरनार; निश्चय मुक्तिपद वरे,
जमे नहीं संसार. ॥ ३ ॥

सब जन धरम धरम मुख बोले. ए राग.

प्रभु महावीर जगत् जयकारो, तीर्थकर उप-
कारीरे. प्रभु ॥ तुजपर श्रद्धा प्रीति धारी, कीधुं श-
रण तुज भारी; ॐ अहँ महावीर प्रभुजी, जापे ल-
गनी धारीरे. महावीर० ॥ १ ॥ शुद्ध गुण पर्यायना
योगै, निज उपयोगे सुधारी; प्रभु तुज साथे मळि-

(३५३)

यो हळियो, लेजो झट उद्धारीरे. महावीर० ॥ २ ॥
 तत्वमसि सोऽहं ने ओऽहं, एकता लोनता धारो;
 भूल्यो जडमाया तुज भाने, तुजपर जउ सहु वारीरे.
 महावीर० ॥ ३ ॥ प्रभु तुज रीझनी आगळ जगनो,
 खीज गणुं न लगारो; ज्यां देखुं त्यां तुंहि तुंहि
 तुंहि, प्रगटंती धून भारीरे. महावीर० ॥ ४ ॥ ल-
 क्ष्मी सत्ताथी न पमातो, निराकार निर्धारो; श्रद्धा
 प्रीति उपयोगे प्रभु, मळतो तुं सुखकारीरे. महावीर०
 ॥ ५ ॥ श्रद्धा प्रीतिं जल पूजाथी, पूजुं जग हित-
 कारी; ज्ञानानन्द जे अंशे प्रगटे, पूजाफल निर्धा-
 रीरे. महावीर० ॥ ६ ॥ जगनो माया मन परुछाया,
 मुंजुं नहीं त्यां लगारी; बुद्धिसागर प्रभुमहावीर,
 लेजो हवेतो उगारीरे. महावीर० ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म
 जरा मृत्यु निवारणाय, श्रीमते महावीर जिनेन्द्राय,
 जलं यजामहे स्वाहा ॥

(३५४)

द्वितीया चंदन पूजा.

प्रभु महावीर गुण घणा, वैखरीथी न कथाय;
 परा पश्यंती भासता, अनंत तुज महिमाय. ॥ १ ॥
 धर्म क्षमा चंदनथको, पूजुं प्रभु तुज अंग; जाणं-
 तां तुज धर्मने, लाग्यो अविहमरंग. ॥ २ ॥ एक-
 वार तुज आगमे, जो प्रभु जाण्यो जाय; तो भव-
 ताप रहे नहीं, निश्चय ए निर्माय. ॥ ३ ॥

॥ प्रभु सुमतिरे सुमति आपो प्यारा, मुज
 प्राणतणा आधार ॥ ए राग. ॥

प्रभु महावीररे तुज साथे रंग लाग्यो, म्हारो
 अंतर महावीर जाग्यो; प्रभु गुरुगमथी तुं जणायोरे,
 पूरा प्रेमथको परखायोरे, धातोधातेरे मळियो आ-
 नंद पायो, रोमेरोमे प्रभु रंगायो. प्रभु. ॥ १ ॥
 लागे नहि तुजवण कोइ प्यारंरे, नहीं तुजवण कोइ
 जग म्हारंरे; मोह मारेरे तुजथी मेळ सुहातो, भेद

(३५५)

जागे जाण्यो जातो. प्रभु. ॥ २ ॥ गुण अनंत पर्याय
 दरियोरे, बीजा सात्विक गुणगण भरियोरे, उपदेशेरे
 तार्या जीव करोडो, जडे नहीं तुज जगमां जोडो.
 प्रभु. ॥ ३ ॥ प्रभु देह छतां साकारारे, देहातीत
 थतां निराकारारे; यया सिद्ध ज रे पूर्ण असंख्यप्र-
 देशो, अरिहंत अलख ब्रह्म देशी. प्रभु. ॥ ४ ॥ जे
 आतम नहि ते शुं? मागुंरे, मेंतो मागणपणुं हवे
 त्यागुंरे; प्रभु परखीरे निष्कामी थै जाग्यो, तुज लगनी-
 ण घट जाग्यो. प्रभु. ॥ ५ ॥ पूर्ण प्रभुथी पूर्ण रंगायोरे,
 पूर्ण आनंद घटमां ठायोरे; बुद्धिसागररे पूर्णनी
 पूरण पूजा, उपयोगे महावीर पूज्या. प्रभु. ॥ ६ ॥

ॐ ० ५० महावीरं जिनेन्द्राय, चंदनं. य. स्वाहा.

॥ तृतीया पुष्पपूजा. ॥

प्रभु महावीर जक्तिथी, मुक्ति लहे नरनार;
 प्रभु गुण पुष्पनी मालथी, पूजो प्रभु जयकार. ॥१॥

(३५६)

जैनधर्म श्रद्धा धरो, सर्व संघनी सेव; प्रभु महावीर
 देवनी, पूजानी ए टेव. ॥ २ ॥ प्रभु महावीर उप-
 दिश्यां, षड् द्रव्यो नव तत्त्व; सत्य गणीने वर्तवुं;
 ए. प्रभु पूजा सत्त्व. ॥ ३ ॥

निशानी कहा बतावुंरे. ए राग.

प्रभु महावीर तुं प्यारोरे, सर्व विश्व आधार.
 प्रभु० ॥ १ ॥ तुज हृदयथी प्रगटियोरे, जैनधर्म छे
 सत्य; सकल संघनी सेवनारे, तुज पूजानुं कृत्य.
 प्रभु० ॥२॥ केवलज्ञानी तुं प्रभुरे, तुज वचनानुसार;
 वर्तवुं पुष्पनी पूजनारे, धरवा धर्माचार. प्रभु० ॥२॥
 मुज मन मन्दिरमां वसोरे, क्षण पण थाओ न दूर;
 तुज विरहो न खमी शकुंरे, रहेशो हजराहजूर.
 प्रभु० ॥ ३ ॥ नय निक्षेप प्रमाणथीरे, जैनागम अ-
 नुसार; प्रभु तुज ध्यान समाधिथीरे, प्रगट्यो रस
 जयकार. प्रभु० ॥ ४ ॥ अनेकांत सत्तामयीरे, अनंत

(३५७)

गुण आधार; एक आधार प्रभु तुंहिरे, आनंदमय
निर्धार. प्रभु० ॥ ५ ॥ सेवा आदि गुणमयीरे, सा-
त्विक पुष्पनी माल; प्रभु महावीर कंठमारे, स्था-
पंता कल्याण. प्रभु० ॥ ६ ॥ तुज स्वरूप थइ तुज
जजुंरे, चढता जावोछास; बुद्धिसागर आतमारे, आ-
नंद अनुभव खास. प्रभु० ॥ ७ ॥

ॐ प० महावीर जिनेन्द्राय पु० य० स्वाहा ॥

चतुर्थी धूप पूजा.

देव गुरुने धर्मनी, श्रद्धा समकित खास; गुरु
पासे समकित ग्रही, टाळो मिथ्यावास. ॥ १ ॥
खेद भीति ने द्वेष वण, प्रभुने पूजे भक्त; देहादि
जडसंगी पण, मन नहि जरु आसक्त. ॥ २ ॥ प्रभु
नामना जापनो—धूप करी नरनार; प्रभुने पूजे प्रेम-
थी, कर्म टळे निर्धार. ॥ ३ ॥

(३५८)

ए गुण वीरतणो न विसारु, संचारु दिन रातरे.

ए राग.

ॐ अर्हं महावीर जिनेश्वर, जाप जपुं दिन रा-
 तरे; प्रभु वण बीजुं कांश न इच्छुं, मात पिता तुं
 त्रातरे. ॐ अर्हं० ॥ १ ॥ परापश्यंती मध्यमा वैखरी,
 जापे टळे सहु पापरे; राग द्वेष न पासे आवे, जाप
 जपंतां अमापरे. ॐ अर्हं० ॥ २ ॥ ज्यां त्यां अंतर
 बाहिर धारणा, त्राटक तुज उपयोगरे; जीभ न हाले
 मानस जापे, प्रगटे आनंद जोगरे. ॐ अर्हं० ॥ ३ ॥
 जड चेतन सहु विश्वमां प्रभुनी,—सत्ता धारणायोगरे;
 आत्ममहावीरसत्ता प्रगटे, थातो कर्म वियोगरे.
 ॐ अर्हं० ॥ ४ ॥ प्रभु तुज जापना धूपथी नासे, दु-
 र्बुद्धि दुर्गंधरे; क्षण क्षण आत्म शुद्धि वृद्धि, आ-
 तम थाय अबंधरे. ॐ अर्हं० ॥ ५ ॥ प्रभु जापे प्रभु
 घटमां प्रकाश्या, प्रगटो सुखनी खुमारीरे; बुद्धिसागर
 महावीर लगनो, प्रगटी न उतरे उतारीरे. ॐ अर्हं० ॥ ६ ॥
 ॐ० प० महावीर जिनेन्द्राय—धूपं यजामहे स्वाहा ॥

(३५९)

॥ पंचमी दीपक पूजा ॥

मतिश्रुत ज्ञानना दीपके, पूजा महावीर देव;
 करतां दुर्गुण दोष सह, नासे ठे ततखेव. ॥ १ ॥
 मिथ्या तम दूरेटळे, दीपक पूजा योग; केवल ज्ञा-
 नने दर्शने, मुक्तिपुरो संयोग. ॥ २ ॥ तिरोभाव निज
 ऋद्धिनो, आविर्जाव जे थाय; आत्ममहावीर सि-
 द्धता, देहछतां सोहाय. ॥ ३ ॥

आशा औरनको क्या कोजे. ए राग. आशाउरी. ॥

घटमां महावीर जिनवर भास्या, आपो आप
 प्रकाश्या. घटमां० चौदलोक आकारे मनुष्यनुं, तनु
 मन्दिर जयकारी; असंख्यप्रदेशी आत्ममहावीर,
 शोचंतुं सुखकारी. घटमां० ॥ १ ॥ गुरुगम ज्ञाननी
 कुंचीयोगे, समकित द्वार उघाडयुं; मतिश्रुत आखे
 अनंत ज्योति, प्रभुनुं रूप निहाळ्युं. घटमां० ॥ २ ॥
 अनहद नादनो घंट वगाडयो, लळी लळी नमो

(३६०)

प्रभु पाये; आनन्द प्रगटयो अतिशय चारी, त्रण्य
 भुवन न समाये. घटमां० ॥ ३ ॥ दिल फानस मन
 कोडीयामां, प्रीति घृत पूर्यु सारुं; सद्बिचार दीवेट
 करी शुच, ज्ञानाम्नि उजियारुं. घटमां० ॥ ४ ॥ धर्म
 बुद्धिनो दीपक एवो, झळहळतो प्रभु ज्योते; प्रजु
 महावीर पासे शोभे, क्षयोपशम उद्योते. घटमां०
 ॥ ५ ॥ क्षयोपशमना ज्ञान दीपकथी, महावीर जि-
 नवर पूज्या; बुद्धिसामर गुरुकृपाए, सत्य प्रकाशे
 सूज्या. घटमां० ॥ ६ ॥

ॐ० प० महावीर जिनेन्द्राय—दीपं य० स्वाहा.

षष्ठी अक्षत पूजा.

अक्षत महावीर रूपनी, अनंत झळहळ ज्योत;
 अक्षतथो प्रभु पूजतां, त्रण्य भुवन उद्योत. ॥ १ ॥
 दया दान दमशीलने, संतोषे महावीर; पूजतां निज
 आत्मा, शुद्ध बने महावीर. ॥ २ ॥ सात्त्विकने जे

(३६१)

सहज ठे, जाणी गुणगण बेश; प्रभु महावीर पूजतां,
रहे न मिथ्याकलेश. ॥ ३ ॥



राग. आशावरी. ॥

महावीर अकलकला प्रभु त्हारी, सर्व विश्वना
परमेश्वर छो. सकल जगत् उपकारी महावीर० ॥
पृथ्वी थाळी भानु शशी बे, आरती मंगल
भारी; महा मेघनां वाजां वागे, विजळी महिमा
भारी. महावीर० ॥ १ ॥ वेदो आगमो महिमा
गावे, ऋषियो ध्याइ गयारी; व्याप्यने व्यापक
सद्सद्द्रूपो, गुणपर्याय मयारी. महावीर० ॥
॥ २ ॥ सद्गुणरूपके पंच महाचूत, ज्ञाने शोभी
रह्यारी; अनंत गुण गणना तमे दरिया, आविर्जावे
रह्यारी. महावीर० ॥ ३ ॥ चारगति चूरक स्वस्ति-
कने, रत्नत्रयी पुंज धारी; सिद्ध शिखा सिद्ध चिह्न
करीने, पूजुं भाव वधारो० ॥ ४ ॥ नयनिक्षेपा भंग

(३६२)

विकल्पे, ध्यान दशा छे विचारी; बुद्धिसागर शुद्ध
उपयोगे, महावीर जग जयकारी. महावीर० ॥ ५ ॥

—
सतमी नैवेद्यपूजा.

बाह्यांतर तुज रूपने, जाणे भक्त गणाय; तुज
पर श्रद्धा धारतां, मुज मन निर्मल थाय. ॥१॥ चौद
भुवनमां आशुड्यो, पड्युं न क्यांये चेन; पण तुजमां
मन धारतां, प्रगटो सुखनी घेन. ॥ २ ॥ वर्धमान
महावीर तुं, एक खरो आधार; तुजपर स्वार्पण सह
कर्युं; तुज शरणुं सुखकार. ॥ ३ ॥

—
नाथ कैसे गजको बंध बुझायो. ए राग.

प्रभु तुज आनंदरस बलिहारो, तीर्थकर
अवतारी. प्रभु० अनंत भवमां ठाम न ठरियो, दुःख
लह्यो बहु भारी; बाहिरजड रसथी रंगायो, तृप्ति
थई न लगारी. प्रभु० ॥ १ ॥ परमात्म तुज आनंद

(३६३)

रसियो, थातां प्रगटी खुमारी; कोटि प्रयत्नो कोइ
करे पण, उतरे नहि ते उतारी. प्रभु तुज आनंद
रस बलिहारी. ॥ २ ॥ तुज रस पामे विषयरस छूटे,
मनहुं ठरे निर्धारी; सेवा भक्ति आत्मज्ञाने,
तुज रस मळतो भारी. प्रभु० ॥ ३ ॥ कोटि उपाय
करे, जन कोइ, सत्यानन्दने माटे; पण जड जगथी
न आनंद पामे, आनंद छे तुज हाटे. प्रभु० ॥ ४ ॥
अमृत आस्वाद्या पढी विषना,—पाननो प्रेम न जागे,
एकवार तुज रसने पामे, मन न रहे जडरागे. प्रभु०
॥ ५ ॥ क्षयोपशम आत्म रस पामी, क्षायिक आ-
नंद माटे; सहेजे तुजमां मन रंगायुं, माल छे शिरने
साटे. प्रभु० ॥ ६ ॥ आनंदरस नैवेद्ये पूजुं, बाह्य
नैवेद्यथी पूजुं; बुद्धिसागर महावीर पामी, बीजे
क्यांये न मुंऊ. प्रभु० ॥ ७ ॥

ॐ० प० महावीर जिनेन्द्राय—नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥

(३६४)

अष्टमी फलपूजा.

महावीरमां मन धरी, चालंतां व्यवहार; आ-
सक्ति वण आतमा, प्रभुपद पामे सार. ॥ १ ॥ वा-
ह्यांतर अतिशयी प्रभु, महावीर जिन परखाय; श्रद्धा
प्रीति स्वार्पणे, मुक्ति अंते थाय. ॥२॥ प्रभु महावीर
तुं धणी, सर्व विश्वनो देव; निष्कामे दिक्षमां धरो,
करुं ताह्यरी सेव. ॥ ३ ॥

राग सारंग. प्रभु निर्मल दर्शन कोजोए. ए राग.

प्रभु वीर !!! थयो तुज रागियो, आतमज्ञाने
जागियो. प्रभु० इन्द्रादिक पद सुख नहीं इच्छुं, तुज
स्वरूपे लागियो; भव मुक्तिमां समवृत्ति थै, नहि
त्यागी वैरागियो. प्रभु० ॥ १ ॥ जरु जगमां त्याग
ग्रहणनी वृत्ति, टळतां थयो सौजागियो; बुद्धिसागर
प्रभु महावीर, परमानंद फल चाखियो. प्रभु० ॥२॥

(३६५)

विनातिपणे हुं विनकुं, घेर आवोने ढोला. ए राग.

क्षयोपशम उपशम फले, प्रभु पूज्या स्वभावे;
 निमित्ते साधन साधना, साधुं प्रीतिजावे. क्षयोप-
 शम० ॥ ३ ॥ प्रभु पूजन फल ज्ञानने, आनंद रस
 लीधुं; प्रभु रीझे जग खीजमां, लेश चित्त न दीधुं.
 क्षयोपशम० ॥ ४ ॥ बाकी क्षायिक भावथी, पूजन
 फल रहियुं; शुद्धातम तुज रंगमां, मुज मन गहग-
 हियु. क्षयोपशम० ॥ ५ ॥ उत्पत्ति व्यय ध्रौव्यथी,
 सर्व द्रव्य प्रमाण्यां; सम्यग् दृष्टि योगथी, तुज व-
 चनो जाण्यां. क्षयोपशम० ॥ ६ ॥ देव गुरुने धर्मनी,
 भक्ति, -व्यवहारे; रहियो प्रभु तुज आणथी, उपयोग
 विचारे. क्षयोपशम० ॥ ७ ॥ सात्विक आदि मोहना,
 पडदामां रहेलो; बुद्धिसागर आतमा, देखी मळियो
 मेळो. क्षयोपशम० ॥ ८ ॥

(३६६)

कलश धन्याश्रो.

कीधी कीधीरे प्रभु महावीर पूजा कीधी. आ-
 नंद मंगल लोखा प्रगटी, भोगवी आतम ऋद्धिरे.
 प्रभु० ॥ १ ॥ द्रव्यने ज्ञावथी गृहीने पूजा, त्यागीने
 ज्ञावथी सिद्धि; प्रभु गातां ध्यातां स्तवतां सुख,
 अष्ट सिद्धिनी समृद्धिरे. प्रभु० ॥ २ ॥ अयोगिणश
 अठयोत्तर वैशाखी, वदि चोथने सोमवारे; विद्या
 पुरमां पूजा रची शुज, भवी जननां दुःखवारेरे.
 प्रभु० ॥ ३ ॥ प्रभु महावीर पूजायोगे, जैन संघोन्न-
 ति थाशो; जैन धर्म आराधी भव्यो, परमानंदने
 पाशोरे. प्रभु० ॥ ४ ॥ प्रभु पूजा भणतां ने गातां,
 थाशो संघ समृद्धि; बुद्धिसागर ऋद्धि वृद्धि, कीर्ति
 जय शिव सिद्धिरे. प्रभु० ॥ ५ ॥

(३६७)

श्री घंटाकर्ण महावीर पूजन विधि.

श्री शांति स्नात्र अष्टोत्तरी स्नात्र तथा प्रतिष्ठा प्रसंगे पूर्वाचार्य मुनियोए घंटाकर्ण महावीर मंत्रयंत्रनी थाळी थापवानुं जणाव्युं छे अने ते प्रमाणे वर्तमानमां प्रवृत्ति थाय छे. तथा देवप्रतिष्ठा शांति स्नात्र काले घंटाकर्ण महावीरना मंत्रनो १०८ वार जाप करीने सुखडी सहित मंत्रनी स्थाळी बांधो स्थापवामां आवे छे. घंटाकर्ण महावीरनी श्री महुडो (मधुपुरी) गाममां श्री पद्मप्रभु जिन मंदिरनी बहार देरी ठे, तेमां घंटाकर्ण महावीरनी मूर्ति स्थापवामां आवो छे. घगा भक्तोना आग्रहथी वीरनी पूजा रचवामां आवो ठे, तथा आरती रचवामां आवी छे. गुरुगम पूर्वक पूजा जणाववी अने करवी. शासन रक्षक वीर तरीके पूर्वाचार्योए घंटाकर्ण महावीरने स्थाप्या ठे. घंटाकर्ण महावीर कटप बे त्रण जातिना छे. कलिकालमां शासन प्रभावक वीरना अनेक चमत्कारो थाय ठे. सम्यग् दृष्टि वीर ते सम्यग् दृष्टियोने स्वधर्मी तरीके

(३६८)

शक्ति करवा योग्य ठे. परमात्म महावीर देवना भक्त रागी वीरने स्वधर्मी तरीके मानवामां पूजवामां अतिचार नथी. स्वधर्मी तरीके श्री घंटाकर्ण महावीरनी सहाय इच्छवानी जेओनी इच्छा होय तेओण घंटाकर्ण महावीरनी पूजा आदिथी आराधना करवी. मिथ्यात्वी देव देवीनी सहाय इच्छवा करतां सम्यग् दृष्टि स्वधर्मी देव वीरनी सहाय इच्छवी ते विशेष उत्तम ठे. गीतार्थ आचार्य मुनि मंत्र ज्ञाताओनी पासे रही मंत्र, विद्या, देवोपासना वगेरेनुं रहस्य समजवुं. जेओने चारनिकायना स्वधर्मी देवादिनी सहायादिनी इच्छा न होय, तेओने माटे तो वीरादिनुं पूजन नथी. इत्यादि सर्व बाबत गुरु गमथी जाणवी.

(३६९)

जैन शासन भक्त श्री घंटाकर्ण महावीर पूजा.

परब्रह्म परमात्मा, महावीर जिनराज; इन्दा-
 दिक पूजे सदा, सर्व देव शिरताज ॥ १ ॥ चोवी-
 शमा तीर्थकरा, विश्वोद्धारक देव; सर्व देवने देवीओ,
 करती प्रेमे सेव ॥ २ ॥ यक्षयक्षिणी योगिनी, प्रभु
 पद ध्यावे बेश; बावन वीरो सेवता, टाळे जविना
 क्लेश ॥ ३ ॥ सर्व वीरमां श्रेष्ठ जे, महावीर शिर-
 दार; घंटाकर्ण विराजता, प्रभु जक्त अवतार ॥४॥
 परमात्म महावीरना, परमजक्त बलवंत; घंटाकर्ण
 प्रसिद्ध छे, साझ करे गुणवंत ॥ ५ ॥ प्रभु महावीर
 देवना, भक्तो नरनेनार; तेओनां संकट टळे, समरे
 स्हाय थनार ॥ ६ ॥ सम्यग्दृष्टि भक्त ठे, घंटा-
 कर्णजी वीर; साधर्मिक जक्ति करे, प्रगटे आत्म
 धीर ॥ ७ ॥ साधर्मिक महावीरनी, पूजा गृही नर-
 नार; करतां समकित निर्मळुं, करतां धरो दिलप्पार.
 ॥ ८ ॥ त्यागी मुनिवर कारणे, धर्म प्रभावन हेत;
 मंत्र स्मरे गुण बोक्षीने, धर्मवृद्धि संकेत. ॥ ९ ॥

(३७०)

धर्मी रागी समकित्ती, वीर करंतो स्हाय; सम्यग्दृष्टि
 धर्मीने, संकट आव्यां जाय ॥ १० ॥ धूपने दोपक
 पुष्पनी, सुखडी पूजा सार, सुवर्ण आदि वरखथी,
 पूजा छे श्रीकार० ॥ ११ ॥

प्रथमा धूपपूजा.

कानुको न जाणे मोरी प्रीत. ए राग.

घंटाकर्ण महावीर देव, अद्भूत महिमा धारीरे.
 घंटाकर्ण० समरंतां चढता व्हारे, संकट पडियां टाळे,
 त्हारो महिमा अपरंपार, नक्तना रोग निवाररे.
 घंटाकर्ण० ॥ १ ॥ घंटाकर्णना मंत्रे, श्रद्धाथी विधि
 यंत्रे; साधे सिद्धे सघळां काज, गुरुगम भाषित तं-
 त्रेरे. घंटाकर्ण० ॥ २ ॥ प्रत्यक्ष दर्शन आपे, भक्तोना
 मनमां व्यापे; आपे धर्म करणमां साज, कष्टनी कोटो
 कापेरे. घंटाकर्ण० ॥ ३ ॥ त्हारा मंत्रोना जापे, श-
 क्तियो दिखमां छापे: तजरागी नरनेनार, धर्मने ज-

(३७१)

गमां स्थापेरे. घंटाकर्ण० ॥ ४ ॥ महिमा त्हारो जग
गाजे, ज्यां त्यां जय डंको वाजे; समरे रहेशो हजरा
हजूर, त्हारु बिरुद न लाजेरे. घंटाकर्ण० ॥ ५ ॥ व-
नमां रणमां सागरमां, पृथ्वीतलमां अंबरमां; करोने
धर्म कर्ममां साज, दरबारे ने घरमांरे. घंटाकर्ण०॥६॥
धूपे पूजी गुण गावुं, सम्यग् दृष्टि दिल लावुं; बुद्धि-
सागर शासन देव, जगमां स्थापी भावुंरे. घंटा-
कर्ण० ॥ ७ ॥

मंत्र—ॐ घंटाकर्ण महावीराय, सर्व रोगोपद्रव
शमनाय, इष्ट लाभाय. शांति तुष्टि पुष्ट्यर्थं धूपं य-
जामहे स्वाहा.

द्वितीया दीपक पूजा.

सेवक अरज करे छे राज, अमने शिव सुख
आपो. ए राग.

घंटाकर्ण महावीर बळिया धीर, शांति जगमां

(३७२)

पसारो; त्हारो महिमा अपरंपार हो वीर!!! संघमां
 शांति प्रचारो. ॥ मागुं न मागणपेठे स्वार्थे, बाधा
 मान्यता सर्वे; राखे ते नहीं जैनो भक्तो, तुज प्रेमे
 रहियो अगर्वे हो वीर! संघमां० ॥ १ ॥ स्वार्थथी
 मान्यता बाधा वण हुं, धर्मनुं सगपण धारी; दीपक
 करोने प्रेमे पूजुं, निष्काम जाव वधारो, वीर! संघ-
 मां० ॥ २ ॥ याचक थइ तुज पासे न याचुं, आतम
 प्रेमे राचुं; शुद्ध प्रेमथी सगपण साचुं, परमार्थे नित्य
 माचुं हो वीर! संघमां० ॥ ३ ॥ लाज न जावा देजे
 वीरा, सहायक वड धीरा; महिमा न जूठो पडवा
 देजे, समकित्ती गुण हीरा हो वीर!!! संघमां०
 ॥ ४ ॥ धर्मी वीरा साथे रहेशो, धर्मे स्हायने देशो;
 परमार्थे पूजनने वहेशो, कीधुं ध्यानमां लेशो हो
 वीर! संघमां० ॥ ५ ॥ सर्व जगत्मां महिमा छवा-
 यो, उग्यो रवि न लुपायो; साधर्मिक प्रीतिए सुहा-
 यो, कलिमां जागतो गायो हो वीर! संघमां० ॥ ६ ॥
 जेस घटे तेस मित्रनी पेठे, धर्ममां साथो रहेशो; बु-

(३७३)

छिसागर प्रत्यक्ष अनुभव, महावीरनो संदेशो हो
वीर !!! संबमां० ॥ ७ ॥

ॐ घंटाकर्ण महावीराय शांति तुष्टि पुष्ट्यर्थे
दीपं यजामहे स्वाहा ॥

—•—
तृतीया पुष्प पूजा.

दशमे देशावगाशिकेरे. ए राग.

प्रभु महावीर शासनेरे, घंटाकर्ण सुवीर; शा-
सन रसिया देव छेरे, टाळो चक्तनी पीरु हो; ज-
गमां. जैनधर्म प्रसरावजोरे, संघनी व्हारे आवशोरे;
करशो समरे सहाय० ॥१॥ पुष्पनी माळा कंठमांरे,
स्थापी हरखुं चित्त; साधर्मिक देव प्रीतिथीरे, दिलमुं
थातुं पवित्र हो. जगमां० ॥२॥ साधर्मिक देव रीति
ठेरे, प्रार्थ्या वण करे काज; धर्म कष्ट पडतां थकारे,
राखे स्वधर्मी लाज हो. जगमां० ॥३॥ दिव्यौषधीथी
महाबलीरे, देव कृपा सुखकार; मुक्ति पंथमां भक्त-

(३७४)

नेरे, साज घणी करनार हो. जगमां० ॥ ४ ॥ नर-
 नारी जे जे जावथीरे, जावे ते ते जाव; फल्ल पामे
 भावे खरुंरे, देख्या ते ते बनाव हो. जगमां० ॥ ५ ॥
 प्रभु महावीर देवनोरे, तुं वडजक्त छे वोर; विश्वमां
 सर्वत्र जागतोरे, सागरसम गंजोर हो. जगमां० ॥ ६ ॥
 प्रभु महावीरना संघनीरे, सेवामां लय लीन; बुद्धि-
 सागर भक्तिमारे, जलमां ज्युं वर्ते मीन हो. जगमां०
 ॥ ७ ॥

ॐ घंटाकर्ण महावीराय जैनशासन रक्षकाय
 पुष्पं च पुष्पमात्रां यजामहे स्वाहा ॥

चतुर्थी सुखडी नैवेद्य पूजा.

विमला नव करशो उच्चाट. ए राग.

घंटाकर्ण महावीर स्हाये वहेला आवशोरे; प्रेमे
 धर्मीओने स्हाय करीने सुहावशोरे—परमब्रह्म महावीर

(३७५)

मामे, शरण करी जे ठरतो ठामे; तेवा भक्तोनी ज-
 क्तिमा धून लगावशोरे. घंटाकर्ण. ॥ १ ॥ श्रद्धा प्रीति
 प्रेर्या आबो, ज्क्तिविना नथी कोइनो दाबो; जयकर
 मंगलमाला, कीर्तिध्वज फरकावशोरे. घंटाकर्ण. ॥ २ ॥
 क्षणमां पृथ्वीने डोलाबो, क्षणमां मेरुने कंपाबो; एवो
 महिमा त्हारो, शापने ताप शमावशोरे. घंटाकर्ण.
 ॥ ३ ॥ दुर्जन दुष्टोनेज हठाबो, जैनधर्म जगमां
 फेलाबो; प्रभुश्री महावीर नामना जपने जग प्रस-
 रावशोरे. घंटाकर्ण. ॥ ४ ॥ तुज प्रेमी घर मंगलमा-
 ला, पुत्रादिक धन ऋद्धि विशाला; आपी वांछित
 सहुने चित्त प्रसन्न सुहावशोरे. घंटाकर्ण. ॥ ५ ॥
 पुण्योदये तुज साधन मळतुं, श्रद्धा प्रीति योगे फ-
 लतुं; प्रगटी शासन सेवामांही चित्त लगावशोरे.
 घंटाकर्ण. ॥ ६ ॥ प्रत्यक्ष प्रेमे महावीर दीठा, शासन
 देवा लाग्या मीठा; बुद्धिसागर दिलमां प्रभु संदेश
 जणावशोरे. घंटाकर्ण. ॥ ७ ॥

(३७६)

ॐ घंटाकर्ण महावीर जैन शासन रक्षकाय शां-
तिं तुष्टिं पुष्टिं ऋद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु नैवेद्यं यजामहे
स्वाहा ॥



पंचमी श्रीफल पूजा.

आवशो आवशो आवशोरे मुज पासे महावीर
आवशो. श्रद्धा प्रेमना जोरे पधारो, धर्ममां बुद्धि क-
रावशोरे. मुज० ॥ १ ॥ जैन धर्ममां स्वार्पण कारक,—
भक्तने प्रत्यक्ष थावशोरे. मुज० उपर उपरनां लटक
सलामियां, नास्तिक पासे न आवशोरे, मुज० ॥२॥
नाम ने रूपना मोहे मरेखा, भक्तोनी आंखे सुहा-
वशोरे. मुज० संतमां जक्ति पूर्ण धरीने, आतमभावे
लय लावशोरे. मुज० ॥ ३ ॥ शासन रागे धर्म प्रभा-
वक—बनीने प्रभुने जावशोरे; मुज० सकल संघनी
सेवा सारी, परम ब्रह्मपद पावशोरे. मुज० ॥ ४ ॥
तुज पूजाथी धर्मीजनोंनी, धर्म बुद्धि स्थिर थावशोरे.

(३७७)

मुज० बुद्धिसागर ऋद्धि वृद्धि, कीर्ति जय जग पा
वश्येरे. मुज० ॥ ५ ॥

कलश गीत.

गायो माथोरे एम शासन वीरने गायो, पंच
प्रकारे पूजा रचीने, समकित शुद्धि ए छायोरे. एम०
॥ १ ॥ घंटाकर्ण महावीर पूजा, कीर्तनधी मुण्य पासो;
सम्भगृष्टिदेवती स्तुति, करतां हर्षे उभाहोरे.
एम० ॥ २ ॥ तपमच्छ सागर शाखा मांदि, नेमिसा-
गर गुरु रायो; रविसागर गुरु सुखसागर गुरु, जैन-
धर्म फेखायोरे. एम० ॥ ३ ॥ साधु आदि सर्व संघनी,
बुद्धि थासो पसायो; सर्व प्रकारे उन्नति थासो, आ-
शीर्वाद सुहायोरे. एम० ॥४॥ ओगणिश अक्योत्तर
अक्षय त्रीज, त्रिजापुर जयकारो; बुद्धिसागर चढते
पहोरे, सुख पामो नरनारीरे. एम० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं घंटाकर्ण महावीराय, सर्वशुद्धापद्रव सेव
निवासस्थाय, इष्ट फललाभाय फलं यजामहे स्वाहा ॥

ॐ अर्हं महावीर शान्तिः

(३७८)

श्री घंटाकर्ण महावीरनी आरती

घंटाकर्ण महावीर गाजे, जड चेतनजगमहि-
 मा ठाजे; मनवांछित पूरण करनारा, ऋक्तजनोना
 भय हरनारा. घं. आधि व्याधि उपाधि हरता, रोग
 उपद्रव दुःख संहरता. घं० ॥ १ ॥ ऋद्धि सिद्धि मं-
 गल करता, सत्वर सहाये पगळां भरता. घं. तुज
 स्मरणथी वांछित मेळा, भक्तोनी थाती शुभ वेळा.
 घं० ॥ २ ॥ घंटाकर्ण महावीर त्हारी, आरती करतां
 जे नर नारी; आरत चिंता शोक निवारी, धर्मी
 थातां दोषने टाळी. घं० ॥ ३ ॥ गाजी रह्यो जग-
 मांही सघळे; घरमां सागरमां रणवगडे; स्हाय करंतो
 वादे झघडे, दुष्टोथी कंई शुभ न वगडे. घं० ॥ ४ ॥
 देश नगर संघ वर्तो शांति, भक्तजनोनी वधशो
 कांति; महामारी जय संकट नासो, आरोग्य आ-
 नंदे जग वासो. घं० ॥ ५ ॥ मंगल माला घर घर
 प्रगटो, इति उपद्रव विघ्नो विघटो; शांति आनंदने
 प्रगटावो, स्मरतां झट व्हारे आवो. घं० ॥ ६ ॥

(३७९)

आत्म महावीर शासन राज्ये, सेवा कारक जगमां
गाजे; बुद्धिसागर आतम काजे, क्षण क्षण बहेलो
सहाये थाजे. घं० ॥ ७ ॥

गुरुनी आरती.

जय जय गुरुवर जग जयकारी, आरती करतां
आनंद भारी. जय० मही थाळीमां शशी सूरजनी,
आरती कुद्रते प्रेमे उतारी. जय० ॥ १ ॥ पिंड अने
ब्रह्मांडमां मति श्रुत,—आरती थाती जग उपकारी.
जय० केवलज्ञाननो मंगल दीवो, थातो गुरुगम ज्ञान
विचारी. जय० ॥ २ ॥ जरु चेतन सौन्दर्य प्रसारी,
सहेजे आरती करे हितकारी. जय० आरत टाळे
आरती सारी, युगोयुग जीवो गुरु गुणकारी. जय०
॥ ३ ॥ आरती करनारां नरनारी, आनंद पामो मोह
निवारी; समकित दाता गुरु सुखकारी, जग चिंता-
मणि जग उपकारी. जय० ॥ ४ ॥ सेवा भक्ति घृत

(३८०)

भर्युं जारी, कर्मयोज दीवैट ठे सारी; बुद्धिसागर गुरु
 ध्यक्हारी, ताहारी जाउं सदा बखिहारी. जय० ॥५॥

॥ मंगल दीपक ॥

जग गुरु जग जख मंगल दीवो, चतुर गुरु जग
 चिरंजीवो. जग० चन्द्र सूरज ग्रह फरता फेरा, गु-
 रुना प्रकाशे रहे न अंधेरा. जग० ॥ १ ॥ वेदागम
 लुज महिमा गावे, गुरु कृपावडे मुक्ति थावे. जग०
 निश्चय भावथी मंगलरूपी, सदसदरूपी रूपारूपी.
 जग० ॥ २ ॥ पंचभूत उपमा नहीं पावे, अलख क-
 ला नहीं समजी जावे; बुद्धिसागर मंगल माला,
 पासो ऋद्धि वृद्धि विशाला. जग० ॥ ३ ॥

(३८१)

जिनेश्वर देवनी आरती.

अप्सरा करती आरती जिन आगे. ए राग.

जय जिनवर जिनराजजी जयकारी, परमेश्वर
जग उपकारी; जग जीवोने हितकारी, तार्थी नरने
नार. जय० ॥ १ ॥ चन्द्र सूरज तुज आरती रूप
शोभे, तुज महिमाए जग थोजे; तुज महिमा अपार.
जय० ॥ २ ॥ तुज आणाए विश्वमां द्रव्य वर्ते, ज्ञान
आज्ञाएज प्रवर्ते; कोइ लोपे न आण. जय० ॥ ३ ॥
देव देवी नर नारीओ मळी नाचे, तुज रूप गुण
देखी माचे; बनी जक्ति मगन्न. जय० ॥ ४ ॥ कोटि
वर्ष कोटि जीभथी न गवाये, कोटि दिलमां न ध्या-
तां समाये; परा पश्यती पार. जय० ॥ ५ ॥ घनगर्जे
मोर टहुकतो मन हर्षे, खुशी चातक घन जब वर्षे;
तुज दर्शने मुज मन तरसे, देखी दिलडुं प्रसन्न.
जय० ॥ ६ ॥ मही जलवायु अग्निने नज पंच, तेनी
उपमा न तुजने रंच; तुं तो निरुपम देव. जय० ॥ ७ ॥

(३८२)

सर्वमांही ने सर्वथी प्रभो न्यारा, सदसद् गुण पर्यायाधारा; वीतरागने सर्वज्ञ प्यारा, सर्वदेवना देव. जय० ॥ ८ ॥ परमब्रह्म महावीरजी जगत्राता, तुंही माता पिता ने त्राता; बुद्धिसागर द्यो सुख शाता, संघ मंगल मास. जय० ॥ ९ ॥

(३८३)

मंगल दीपक.

जय जिनवर तुज जग बलिहारो, विश्वोद्धारक
जग उपकारी. जय० मंगलदीवो मंगलकारो, तेथी
पूजुं जिन जयकारी. जय० ॥ १ ॥ द्रव्यभाव मंगल
अवतारी, तुज भक्तें मंगल निर्धारी. जय० जगमां
मोटो मंगल दीवो, विश्व जीवन तुं चिरंजीवो. जय०
॥ २ ॥ शक्ति अनंती अगम अपारा, सर्व जीव दि-
ल्मां छो प्यारा; जय० नय निक्षेपथी निश्चय न्यारा,
सर्व विश्वना छो आधारा. जय० ॥ ३ ॥ गुणपर्याय
अनंता दरिया, अनंत शक्ति स्वप्तावे जरिया. जय०
नवग्रह इन्द्रादिक तुज बंदा, निशादिन सेव करे सू-
रचंदा. जय० ॥ ४ ॥ परब्रह्म महावीर गवाया, अ-
रिहंत परमेश्वर जिनराया; जय० बुद्धिसागर मंगल
राया, पूजी प्रेमे तुज गुण गाया. जय० ॥ ५ ॥



